

# दैश लोपको के संरक्षण

विष्णु प्रभाकर

शान्तरक्षित वृथालय  
कौड़ातीश० सैस्थान  
आरनाथ, बाराणसी

KNC  
50547

## प्रकाशकीय

अपने समय के छोटे-बड़े अनेक देश-सेवकों और सेविकाओं के विषय में गाधीजी ने बहुत ही भावपूर्ण सम्परण लिखे हैं। थोड़े-से-थोड़े शब्दों में उन्होंने ऐसे चित्र खीचे हैं कि पढ़कर हृदय गङ्गाद् हो जाता है। कहीं-कहीं तो ऐसा जान पड़ता है, मानो हम कोई कविता पढ़ रहे हो। जब शब्द हृदय की "हराई" से से उठकर आते हैं तब प्राय ऐसा ही होता है।

गाधीजी के लिखे इन सम्परणों का एक विस्तृत सग्रह 'मेरे समकालीन' के नाम से 'मडल' से प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत पुस्तक की सामग्री उसी-में से ली गई है। बड़े सग्रह में कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी सम्परण आ गये हैं, जो सौभाग्य से आज हमारे बीच विद्यमान हैं। इस पुस्तक में केवल दिवगती में से ही कुछ चुने हुए सम्परण लिये गये हैं। इन सम्परणों को पढ़कर पाठकों को बहुत से देश-सेवकों का परिचय मिलेगा, वह भी ऐसे महापुरुष की कलम से, जिसके स्वयं के जीवन का प्रत्येक क्षण सेवा में ही व्यतीत हुआ था। वैसे तो इस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा, उसीको लाभ होगा, लेकिन युवकों के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी है।

हमे आशा है, प्रत्येक शिक्षा-संस्था के छात्र और छात्राओं के हाथ में यह पुस्तक पहुंचेगी और वे इससे देश-सेवा की शिक्षा प्रह्लाद करेंगे।

३५०३४७  
Accession No. ३५०३४७  
Shantarakshita Library  
Tibetan Institute-Sernath

—संत्री

## आमुख

प्रमिद्ध गायक श्री दलीपकुमार राय से बानचीत कान हुए दन् १९३५ में गायीजी ने कहा था—“जीवन मयस्त कलाजी से प्रेष्ठ है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही भग्न कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका के लिना ज्ञान प्रकार चित्रित की जा सकती है। कला के मूल आधार है जीवन को उद्देश्य इनाम हो जाता है।”<sup>११</sup> साहित्य को इन इन्टिंग्से काना ने अलग नहीं किया डाक्या। दोबन रो इतना अट्टट न त्रै वही जाने के बाद उद्दित नितान भरन और सुगम हो जाता है। नदाचिन ऐसा ही नहिं जो इन्टिंग्से लक्खर गायीजी न इन्हीं श्रो राग से कहा था, ‘दर कान्य और वही साहित्य विरक्जीवी रहेगा जिसे लोग सुगमता ने ये सकेगे, जिसे वे आमानी से पचा सकेंगे।’ ऐसे स्त्रियों द्वा रुजून वही दर सकता है, जिसने साहित्य के विषय में साक्षात्कार दर लिया है, अर्थात् जो उने जीना है। इनीको गायीजी की भाषा में ये वह नहीं है कि जो अच्छी तरह जीना जानता है, वह साहित्यिक है। इस इन्टिंग्से वह एक ऊंचे माहित्यिक एं। निम्नदेव उद्देश्य एक उपर्युक्त के नाम आने नहीं आये, दोर न उन्होंने कर्ता कर्त्ता, नायक या आलूचर दूर बाद दरा है। किंतु परतु पिर भी उहाँक जीवनी-साहित्य, अत्यक्या, उन्द्रचत्र और सम्मरा अविकास द्वारा है, उनकी पूजी सहज ही उहाँ प्रथम श्रेणी वे लेखकों द्वारा देखती है।

उनकी जन्मदाता (अथवा सत्य के ग्राहों) एक अप्र्यवश्य है। वह सर्व दृष्टियों से इन क्षेत्र में स्थापित सभी परपराजी को खड़-हट नरनवारण कातिवारी पुस्तक है। उनके दोर-से-दोर त्रिरेधी भी उसकी महानदा दो मुक्त कठ से स्वीकार करते हैं।

‘वस्तुतः’ गाधोजी ने सच्चे अर्थों में ‘आत्मकथा’ लिखी है। जीवन में यदि कुछ गोपनीय रह जाता है तो आत्मकथा अधूरी है। सत्य और अहिंसा का परीक्षण करनेवाला वैज्ञानिक अधूरी आत्मकथा नहीं लिख सकता। जिस प्रकार उन्होंने अपना विश्लेषण करते समय सत्य को नहीं छोड़ा है, उसी तरह दूसरों के बारे में लिखते समय उन्होंने अहिंसा को अपना आधार बनाया है। इसलिए उनके साहित्य में जहा उनकी पारदर्शिनी दृष्टि का चमत्कार है, वहा वह मानव के सहज सौदर्य सहानुभूति से भी आलावित है। जब कभी उन्होंने किसीके बारे में लिखने के लिए कलम उठाई है, अपनी सरल, सुवोध और सुगठित भाषा में उस वर्ण्य व्यक्ति का बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण चित्र उतारकर रख दिया है।

वह कभी लिखने के लिए ही किसीका जीवन-वृत्त या सस्मरण लिखने चैठे हो, यह तो उनके लिए सभव नहीं था, परन्तु अपने बहुधधी सार्वजनिक जीवन में उन्हें असत्य छोटे और बड़े व्यक्तियों के सफर्क में आना पड़ा था। केवल भारत ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में भी अनेकानेक देशी और विदेशी व्यक्तियों से उनका सबध रहा था। बहुतों से वह सबध अति प्रगाढ़ और अत्मीयता से छलकता हुआ था। बहुतों के साथ उन्होंने अपने सधर्षमय जीवन के अनेक वर्ष बिताये थे। कुछ के साथ वह कुछ ही दिन रहे थे। उनमें अनेक उनसे बड़े थे, जिनसे उन्होंने बहुत-कुछ सीखा था। बहुत-से उनसे प्रेरणा लेते थे और उन्हे अपना आराध्यदेव मानते थे। बहुत-से उनके विरोधी भी थे, जिनसे उन्हे टक्कर लेनी पड़ती थी। ऐसे भी लोग थे, जिनसे उनका कोई विशेष संबध तो नहीं था, पर किन्हीं विशेष कारणों से गाधीजी को उन व्यक्तियों से रुचि थी। इबसब व्यक्तियों में जाति, लिंग, वर्ण या वर्ग का कोई भेद नहीं था। उनमें राजनीति के धुरधर पडित और साधारण स्वयंसेवक, धर्मचार्य और श्रद्धालु भक्त, समाट और सेवक, पृजीपति और मञ्जदूर, विद्रोही और प्रतिक्रियावादी सभी थे। सभीके बारे में उन्होंने समान भाव और समान रूप से लिखा है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, लिखने के ये अवसर कभी पूर्व योजना के अनुसार नहीं आये। उस बहुधधी व्यस्त जीवन में न जाने कब किसपर लिखना वड़ा जाय, यह कोई नहीं जानता था। फिर भी ऐसे अवसर बहुत आते थे और

साधारणतया उनका वर्णकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

१. गांधीजी अपने सहयोगियों, समाज के मूक सेवकों या किसी रूप में प्रख्यात व्यक्तियों की मृत्यु पर समवेदना और श्रद्धाजलि के रूप में लिखा करते थे।

२. जब उनके सहकार्मियों और सहयोगियों पर आक्षेप होते थे, तब उनका निराकरण और समाधान करने के लिए उन्हे लिखना पड़ता था।

३. राष्ट्रीय महासभा के सभापति पद के लिए चुने जानेवाले व्यक्तियों के बारे में चुनाव के पूर्व या पश्चात् वह कभी-कभी लिखते थे।

४. अपने आदोलनों में भाग लेनेवालों और उनके विरोधियों के विषय में उन आदोलनों के दौरान में वह लिखते थे।

५. 'आत्मकथा' और 'दलिल अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' आदि पुस्तकों में तत्सबधी व्यक्तियों का वर्णन आया है।

६. अनेक व्यक्तियों के जन्म-दिन या जयती आदि के अवसर पर पत्रों को सदेन और शुभ कामना के रूप में उन्होंने लिखा है।

७. कभी-कभी विशुद्ध सपादकीय कर्तव्य को निबाहने के लिए लिखना पड़ता था।

८. निजी पत्रों में व्यक्तियों की चर्चा आ जाती थी।

यदि उनके साहित्य का काल-क्रम से अध्ययन किया जाय तो एक बात ज्ञात होगी कि शुरू में वह व्यक्तियों के बारे में अधिक लिखते थे, परतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह लेखन कम होता गया। जब से उन्होंने 'हरिजन' पत्रों का प्रकाशन किया, तब से तो हरिजन-सेवकों को छोड़कर और किसी-के बारे में वह उन पत्रों में नहीं लिखते थे। इन पत्रों को छोड़कर पुस्तक आदि लिखने का समय अब उनके पास नहीं रहा था। फिर भी इस सबध में गांधीजी के एक गुण की बात विशेष उल्लेखनीय है। वह सपर्क में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, विरोधी हो या सहयोगी, अधिक से-अधिक आत्मीयता स्थापित करने की चेष्टा करते थे। वह उसकी मानव-सुलभ भावनाओं को छूकर उससे बातें करते थे। सबसे पहले वह मानव थे और दूसरे को भी मानव समझते थे और यह सब था अहिंसा के कारण। इस दृष्टि से उनके स्स्मरण अध्ययन की वस्तु है।

जैसे वह सरल और सशक्त भाषा लिखने में लासानी थी, वैसे ही वह शब्द चित्र खीचने में भी बहुत कुशल थे। एक तो अपने जीवन के प्रति निर्दिष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण (सत्य) के कारण, दूसरे विभिन्न विचार और व्यवहार, के इतने अधिक व्यक्तियों के सपर्क में आने के तथा भागवता (अहिंसा) में अपनी आस्था के कारण उनकी परख सही और खरी हो गई थी, और जन दृष्टि पारदर्शी हो जाती है, तो वर्णन स्वत ही सजीव और मर्मिव हो जाता है। वस्तुत किसी भी व्यक्ति का ठीक-ठीक पिल्ले पण कररो में जन्ह अद्भुत कुशलता प्राप्त थी। कम-से-कम और नपे-तुले सार्थक शब्दों में वह वण व्यक्ति के अदर और बाहर का चित्र कागज पर उतारकर रख देते हैं। कुल चित्र देखिये—

“सर फिरोजशाह तो मुझे हिमालय जैसे मालूम हुए, लोकमान्य समृद्ध की तरह। गोखले गगा की तरह। उसमे मैं नंहा सकता था। हिमालय पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है, पर गगा की गोदी में खेल सकते हैं, उसमे डोगी पर चढ़कर तैर सकते हैं।”

“शिष्य होना परम पवित्र, पर व्यक्तिगत भाव है। मैंने १८८८ में दादा-भाई के चरणों में अपनेको समर्पित किया पर मेरे आदर्श से वह बहुत दूर थे। मैं उनके पुत्र के स्थान पर हो सकता था, उनका शागिर्द नहीं हो सकता था। शिष्य का दर्जा पुत्र-रूप से दूसरा जन्म ग्रहण करता है। शिष्य होना अपनी स्वकीय प्रेरणा से समर्पित करना है, जस्टिस रानने से मुझे भय लगता था। उनके सामने मुझे बयान करने का भी साहस नहीं होता था। बदस्तीन तैयबजी पिना की तरह प्रतीत हुए। उन्होंने मुझे सलाह दी कि फिरोजशाह मेहता और रानडे के परामर्श से काम करो। सर फिरोजशाह तो हमारे सरकार बन गये। इसलिए उनकी आज्ञा मुझे शिरोधाय थी। नो कुछ वह कहने, मैं चुपचाप स्वीकार करता। वबद्ध के उस दोर ने मुझे जाना-पालन का मर्म सिखाया। उन्होंने मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाया। उन्होंने आजमाइश भी नहीं की।”

“जिस समय मैं उनसे (लोकमान्य तिलक से) मिला, वह अपने साथियों से धिरे बैठे थे। उन्होंने मेरी बाते सुनी और कहा—‘आपका भाषण सार्व-जनिक सभा में होना जरूरी है, पर आप जानते हैं कि यहां दल गदी है।

उससे ऐसा समाप्ति चाहिए जो किसी दल-विशेष का न हो । यदि इसके लिए आप डॉक्टर भाड़ारकर से मिले तो उत्तम हो ।' मैंने उनकी सलाह स्वीकार की और लौट आया । सिवा इसके कि स्नेहमय मिलाय के भाव प्रदर्शित करके उन्होंने मेरी बवराहट दूर की, नहीं तो लोकमान्य का उस समय मुझपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । डॉक्टर भाड़ारकर ने मेरा उसी तरह स्वागत किया, जिस तरह गुरु शिष्य का करता है । उनके चंहेरे से विद्वत्ता टपक रही थी । मेरे हृदय में श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया, पर गुरु-भवित्व का भाव फिर भी न भरा । वह हृदय-सिहासन उस समय भी खाली रह गया । मूँझे अनेक धीर-भीर मिले, पर राजा की पदवी तक कोई न पहुँच सका ।"

"पर जिस समय मैं श्रीयुत गोखले से मिलने गया, वाते एकदम बदल गई । ... यह मिलन ठीक उसी प्रकार हुआ था, जैसे दो चिर-विछोही मित्री या माता और पुत्र का होता है । उनकी नम्र आकृति देखकर मेरा हृदय शात हुआ । दक्षिण अफ़्रीका तथा मेरे सबध में उन्होंने जिस तरह पूछताछ की, उससे मेरा हृदय श्रद्धा से भर गया । उनसे विदा होते समय मैंने अपने दिल में कहा, 'बस, मेरे मन का आदमी मिल गया ।' ... १९०१ में दूसरी बार दक्षिण अफ़्रीका से लौटा । इस बार मेरी घनिष्ठता और भी प्रगाढ़ हो गई । उन्होंने हाथ में मेरा हाथ लेकर पूछना शुरू किया—'किस तरह रहते हो ? क्या कपड़े पहनते हो ? भोजन कैसा होता है ?' मेरी माता भी इतनी तत्पर नहीं थी । मेरे और उनके बीच मे कोई अतर नहीं था । यह चक्षुराग था, अर्थात् प्रथम दर्शन से ही हृदय में प्रगाढ़ प्रेम का अकुर जम गया था ।"

इस उद्घरण में गांधीजी ने भारत के तत्कालीन नेताओं का जो तुलना-लम्क चित्रण उपस्थित किया है, वह उनकी पारदर्शिनी दृष्टि, उनकी विश्लेषण-शक्ति, उनकी तीव्र और प्रखर अनुभूति को स्पष्ट करता है । गोखले के चित्र में दितनी आत्मीयता है, वह उनके अपने मानवता से छलकते हुए हृदय की आकी है । श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन-चरित में गांधीजी के विचारों की अच्छी-खासी आलोचना की है, पर सबकुछ कहकर उन्होंने लिखा ह—'लेकिन वह अपने भारत को अच्छी तरह जानते हैं ।'

अनुभूति की तीव्रता और वास्तविकता का और भी सुदर चित्रण उनके स्मरणों में हुआ है । घटनाओं और वार्तालाप के द्वारा उन्होंने वर्ण

व्यक्ति की बाहरी और आत्मिक<sup>१</sup> सुदर्शनाकृत्पता की रुदाओं को इस प्रकार उभार दिया है कि इसके पूर्ण अधिक के साथ-साथ व्यक्ति का रहने चित्र हृदय पर पत्थर की लीक बन जाता है। कस्तूरबा गाधी, देवदेवुप-संघोषालवाबूतथा वास्ती देवी आदि के समरण, इस दृष्टि से बहुत ही सुदर बने हैं। बासंती देवी का देशवधु की मृत्यु के बाट, जो चित्र गाधीजी ने खीचा है, वह बहुत ही मालबीय, बहुत ही करण और बहुत ही धर्मार्थ है। भाद्रना को अतिरजन् ने उस करुण चित्र को बहुत ही मशक्त बता दिया है।

ये चित्र किसी उद्घोषित साहित्यिक के द्वारा नहीं लिख गये, बल्कि एक ऐसे मानव द्वारा लिखे गये हैं, जिसका समस्त जीवन 'जीने की कला' के, सत्य के, प्रयोग करने में बीता था, जिसन जीना सीखते-सीखते जिलाने (अहिंसा) को सीख लिया था, जो सबसे पहले और सबसे पीछे मात्र मनुष्य था और ऐसा मनुष्य ही मनुष्य को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा।

इस पुस्तक के सकलन में जिन मान्य व प्रिय बधुओं ने मुझे सहायता दी है, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ।

—विष्णु प्रभाकर

## विषय-सूची

	पृष्ठ
१. हकीम अजमल खा	११
२. डा० मुख्तार अहमद अंसारी	१३
३. बी अम्मा	१६
४. अर्मानिद कौसंची	१८
५. कस्तूरबा गाधी	२०
६. मणनलाल खुशालचंद गाधी	२८
७. गोपालकृष्ण गोखले	३४
८. घोषालबाबू	४५
९. अमृतलाल वी ठक्कर	४७
१०. रवीद्रनाथ ठाकुर	४९
११. लोकमान्य तिलक	५४
१२. अब्बास तैयबजी	६३
१३. देशबंधु चित्तरजनदास	६५
१४. महादेव देसाई	७५
१५. सरोजिनी नायडू	७९
१६. मोतीलाल नेहरू	८३
१७. वल्लभभाई पटेल	८७
१८. जमनालाल बजाज	९१
१९. सुभाषचंद्र बोस	९५
२०. मदनमोहन मालवीय	९९
२१. श्रीमद् राजचंद्रभाई	१०३
२२. आचार्य सुशील रुद्र	११७
२३. लाला लाजपतराय	११६
२४. वासती देवी	१२७
२५. स्वामी श्रद्धानंद	१३२
२६. श्रीनिवास शास्त्री	१४२
२७. नारायण हेमचंद्र	१४७

# देश-सेवकों के संस्मरण

: १ :

## हकीम अजमल खां

एक जमाना था, शायद सन् '१५ की साल में, जब मैं दिल्ली आया था, हकीम अजमल खां साहब से मिला और डाक्टर अंसारी से। मुझसे कहा गया कि हमारे दिल्ली के बादशाह अंग्रेज नहीं हैं, बल्कि ये हकीम साहब हैं। डाक्टर असारी तो बड़े बुजूर्ग थे, बहुत बड़े सर्जन थे, वैद्य थे। वह भी हकीमसाहब को जानते थे, उनके लिए उनके दिल में बहुत कद्र थी। हकीमसाहब भी मुसलमान थे, लेकिन वह तो बहुत बड़े बिड्डान् थे, हकीम थे। यूनानी हकीम थे, लेकिन आयुर्वेद का उन्होंने कुछ अभ्यास किया था। उनके वहा हजारो मुसलमान आते थे और हजारो ग्ररीब हिंदू भी आते थे। साहूकार, धनिक मुसलमान और हिंदू भी आते थे। एक दिन का एक हजार रुपया उनको देते थे। जहातक मैं हकीम साहब को पहचानता था, उन्हे रुपये की नहीं पढ़ी थी, लेकिन सबकी खिदमत की खातिर उनका पेशा था। वह तो बादशाह-जैसे थे। आखिर मेरे उनके बाप-दादा तो चीन मेरे रहते थे, चीन के मुसलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। जितने हिंदू लोग मेरे पास आये, उनसे पूछा किं आपके सरदार यहां कौन है? श्रद्धानंदजी? श्रद्धानंदजी यहां बड़ा काम करते थे। लेकिन नहीं, दिल्ली के सरदार तो हकीमसाहब थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने हिंदू-मुसलमान सबकी सेवा ही की। यह सन् '१५ के साल की बात मैंने कही। लेकिन ब्राद में मेरा ताल्लुक उनसे बहुत बढ़ गया और मैंने उनको और पहचाना।<sup>1</sup>

‘‘वह हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्टो, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे। वह पवके मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देश के रहनेवाले सब लोगों की समान सेवा करते थे।’’

‘‘हकीमसाहब के स्वर्गवास से देश का एक सबसे सच्चा सेवक उठ गया। हकीमसाहब की विभृतिया अनेक थी। वे महज कामिल हकीम ही नहीं थे, जो गरीबों और धनियों, सबके रोगों की दवा करता है। वह थे एक दरबारी देश-भक्त, यानी अगर्चे कि उनका वक्त राजों-महाराजों के साथ मे बीतता था, मगर थे वह पवके प्रजावादी। वह बहुत बड़े मुसलमान थे और उतने ही बड़े हिंदुस्तानी थे। हिंदू और मुसलमान दोनों से ही वह एक-सा प्रेम करते थे। बदले में हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक समान उनसे मुहब्बत रखते थे, उनकी इज्जत करते थे। हिंदू-मुसलमान एकता पर वह जान देते थे। हमारे ज्ञागड़ों के कारण उनके अंतिम दिन कुछ दुखजनक हो गये थे, मगर अपने देश और देश-बधुओं में उनका विश्वास कभी नष्ट नहीं हुआ। उनका विचार था कि आखिर दोनों सम्प्रदायों को मेल करना ही पड़ेगा। यह अटल विश्वास लेकर उन्होंने एकता के लिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि उन्हे सोचने में कुछ समय लगा, लेकिन अत मैं वह असहयोग-आदोलन में कद ही पड़े, अपनी प्रियतम और सबसे बड़ी कृति तिब्बी कालेज की खतरे में डालते वह द्विजके नहीं। इस कालेज से उनका इतना प्रबल अनुराग था, जिसका अदाजा सिर्फ वे ही लगा सकते हैं, जो हकीमजी को भलीभाति जानते थे। हकीमजी के स्वर्गवास से मैंने न सिर्फ एक बुद्धिमान और दृढ़ साथी ही खोया है, बल्कि एक ऐसा मित्र खोया है, जिसपर मैं आँड़े अवसरों पर भरोसा कर सकता था। हिंदू-मुसलिम एकता के बारे मे वह हमेशा ही मेरे रहबर थे। उनकी निर्णय-शक्ति, गंभीरता और मनुष्य-प्रकृति का ज्ञान ऐसे थे कि वह बहुत करके

સહી ફેસલા હી કિયા કરતે થે । એસા આદમી કભી મરતા નહીં હૈ । યદ્વાપિ ઉનકા શરીર અબ નહીં રહા, મગર ઉનકી ભાવના તો હમારે સાથ વરાબર રહેગી ઔર વહ અબ ભી હથે અપના કર્તવ્ય પૂરા કરને કો બુલા રહી હૈ । જબતક હમ સચ્ચી હિંદુ-મુસલિમ એકતા પૈદા નહીં કર લેતે, ઉનકી યાદ બનાયે રખને ક લિએ હમારા બનાયા કોઈ સ્મારક પૂરા હુઆ નહીં કહા જા સકતા । પરમાત્મા એસા કરે કિ જો કામ હમ ઉનકે જીતે-જી નહીં કર સકે, વહ ઉનકી ભૌત સે કરના સીખે ।

હકીમજી કોરે સ્વપ્નદૃષ્ટા હી નહીં થે । ઉન્હેં વિશ્વાસ થું કિ મેરા સ્વપ્ન એક દિન પૂરા હોણા હી । જિસ તરહ તિબ્બી કાલોજ કે ઢારા ઉનકા દેશી ચિકિત્સા કા સ્વપ્ન ફલા, ઉસી તરહ અપના રાજનૈતિક સ્વપ્ન ભી ઉન્હોને જામિયા મિલિયા કે જરિએ, પૂરા કરને કી કોશિશ કી ।<sup>9</sup>

: ૨ :

## ડા. મુસ્તાર અહમદ અંસારી

ડા. અસારી જિતને અન્ધે મુસલમાન હૈ, ઉતને હી અન્ધે ભારતીય ભી હૈ । ઉનમે ધર્મન્નમાદ કી તો કિસીને શંકા હી નહીં કી હૈ । વર્ષો તક વહ એક સાથ મહાસભા કે સહમત્રી રહે હૈ । એકતા કે લિએ કિયે ગયે ઉનકે પ્રયત્નો કો તો સવ કોઈ જાનતે હૈ ઓર સચ્ચી બાત તો યહ હૈ કિ અગર બેલગાવ મે, કાનપુર મે શ્રીમતી સરોજિની નાયડુ ઔર ગોહાટી મે શ્રીયુત શ્રીનિવાસ આયગાર માર્ગ મે ન આતે તો ઇનમે સે કિસી ભી અધિવેશન કે અધ્યક્ષ ડા. અસારી હી ચુને જાતે, ક્યોકિ જબ યે ચુનાવ હો રહે થે તબ ઉનવા નામ પ્રત્યેક આદમી કી જવાન પર થા, પરતુ કુછ ખાસ કારણો સે ડા. અસારી કા હક આગે બઢા દિયા ગયા ઔર અબ જ્ઞાત હોતા:

<sup>9</sup> હિંદી નવજીવન, ૫-૧-૨૮

है कि विधि ने उनके चुनाव को इसीलिए आगे ढकेल दिया है कि वे ऐसे मौके पर आवें जब देश को उनकी सबसे अधिक जरूरत हो। अगर हिंदू-मुस्लिम एकता की कोई योजना दोनों पक्षों को ग्रहण करने योग्य मालूम हो तो नि.सदेह डा० अंसारी ही उसे महासभा के द्वारा करले जा सकते हैं। . . . अकेली यही बात (सर्व-सम्मति से और हृदय से एक मुसलमान को अपना अध्यक्ष चुनना) हिंदुओं की ओर से इस बात का साफ प्रमाण होगा कि हिंदू एकता को दिल से चाहते हैं, और राष्ट्रीय विचारोंवाले मुसलमानों में डा० अंसारी की अपेक्षा साधारणतया मुसलमान जनता में अधिक आदृत कोई नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से तो यही अच्छा है कि अगले साल के लिए डा० असारी ही राष्ट्रीय महासभा के कर्णधार हो, क्योंकि केवल किसी योजना को मजूर कर लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा उसे मजूर कराने की बनिस्बत उसे कार्य में परिणत करना शायद कहीं अधिक जरूरी है। और यदि हम मान ले कि दोनों पक्षों का समाधान करनेवाली एक योजना मजूर हो भी गई तो उसपर अमल करते समय बराबर सावधानी की आवश्यकता होगी। डा० असारी ही ऐसे काम के लिए सबसे अधिक योग्य पुरुष है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रात एकमत से डा० असारी के नाम को ही उस सर्वोच्च सम्मान के लिए सूचित करेंगे, जो कि राष्ट्रीय महासभा के आधीन है।<sup>१</sup>

. . . . .

‘हरिजन’ मे उन सब महान् पुरुषों की मृत्यु पर, जो इस संसार से सिधार जाते हैं, साधारणतया मैं लिखता नहीं हूँ। ‘हरिजन’ एक विशेष प्रवृत्ति से सबध रखनेवाला पत्र है। आम तौर पर उन्हीं व्यक्तियों के स्वर्गवास के विषय में इसमे लिखा जाता है जिनका कि हरिजन-कार्य के साथ विशेष-रूप से संबंध होता है। श्री कमला नेहरू के स्वर्गवास पर मैंने ‘हरिजन’ मे जो

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २१-७-२७

नहीं लिखा उसमे मुझे खास तौर पर अपने ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। ऐसा करके मैंने करीब-करीब अपने साथ जुलम किया। मगर डा० अंसारी के स्वर्गवास पर मुझे कोई ऐसा आत्म-निप्रह करने की जरूरत नहीं। कारण यह है कि वे निस्संदेह हकीम अजमल खां की तरह ही हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के एक प्रतिरूप थे। कड़ी-से-कड़ी परीक्षा के समय भी वह अपने विश्वास से कभी डिगे नहीं। वह एक पक्के मुसलमान थे। हजरत मुहम्मदसाहब की जिन लोगों ने जरूरत के बक्त मदद की थी, वे उनके वशज थे और उन्हें इस बात का गर्व था। इस्लाम के प्रति उनमे जो दृढ़ता थी और उसका उन्हें जो प्रगाढ़ ज्ञान था उस दृढ़ता और उस ज्ञान ने ही उन्हें हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य में विश्वास करनेवाला बना दिया था। अगर यह कहा जाय कि जितने उनके मुसलमान मित्र थे उतने ही हिंदू मित्र थे तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। सारे हिंदुस्तान के काबिल-से-काबिल डाक्टरों मे उनका नाम लिया जाता था। किसी भी कौम का गरीब आदमी उनसे सलाह लेने जाय, उसके लिए बेरोकटोक उनका दरवाजा खुला रहता था। उन्होंने राजा-महाराजाओं और अमीर धरानो से जो कमाया वह अपने जरूरतमद दोस्तों मे दोनो हाथो से खर्च किया। कोई उनसे कुछ मांगने गया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह उनकी जेब खाली किये बगैर लौटा हो, और उन्होंने जो दिया उसका कभी हिसाब नहीं रखा। सैकड़ों पुरुषों और स्त्रियों के लिए वह एक भारी सहारा थे। मुझे इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि सचमुच वह अनेक लोगों को रोते-बिलखते छोड़ गये हैं। उनकी पत्नी बेगमसाहिबा तो ज्ञानपरायण हैं, यद्यपि वह हमेशा बीमार-सी रहती है। वह इतनी बहादुर है और इस्लाम पर उनकी इतनी ऊची श्रद्धा है कि उन्होंने अपने प्रिय पति की मृत्यु पर एक आसू भी नहीं गिराया। पर जिन अनेक व्यक्तियों की मैं याद करता हूँ वे ज्ञानी या फिलासफर नहीं हैं। ईश्वर मे तो उनका विश्वास हवाई है, पर डा० अंसारी मे उनका विश्वास जीवित विश्वास था। इसमें उनका कोई कसूर नहीं। डाक्टर-

साहब की मित्रता के उनके पास ऐसे अनेक प्रमाण थे कि ईश्वर ने जब उन्हें छोड़ दिया तब डाक्टरसाहब भी उनकी मदद तभी लक कर सके, जबतक कि सिरजनहार ने उन्हे ऐसा करने दिया। जिस काम को वह जीवित अवस्था में पूरा नहीं कर सके, ईश्वर करे, वह उनकी मृत्यु के बाद पूरा हो जाय। १

: ३ :

### बी अम्मा

यह मानना मश्किल है कि बी अम्मा का दंहात हो गया है। बी अम्मा की उस राजसी मूर्ति को या सार्वजनिक समारोंमें उनकी बुलंद आवाज को कौन नहीं जानता। बुढ़ापा होते हुए भी उनमें एक नवयुवक की शक्ति थी। खिलाफत और रवराज्य के लिए उन्होंने अथक यात्राएं की। इस्लाम की कटूर अनुयायिनी होते हुए भी उन्होंने देख लिया था कि इस्लाम का कार्य, जहातक मनष्य के बस की बात है, भारत की आजादी पर आधारित है। इसी निश्चय के साथ उन्होंने यह भी महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान की आजादी हिंदू-मुस्लिम-एक्य और खादी के बिना अराभव है। इसलिए वह अविराम एकता का प्रचार करती थी। यह उनके लिए एक अटल सिद्धान्त हो गया था। उन्होंने अपने तमाम विदेशी और मिल के कपड़ों का परित्याग कर दिया था और खादी इस्तेमाल करती थी। मौलाना मुहम्मदअली मुझसे कहते हैं कि बी अम्मा ने उन्हे यह हुवम दे रखा था कि मेरे जनाजे पर सिवा खादी के और कुछ न होना चाहिए जब-जब मुझे उनके बिछौने के नजदीक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तब-तब वह स्वराज्य और एकता की बातें पूछती। उनके बाद ही प्रायः वह खुदाताला से दुआ करती—“या खुदा, हिंदुओं और मुसलमानों

को ऐसी अकल बख्तो कि जिससे ये एकता की जरूरत को समझें और रहम करके स्वराज्य देखने के लिए मुझे जिदा रहने दे । ”

इस बहादुर और भद्र आत्मा की यादगार को बनाये रखने की सबसे अच्छी रीति यही है कि हम सर्व-सामान्य कार्यों के प्रति उनके उत्साह और उमंग का अनुकरण करें । हिंदूधर्म भी बिना स्वराज्य के उतना ही सकट में है जितना कि इस्लाम । परमात्मा करे कि हिंदुओं और मुसलमानों को इस प्रारभिक बात की कदर करने की बी अम्मा-जैसी बढ़ि दे । परमात्मा उनकी आत्मा को शांति और अली भाइयों को उनके सौपे कार्य को जारी रखने की शक्ति दे ।

बी अम्मा की मृत्यु की रात के उस गम्भीर और प्रभावकारी दृश्य का वर्णन किये बिना मैं नहीं रह सकता । उस समय मुझे उनके पास ही रहने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ था । यह सुनते ही कि अब वह अपने जीवन की अतिम सासे ले रही हैं मैं और सरोजिनीदेवी वहां दौड़े गये । उनके कुटुंब के कितने ही लोग आस-पास जमा थे । उनके डाक्टर और हितचितक डा० असारी भी मौजूद थे । वहां रोने की आवाज नहीं सुनाई देती थी, अलबत्ते मौ० मुहम्मदअली के गालों पर से आसू जरूर टपक रहे थे । बड़े भाईं ने बड़ी कठिनाई से अपने शोकावेग को रोक रखा था । हाँ, उनके चेहरे पर एक असाधारण गंभीरता अलबत्ते थी । सब लोग अल्ला का नामोच्चारण कर रहे थे । एक सज्जन अंत समय की प्रार्थना गा रहे थे । ‘कामरेड प्रेस’ बी अम्मा के कमरे के इतना पास है कि आवाज सुनाई दे सकती है । परतु एक मिनिट के लिए वहां के काम मे गडबड नहीं हुई और न मौलाना ने ही अपने सपादकीय कर्तव्यों मे रुकावट आने दी । और सार्वजनिक काम तो कोई भी मूलतवी नहीं किया गया । मौलाना शौकतअली ने तो सपने तक मैं न सोचा था कि मैं अपना रामजस कालेज जाना मुल्तवी करूँगा । वह एक सच्चे सिपाही की तरह मुजफ्फरनगर के हिंदुओं को दिये गये निश्चित समय पर उनसे मिले, हालाकि

बी अम्मा की मृत्यु के बाद उन्हे तुरत ही वहा से चला जाना पड़ा था। यह सब जैसाकि होना चाहिए था, वैसा ही हुआ। जन्म और मरण ये दो भिन्न-भिन्न दशाए नहीं हैं, बल्कि एक ही दशा के दो भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। न मृत्यु से दुखी होने की जरूरत है, न जन्म से खुशी मनाने की।<sup>१</sup>

: ४ :

### धर्मानिंद कौसंबी

शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। इसलिए शायद आप दुख मानना नहीं चाहेगे। वैसे किसी मृत्यु पर हमें दुख मानना चाहिए भी नहीं, लेकिन इसान का स्वभाव है कि वह अपने स्नेही या पूज्य के मरने पर दुख मानता ही है। हम लोग ऐसे बने हैं कि जो अपने काम की डुग्गी पिटवाता फिरता है और राज्य-कारण में उछाले भरता है, उसको तो हम आसमान पर चढ़ा देते हैं, लेकिन मक काम करनेवालों को नहीं पूछते।

कौसंबीजी ऐसे ही एक मूक कार्यकर्त्ता थे। उनका जन्म गोवा में हुआ था। जन्म से वह हिंदू थे, पर उनको ऐसा विश्वास बैठ गया था कि बौद्ध धर्म में अहिंसा, शील आदि जितने बढ़े-चढ़े हैं, उतने दूसरे धर्म में, वेद-धर्म में भी, नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध शास्त्रों के अध्ययन में लग गये और उसमें इतने बड़े विद्वान हो गये कि शायद ही हिंदुस्तान में उनकी बराबरी का और कोई हो। उन्होंन गुजरात विद्यापीठ व काशी विद्यापीठ में पाली भाषा पढ़ाई और अपनी अगाध विद्वत्ता का ज्ञान-दान किया था।

उन्होंने मेरे पास १०००) भेज दिये, जो किसीने उनको दिये थे। उन्होंने मुझको लिखा था कि किसी-

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २३-११-२४

को पाली पढ़ने के लिए लका भेज देना । लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या लका जाकर पढ़ने से किसीको बौद्ध धर्म प्राप्त हो जायगा ? मैंने तो दुनिया में बौद्धों से कहा है कि आपको अगर बौद्ध धर्म जानना है तो आप उसके जन्म-स्थान भारत में ही उसे पायेगे । जहापर वेद-धर्म से वह निकला है, वही आपको उसे खोजना है और शकराचार्य-जैसे अद्वितीय विद्वान्, जो प्रच्छन्न बुद्ध कहलाये, उनके ग्रथों को भी आप समझेगे तब बौद्ध धर्म का गूढ़ रहस्य आप जान पायेगे ।

लेकिन कौसल्बीजी की विद्वत्ता से मैं अपनी तुलना नहीं कर सकता । मैं तो इंग्लैण्ड में भोज खाकर बना हुआ बैरिस्टर हूँ । मेरे पास स्स्कूल का ज्ञान जरा-सा है । अगर आज मैं महात्मा बना हूँ तो इसलिए नहीं कि अग्रेजी का बैरिस्टर हूँ, पर इसलिए कि मैंने सेवा की है और वह सेवा, सत्य और अहिंसा के द्वारा की है । इस सत्य और अहिंसा की पूजा में जो थोड़ी-सी सफलता मुझे मिलती चली गई उसीके कारण आज मेरी थोड़ी-बहुत पूछ है ।

कौसल्बीजी की समझ में यह समा गया कि अब यह शरीर अधिक काम करने के योग्य नहीं रहा है तो उन्होंने अनशन करके प्राण-त्याग करने की ठानी । टड़नजी के कहने पर मैंने उनका अनशन उनकी (कौसल्बीजी की) अनिच्छा से छुड़वाया, पर उनका हाजमा बहुत खराब हो चुका था और कुछ भी खुराक ले ही नहीं सकते थे । तब दुबारा सेवाग्राम में चालीस दिन तक केवल जल पर ही रहकर उन्होंने शरीरात किया । बीमारी में नाममात्र की सेवा और औषधि भी नहीं ली । जन्म-स्थान गोवा में जाने का मोह भी उन्होंने तजा और अपने पुत्र आदि को अपने पास न आने की आज्ञा दी । मृत्यु के बाद के लिए कह गये, मेरा कोई स्मारक न बनाया जाय । शरीर को जलाने या दफनाने में जो सस्ता पड़े वह किया जाय और इस तरह उन्होंने बुद्ध का नाम रटते-रटते अतिम गहरी निद्रा ली, जो हरेक जन्मेवाले को कभी-न-कभी लेनी ही है । मृत्यु हरेक का

परम मित्र है, वह अपने कर्म के अनुसार आवेगा ही। भले ही कोई यह बता दे कि अमुक का जन्म अमुक समय होगा, पर मौत कब आवेगी, यह कोई भी आज तक नहीं बता पाया है।<sup>१</sup>

प्रोफेसर कौसबीजी जो बड़े विद्वान् थे और पाली भाषा में अग्रगण्य माने जाते थे, वह सेवाग्राम-आश्रम में चल बसे। उनके बारे में वहाँ के सचालक बलवत्सिंह का पत्र है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी मृत्यु आज तक मैंने नहीं देखी। यह तो बिल्कुल ऐसी हुई जैसी कबीरजी ने बताई है —

दास कबीर जतन सों ओढ़ी ।

ज्यो-की-त्यों धर दीनी चदरिया ॥

इस तरह हम सभी लोग मृत्यु की मैत्री साध ले तो हिन्दुस्तान का भला ही होने वाला है।<sup>२</sup>

: ५ :

## कस्तूरबा गांधी

तेरह वर्ष की उम्र मे मेरा विवाह हो गया। . . . दो मासूम बच्चे अनजाने ससार-सागर मे कूद पडे। हम दोनों एक-दूसरे से ढरते थे, ऐसा खयाल आता है। एक-दूसरे से शरमाते तो थे ही। धीरे-धीरे हम एक-दूसरे को पहचानने लगे। बोलने लगे। हम दोनों हम-उम्र थे, पर मैंने पति का अधिकार जताना शुरू कर दिया। . . .

कस्तूरबाई निरक्षर थी। स्वभाव उनका सरल और स्वतत्र था। वह परिश्रमी भी थी; पर मेरे साथ कम बोला करती। अपने अज्ञान पर उन्हे असतोष न था। अपने बचपन मे मैंने कभी उनकी ऐसी इच्छा नहीं देखी कि ‘वह पढ़ते हैं तो मे भी पढ़ू।’ उन्हे

<sup>१</sup> प्रार्थना-प्रवचन, ५-६-४७

<sup>२</sup> प्रार्थना-प्रवचन, ८-६-४७

पढ़ाने की मुझे बड़ी चाह थी। .. पढ़ाने की जितनी कोशिशें कीं वे सब प्राय. बेकार गईं। शिक्षक रखकर पढ़ाने के मेरे यत्न भी विफल हुए। इसके फलस्वरूप कस्तूरबाई मामली चिट्ठी-पत्री व गुजराती लिखने-पढ़ने से अधिक साक्षर न हो पाईं।

.. . . . .

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीका मे नहीं, बल्कि देश मे है। दक्षिण अफ्रीका मे बैठे-बैठे मै कुछ-न-कुछ सेवा तो जरूर कर पाता था, परन्तु मैंने देखा कि यहा कही मेरा मुख्य काम धन कमाना ही न हो जाय।

देश से मित्र लोग भी देश लौट आने को आकर्षित कर रहे थे। मुझे भी जचा कि देश जाने से मेरा अधिक उपयोग हो सकेगा।

मैंने साथियों से छुट्टी देने का अनुरोध किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक शर्त पर छुट्टी स्वीकार की। वह यह कि एक साल के अदर लोगों को मेरी जरूरत मालूम हो तो मैं फिर दक्षिण अफ्रीका आ जाऊगा। मुझे यह शर्त कठिन मालूम हुई, परन्तु मैं तो प्रेम-पाश में बधा हुआ था। मित्रों की बात को टाल नहीं सकता था। मैंने वचन दिया। इजाजत मिली।

इस समय मेरा निकट-सबध प्राय. नेटाल के ही साथ था। नेटाल के हिंदुस्तानियों ने मुझे प्रेमामृत से नहला डाला। स्थान-स्थान पर अभिनदन-पत्र दिये गये और हरेक जगह से कीमती चीजे नजर की गईं।

१८९६ मे जब मैं देश आया था तब भी भेटे मिली थी; पर इस बार की भेटो और सभाओं के दृश्यों से मै घबराया। भेट मैं सोने-चांदी की चीजे तो थी ही; पर हीरे की चीजे भी थी।

इनसब चीजों को स्वीकार करने का मुझे क्या अधिकार हो सकता है? यदि मैं इन्हे मजूर कर लू तो फिर अपने मन को यह कहकर कैसे मना सकता हूँ कि मैं पैसा लेकर लोगों की सेवा नहीं करता था? मेरे मवकिलों की कुछ रकमों को क्लोन्कर जारी

सब चीजे मेरी लोक-सेवा के ही उपलक्ष मे दी गई थी। पर मेरे मन मे तो मवकिकल और दूसरे साथियों मे कुछ भेद न था। मुख्य-मुख्य मवकिकल सब सार्वजनिक काम से भी सहायता देते थे।

फिर उन भेटों मे एक पचास गिनी का हार कस्तूरबाई के लिए था। मगर उसे जो चीज मिली वह भी थी तो मेरी ही सेवा के उपलक्ष मे। अतएव उसे पृथक नहीं मान सकते थे।

जिस शाम को इनमे से मुख्य-मुख्य भेटे मिली, वह रात मैंने एक पागल की तरह जागकर काटी। कमरे मे यहाँ-से-वहा टहलता रहा, परतु गुत्थी किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों रुपयों की भेटे न लेना भारी पड़ रहा था, पर ले लेना उससे भी भारी मालूम होता था।

मैं चाहे इन भेटों को पचा भी सकता, पर मेरे बालक और पत्नी? उन्हे तालीम तो सेवा की मिल रही थी। सेवा का दाम नहीं लिया जा सकता था, यह हमेशा समझाया जाता था। घर मे कीमती जेवर आदि मैं नहीं रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। ऐसी अवस्था मे सोने की धंधिया कौन रखेगा? सोने की कठी और हीरे की अगूठिया कौन पहनेगा? गहनों का मोहँ छोड़ने के लिए मैं उस समय भी औरों से कहता रहता था। अब इन गहनों और जवाहरात को लेकर मैं क्या करूँगा?

मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि वे चीजे मैं हरगिज नहीं रख सकता। पारसी रस्तमजी इत्यादि को इन गहनों का टस्टी बनाकर उनके नाम एक चिट्ठी तैयार की और सूबह स्त्री-पुत्रादि से सलाह करके अपना बोझ हल्का करने का निश्चय किया।

मैं जानता था कि धर्मपत्नी को समझाना मुश्किल पड़ेगा। मुझे विश्वास था कि बालकों को समझाने मे जरा भी दिक्कत पेश न आवेगी। अत उन्हे वकील बनाने का विचार किया।

बच्चे तो तुरत समझ गये। वे बोले, “हमे इन गहनों से कुछ मतलब नहीं। ये सब चीजे हमे लौटा देनी चाहिए और यदि जरूरत होगी तो क्या हम खुद नहीं बना सकेंगे?”

मैं प्रसन्न हुआ। “तो तुम बा को समझाओगे न?” मैंने पूछा।

“जरूर-जरूर। वह कहा इन गहनों को पहनने चली है। वह रखना चाहेगी भी तो हमारे ही लिए न? पर जब हमें ही इनकी जरूरत नहीं है तब फिर वह क्यों जिद करने लगी?”

परतु काम अदाज से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ।

“तुम्हें चाहे जरूरत न हो और लड़कों को भी न हो। बच्चों का क्या? जैसा समझा दे, समझ जाते हैं। मुझे न पहनने दो, पर मेरी बहुओं को तो जरूरत होगी। और कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? जो चीजें लोगों ने इतने प्रेम से दी हैं उन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं।” इस प्रकार वाघारा शुरू हुई और उसके साथ अश्रु-धारा आ मिली। लड़के ढूढ़ रहे और मैं भला क्यों डिगने लगा?

मैंने धीरे से-कहा, “पहले लड़कों की शादी तो हो लेने दो। हम बचपन में तो इनके विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। बड़े होने पर जो इनका जी चाहे सो करे। फिर हमें क्या गहनों-कपड़ों की शौकीन बहुए खोजनी है? फिर भी अगर कुछ बनवाना ही होगा तो मैं कहा चला गया हूँ?”

“हा, जानती हूँ तुम्को। वही न हो, जिन्होने मेरे भी गहने उत्तरवा लिये हैं। जब मुझे ही नहीं पहनने देते हो तो मेरी बहुओं को जरूर ला दाओगे। लड़कों को तो अभी से वैरागी बना रहे हैं। इन गहनों को मैं वापस नहीं देने दूँगी और फिर मेरे हार पर तुम्हारा क्या हक है?”

“पर यह हार तुम्हारी सेवा की खातिर मिला है या मेरी?”  
मैंने पूछा।

“जैसा भी हो, तुम्हारी सेवा में क्या मेरी सेवा नहीं है? मुझे से जो रात-दिन मजूरी कराते हो, क्या वह सेवा नहीं है? मुझे रुला-रुलाकर जो ऐरें-गैरों को घर में रखा और मुझसे सेवा-टहल कराईं, वह कुछ भी नहीं?”

ये सब बाण तीखे थे। कितने ही तो मुझे चुभ रहे थे। पर गहने

वापस लौटाने का मैं निश्चय कर चुका था। अंत मे बहुतेरी बातों मे मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। . . .

जिस समय डरबन मे मैं वकालत करता था, उस समय बहुत बार मेरे कारकुन मेरे साथ ही रहते थे। वे हिंदू और ईसाई होते थे, अथवा प्रातों के हिंसाब से कहे तो गुजराती और मद्रासी। मुझे याद नहीं आता कि कभी उनके विषय मेरे भन मे भेद-भाव पैदा हुआ हो। मैं उन्हे बिल्कुल घर के ही जैसा समझता और उसमे मेरी धर्मपत्नी की ओर से यदि कोई विघ्न उपस्थित होता तो मैं उससे लड़ता था। मेरा एक कारकुन ईसाई था। उसके मा-बाप पचम जाति के थे। हमारे घर की बनावट पश्चिमी ढग की थी। इस कारण कमरे मे मोरी नहीं होती थी—और न होनी चाहिए थी, ऐसा। मेरा मत है। इस कारण कमरों मे मोरियों की जगह पेशाब के लिए एक अलग बर्तन होता था। उसे उठाकर रखने का काम हम दोनों—दपती का था, नौकरों का नहीं। हा, जो कारकुन लोग अपने को हमारा कुटबी-सा मानने लगते थे वे तो खुद ही उसे साफ कर डालते थे, लेकिन पचम जाति मे जन्मा यह कारकुन नया था। उसका बर्तन हमे ही उठाकर साफ करना चाहिए था। दूसरे बर्तन तो कस्तूरबाई उठाकर साफ कर देती, लेकिन इन भाई का बर्तन उठाना उसे असह्य मालूम हुआ। इससे हम दोनों मे झगड़ा मचा। यदि मैं उठाता हूँ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता था और खुद उसके लिए उठाना कठिन था। फिर भी आखों से मोती की बदै टपक रही है, एक हाथ मे बर्तन लिये अपनी लाल-लाल आंखों से उल्हना देती हुई कस्तूरबाई सीढियों से उतर रही है, वह चित्र मै आज भी ज्यो-का-न्यो खीच सकता हूँ।

परतु मैं जैसा सहृदय और प्रेमी पति था वैसा ही निष्ठुर और कठोर भी था। मैं अपनेको उसका शिक्षक मानता था। इस-से अपने अंधप्रेम के अधीन हो मैं उसे खब सताता था। इस कारण महज उसके बर्तन उठा ले जाने-भर सै मुझे सतोष न हुआ। मैंने यह भी चाहा कि वह हँसते और हरखते हुए उसे ले जाय। इसलिए

मैंने उसे डांटा-डपटा भी। मैंने उत्तेजित होकर कहा—“देखो, यह बखेड़ा मेरे घर मे नहीं चल सकेगा।”

मेरा यह बोल कस्तूरबाई को तीर की तरह लगा। उसने धधकते दिल से कहा, “तो लो, रखो यह अपना घर! मैं चली।”

उस समय मैं ईश्वर को भूल गया था। दया का लेशमात्र मेरे हृदय मे न रह गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ी के सामने ही बाहर जाने का दरवाजा था। मैं उस दीन अबला का हाथ पकड़ कर दरवाजे तक खीचकर ले गया। दरवाजा आधा खोला होगा कि आखो मे गगा-जमुना बहाती हुईं कस्तूरबाई बोली, “तुम्हे तो कुछ शरम है नहीं, पर मुझे है। जरा तो लजाओ। मैं बाहर निकल-कर आखिर जाऊ कहा? मा-बाप भी यहा नहीं कि उनके पास चली जाऊ। मैं ठहरी स्त्री-जाति! इसलिए मुझे तुम्हारी धौस सहनी ही पड़ेगी। अब जरा शरम करो और दरवाजा बद कर लो। कोई देख लेगा तो दोनों की फजीहत होगी।”

मैंने अपना चेहरा तो सुर्ख बनाये रखा, पर मन मे शरमा जरूर गया। दरवाजा बद कर दिया। जबकि पत्नी मुझे छोड़ नहीं सकती थी तब मैं भी उसे छोड़कर कहा जा सकता था? इस तरह हमारे आपस मे लड़ाई-झगड़े कई बार हुए हैं, परतु उनका परिणाम सदा अच्छा ही निकला है। उनमे पत्नी ने अपनी अद्भुत सहनशीलता के द्वारा मुझपर विजय प्राप्त की।

यह घटना १८९८ की है। उस समय मुझे ब्रह्मचर्य-पालन के विषय मे कुछ ज्ञान न था। वह समय ऐसा था जबकि मुझे इस बात का स्पष्ट ज्ञान न था कि पत्नी तो केवल सहधर्मिणी, सहचारिणी और सुख-दुःख की साथिन है। मैं यह समझकर बताव करता था कि पत्नी विषय-भोग की भाजन है, उसका जन्म पति की हर तरह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हुआ है।

कितु १९०० ई० से मेरे इन विचारों मे गहरा परिवर्तन

हुआ। १९०६ मे उसका परिणाम प्रकट हुआ, परन्तु इसका वर्णन आगे प्रसग आने पर होगा। यहां तो सिर्फ इतना बताना काफी है कि ज्यो-ज्यो मै निर्विकार होता गया त्यो-त्यो मेरा घर-सासार शात, निर्मल और सुखी होता गया।<sup>१</sup>

बा का जबरदस्त गुण महज अपनी इच्छा से मुझमे समा जाने का था। यह कुछ मेरे आग्रह से नहीं हुआ था। लेकिन समय पाकर बा के अदर ही इस गुण का विकास हो गया था। मैं नहीं जानता था कि बा मे यह गुण छिपा हुआ था। मेरे शुरू-शुरू के अनुभव के अनुसार बा बहुत हठीली थी। मेरे दबाव डालने पर भी वह अपना चाहा ही करती। इसके कारण हमारे बी व थोड़े समय की या लबी, कड़ु वाहट भी रहती, लेकिन जैसे-जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वैसे-वैसे बा खिलती गई और पुख्ता विचारों के साथ मुझमे यानी मेरे काम मे समाती गई। जैसे दिन बीतते गये, मुझमे और मेरे काम मे—सेवा मे—भेद न रह गया। बा धीमे-धीमे उसमे तदाकार होने लगी। शायद हिंदुस्तान की भूमि को यह गुण अधिक-से-अधिक प्रिय है। कुछ भी हो, मुझे तो बा की उक्त भावना का यह मुख्य कारण मालूम होता है।

बा मे यह गुण पराकाष्ठा को पहुचा, इसका कारण हमारा ब्रह्मचर्य था। मेरी अपेक्षा बा के लिए वह बहुत ज्यादा स्वाभाविक सिद्ध हुआ। शुरू मे बा को इसका कोई ज्ञान भी न था। मैंने विचार किया और बा ने उसको उठाकर अपना बना लिया। परिणाम-स्वरूप हमारा सबध सच्चे मित्र का बनाया। मेरे साथ रहने मे बा के लिए सन् १९०६ से, असल मे सन् १९०१ से, मेरे काम मे शरीक हो जाने के सिवा या उससे भिन्न और कुछ रह ही नहीं गया था। वह अलग रह नहीं सकती थीं। अलग रहने मे उन्हे कोई दिक्कत न होती, लेकिन उन्होने मित्र बनने पर भी स्त्री के नाते और पत्नी के नाते मेरे काम मे समा जाने मे ही अपना धर्म माना। इसमे बा ने

<sup>१</sup> आत्मकथा, १९२७

मेरी निजी सेवा को अनिवार्य स्थान दिया। इसलिए मरते दम तक उन्होने मेरी सुविधा की देखरेख का काम छोड़ा ही नहीं।

अगर मेरे अपनी पत्नी के बारे में अपने प्रेम और अपनी भावना का वर्णन कर सकूँ तो हिंदूर्धर्म के बारे में अपने प्रेम और अपनी भावनाओं को मैं प्रकट कर सकता हूँ। दुनिया की दूसरी किसी भी स्त्री के मुकाबिले मेरी पत्नी मुझपर ज्यादा असर डालती है।

यद्यपि अपनी मृत्यु के कारण वह सतत वेदना से छूट गई है, इसलिए उनकी दृष्टि से मैंने उनकी मौत का स्वागत किया है, तो भी इस क्षति से मुझको जितना दुख होने की कल्पना मैंने की थी उससे अधिक दुख हुआ है। हम असाधारण दपती थे। १९०६ में एक दूसरे की स्वीकृति से और अनजानी आजमाडश के बाद हमने आत्म-संयम के नियम को निश्चित रूप से स्वीकार किया था। इसके परिणामस्वरूप हमारी गाठ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनी और मुझे उससे बहुत आनंद हुआ। हम दो भिन्न व्यक्ति नहीं रह गये। मेरी बैसी कोई अच्छा नहीं थी, तो भी उन्होने मझमें लीन होना पसंद किया। फलत वह सचमुच ही मेरी अर्धांगिनी बनी। वह हमेशा से बहुत दृढ़ इच्छा-शक्तिवाली स्त्री थी, जिनको अपनी नवविवाहित दशा में भूल से हठीली माना करता था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण वह अनजाने ही अहिंसक अस-योग की कला के आचरण में मेरी गुरु बन गई। आचरण का आरभ मेरे अपने परिवार से ही किया। १९०६ में जब मैंने उसे राजनीति के क्षेत्र में दाखिल किया तब उसका अधिक विशाल और विशेष रूप से योजित 'सत्याग्रह' नाम पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब हिंदु-स्तानियों की जेल-यात्रा शुरू हुई तब वा भी सत्याग्रहियों में एक थी। मेरे मुकाबिले शारीरिक पीड़ा उनको ज्यादा हुई। वह कई बार जेल जा चुकी थी, फिर भी इस बार के इस कैद-खाने में, जिसमें सभी तरह की सहूलियतें मौजूद थीं, उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरे बहुती के साथ मेरी और फिर तुरत ही उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उससे उन्हें जोर का आघात पहुँचा और उनका

मन खट्टा हो गया। वह मेरी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने उन्हे विश्वास दिलाया था कि सरकार को मेरी अहिंसा पर भरोसा है और जबतक मैं खुद गिरफ्तार होना न चाहूँ वह मुझे पकड़ेगी नहीं। सचमुच उनके ज्ञानततुओं को इतने जोर का धक्का बैठा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हे दस्त की सख्त शिकायत हो गई। अगर उस समय डा० सुशीला नैयर ने, जो उनके साथ ही पकड़ी गई थी, उनका इलाज न किया होता तो मुझसे इस जेल मेरे आकर मिलने से पहले ही उनकी देह छूट चुकी होती। मेरी हाजिरी से उन्हे आश्वासन मिला और बिना किसी खास इलाज के दस्त की शिकायत दूर हो गई। लेकिन मन जो खट्टा हुआ था, सो खट्टा ही बना रहा। इसकी वजह से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया और इसीका नतीजा था कि आखिर कष्ट सहते-सहत क्रम-क्रम से उनका देहपात हुआ।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

उनमे एक गुण बहुत बड़ा था। हर एक हिंदू-पत्नी मेरे वह कमोबेश होता ही है। इच्छा से या अनिच्छा से अथवा जाने-अन-जाने भी वह मेरे पदचिह्नों पर चलने मेरे धन्यता अनुभव करती थी। .....

अगरचे मैं चाहता था कि उस तीव्र वेदना से उन्हे छुटकारा मिले और जल्दी ही उनकी देह का अत हो जाय तो भी आज उनकी कमी को जितना मैंने माना था, उससे कही अधिक मैं महसूस कर रहा हूँ। हम असाधारण दंपती थे—अनोखे। हमारा जीवन सतोषी, सुखी और सदा ऊर्ध्वगामी था।<sup>२</sup>

: ६ :

## मगनलाल खुशालचंद गांधी

मेरे चाचा के पोते मगनलाल खुशालचंद गांधी मेरे कामों

<sup>१</sup> 'हमारी बा', पृ० २२    <sup>२</sup> 'हमारी बा', १८-२-४५

मेरे साथ सन् १९०४ से ही थे। मगनलाल के पिता ने अपने सभी पुत्रों को देश के काम मे दे दिया है। वह इस महीने के शुरू में सेठ जमनालालजी तथा दूसरे मित्रों के साथ बगाल गये थे, वहाँ से बिहार आये। वही पर अपने कर्तव्य के पालन मे ही उन्हे कठिन ज्वर हो आया। नौ दिन की बीमारी के बाद प्रेम और डाक्टरी ज्ञान से जितनी सेवा सभव है, सभी कुछ होने पर भी वह बृज-किशोर प्रसादजी की गोद मे से चले गये।

कुछ धन कमा सकने की आशा से मगनलाल गांधी मेरे साथ सन् १९०३ मे दक्षिण अफ्रीका गये थे। मगर उन्हें दूकान करते पूरा साल भर भी न हुआ होगा कि स्वेच्छापूर्वक गरीबी की मेरी अचानक पुकार को सुनकर वह फिनिक्स-आश्रम मे आ शामिल हुए और तब से एक बार भी वह डिगे नहीं, मेरी आशाए पूरी करने मे असमर्थ न हुए। यदि उन्होने स्वदेश-सेवा मे अपनेको होम दिया तो अपनी योग्यताओं और अपने अध्यवसाय के बल पर, जिनके बारे मे कोई सदेह हो ही नहीं सकता, वे आज व्यापारियों के सिरताज होते। छापाखाने मे डाल दिये जाने पर उन्होने तुरत ही मुद्रण-कला के सभी भेदों को जान लिया। यद्यपि पहले उन्होने कभी कोई यत्र हाथ मे नहीं लिया था तो भी इजिन-घर मे, कलो के बीच तथा कंपोजीटरों के टेबल पर सभी जगह अत्यत कुशलता दिखाई। ‘इंडियन ओपीनियन’ के गुजराती अशा का संपादन करना भी उनके लिए वैसा ही सहज काम था। फिनिक्स-आश्रम मे खेती का काम भी शामिल था और इसलिए वह कुशल किसान भी बन गये। मेरा खयाल है कि आश्रम मे वे सर्वोत्तम बगाल थे। यह भी उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद से ‘यग इंडिया’ का जो पहला अंक निकला उसमे भी उस सकट-काल मे उनके हाथ की कारीगरी थी।

पहले उनका शरीर भीम जैसा था, किन्तु जिस काम मे उन्होने अपने को उत्सर्ग किया, उसकी उन्नति मे उस शरीर को गला दिया था। उन्होने बड़ी सावधानी से मेरे आध्यात्मिक जीवन का अध्ययन

किया था। जबकि मैंने विवाहित स्त्री-पुरुषों के लिए भी 'ब्रह्मचर्य ही जीवन का नियम है' का सिद्धात अपने सहकारियों के सामने पेश किया था तब उन्होंने पहले-पहल उसका सौंदर्य तथा उसके पालन की आवश्यकता समझी और यद्यपि उसके लिए, जैसाकि मैं जानता हूँ, उन्हें बड़ा कठोर प्रयत्न करना पड़ा था तो भी उन्होंने इसे सफल कर दिखलाया। इसमें वह अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को भी धीरतापूर्वक समझा-बुझाकर ले गये, उसपर अपने विचार जबरन डालकर नहीं।

जब सत्यग्रह का जन्म हुआ तब वह सबसे आगे थे। दक्षिण अफ्रीका के युद्ध का पूरा-पूरा मतलब समझानेवाला एक शब्द मैं दूढ़ रहा था। दूसरा कोई अच्छा शब्द न मिल सकने से मैंने लाचार उसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया था, गोकि यह शब्द बहुत ही नाकाफी और भ्रमोत्पादक भी है। क्या ही अच्छा होता अगर आज मेरे पास उनका वह अत्यत सुदर पत्र होता जिसमें उन्होंने बतलाया था कि इस युद्ध को 'सदाग्रह' क्यों कहना चाहिए। इसी सदाग्रह को बदलकर मैंने 'सत्यग्रह' शब्द बनाया। उनका पत्र पढ़ने पर इस युद्ध के सभी सिद्धातों पर एक-एक करके विचार करते हुए अत मैं पाठक को इसी नाम पर आना ही पड़ता था। मुझे याद है कि वह पत्र अत्यत ही छोटा और केवल आवश्यक विषय पर ही था, जैसे कि उनके सभी पत्र होते थे।

युद्ध के समय वह काम से कभी थके नहीं, किसी काम से देह नहीं चराई और अपनी वीरता से वह अपने आसपास मे सभी किसीके दिल उत्साह और आशा से भर देते थे। जबकि सब कोई जेल गये, जब फिनिक्स मे जेल जाना ही मानो इनाम जीतना था तब भी, मेरी आज्ञा से, जेल से भारी काम उठाने के लिए वह पीछे ठहर गये। उन्होंने स्त्रियों के दिल मे अपनी पत्नी को भेजा।

हिंदुस्तान लौटने पर भी उन्हींकी बदौलत आश्रम, जिस सयम-नियम की बुनियाद पर बना है, खुल सका था। यहां उन्हे नया और अधिक मुश्किल काम करना पड़ा। मगर उन्होंने अपने-

को उसके लायक साबित किया । उनके लिए अस्पृश्यता बहुत कठिन परीक्षा थी । सिर्फ एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा, मानो उनका दिल डोल गया हो । मगर यह तो एक सैकड़ की बात थी । उन्होने देख लिया कि प्रेम की सीमा नहीं बाधी जा सकती, और कुछ नहीं तो महज इसीलिए कि अच्छूतों के लिए ऊची जातिवाले जिम्मेदार हैं, हमें उन्हींके जैसे रहना चाहिए ।

आश्रम का औद्योगिक विभाग फिनिक्स के ही कारखाने के ढग का नहीं था । यहा हमे बुनना, कातना, धुनना और ओटना सीखना था । फिर मगनलाल की ओर झुका । गोकि कल्पना मेरी थी, कितु उसे काम मे लानेवाले हाथ तो उनके थे । उन्होने बुनना और कपास के खादी बनने तक की और दूसरी सभी क्रियाएं सीखी । वह तो जन्म से ही विश्वकर्मा, कुशल कारीगर थे ।

जब आश्रम मे गोशाला का काम शुरू हुआ तब वह इस काम मे उत्साह से लग गये, गोशाला-सबधी साहित्य पढ़ा और आश्रम की सभी गायों का नामकरण किया और सभी गोरुओं से मित्रता पैदा कर ली ।

जब चमांलय खुला तब भी वह वैसे ही दृढ़ थे । जरा दम लेने की फुर्सत मिलते ही वह चमड़े के सिद्धान्त भी सीखनेवाले थे । राजकोट के हाई स्कूल की शिक्षा के अलावा और जो कुछ वह इतनी अच्छी तरह जानते थे, उन्होने वह सब स्वानुभव की कठिन पाठशाला मे सीखा था । उन्होने देहाती बढ़ई, देहाती बुनकर, किसान, चरवाहो और ऐसे ही मामूली लोगो से सीखा था ।

वह चर्खी-सघ के शिक्षण-विभाग के व्यवस्थापक थे । श्री वल्लभ भाई ने बाढ़ के जमाने मे उन्हे विट्ठलपुर का नया गाव बनाने का भार दिया था ।

वह आदर्श पिता थे । उन्होने अपने बच्चों को, दो लड़कियों और एक लड़के को, ऐसी शिक्षा दी थी कि जिसमे वे देश के लिए उपहार बनने के लिए योग्य हो । उनका पुत्र केशव यत्रविद्या मे बड़ी कुशलता दिखला रहा है । उसने भी अपने पिता

के ही समान यह सब मामूली लुहार-बढ़ियोंको काम करते देखकर सीखा है। उनकी सबसे बड़ी लड़की राधा ने अपने मत्थे बिहार में स्त्रियों की स्वाधीनता के सबध में एक मुश्किल और नाजुक काम उठाया था। सच ही तो, वह यह पूरा-पूरा जानते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए और वह शिक्षकों को प्रायः इस विषय पर गभीर और विचारपूर्वक चर्चा में लगाया करते थे।

पाठक यह न समझे कि उन्हे राजनीति का कुछ ज्ञान ही नहीं था। उन्हे ज्ञान जरूर था; किन्तु उन्होंने आत्मत्याग का रचनात्मक और शात पथ चुना था।

वह मेरे हाथ थे, मेरे पैर थे और थे मेरी आंखें। दुनिया को क्या पता कि मैं जो इतना बड़ा आदमी कहा जाता हूँ, वह बड़प्पन मेरे शांत, श्रद्धालु, योग्य और पवित्र स्त्री तथा पुरुष कार्यकर्त्ताओं के अविरल परिश्रम और सेवा पर कितना निर्भर है, और उन सबमें मेरे लिए मग्नलाल सबसे बड़े, सबसे अच्छे और सबसे अधिक पवित्र थे।

यह लेख लिखते हुए भी अपने प्यारे पति के लिए विलाप करती है उनकी विधवा की सिसक मैं सुन रहा हूँ। मगर वह क्या समझेगी कि उससे अधिक विधवा, अनाथ मैं ही हूँ गया हूँ। अगर ईश्वर में मेरा जीवत विश्वास न होता तो उसकी मृत्यु पर, जोकि मुझे अपने सगे पुत्रों से भी अधिक प्रिय था, जिसने मुझे कभी धोखा न दिया, मेरी आशाएं न तोड़ी, जो अध्यवसाय की मूर्ति था, जो आश्रम के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी अगों का सच्चा चौकीदार था, मैं विक्षिप्त हो जाता। उनका जीवन मेरे लिए उत्साहदायक है, नैतिक नियम की अमोघता और उच्चता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। उन्होंने अपने ही जीवन में मुझे एक-दो दिनों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि पूरे चौबीस वर्षों तक की बड़ी अवधि में—हाय, जो अब घड़ी भर का समय जान पड़ता है—यह साबित कर दिखलाया कि देश-सेवा और मनुष्य-सेवा, आत्म-ज्ञान या ब्रह्मज्ञान आदि सभी शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं।

मगनलाल न रहे, मगर अपने सभी कामों में वह जीवित है, जिनकी छाप, आश्रम की धूल में से दौड़कर निकल जानेवाले भी, देख सकते हैं ।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

उनके जैसा सरदार अगर मुझे मिला होता तो उन्होंने जितनी मेरी सेवा की थी, उतनी मैं अपने सरदार की नहीं कर सकता । उनका जीवन सपूर्ण था । आश्रम के वह प्राण थे । मैं तो केवल धूमता फिरा और आश्रम के प्रति बेवफा रहा । उन्होंने आश्रम की सेवा में अपना शरीर गला दिया था । मैं मीराबाई के समान जहर का प्याला पी सकता हूं, मेरे गले में कोई सांपों की माला डाल दे तो उसे सहन कर सकता हूं, किंतु यह वियोग उन दोनों से भी अधिक कठिन है । तो भी छाती कठिन करके, उनका गुण-कीर्तन करते हुए मैंने अपने हृदय में उनकी मूर्त्ति स्थापित की है ।<sup>२</sup>

...                    ...                    ...

रुखी बहन<sup>३</sup> बिल्कुल बच्ची थी, तब से सतोक<sup>४</sup> के जीते-जी भी मगनलाल के हाथों पली थी । इसके जीने की शायद ही आशा थी । मुश्किल से सास ले सकती थी । इस लड़की को मगन-लाल नहलात, बाल सवारते और पास बैठाकर खिलाते थे और अपने दूसरे बच्चों की भी देखभाल करते थे । फिर भी नौकरी में सबसे ज्यादा काम करते थे । सुदर्सन-सुदर बाड़ी उन्होंने बनाई थी । फिनिक्स में पहला गुलाब का फल उन्हींने उगाया था । फिनिक्स की कितनी ही सख्त जमीन मैं जब उनकी कुदाली की चोट पड़ती थी तब धरती कापती मालूम होती थी ।

मगनलाल में आत्म-विश्वास था । अपने काम के बारे में श्रद्धा थी । और भगवान् ने उन्हें बलवान शरीर दिया था । यह

<sup>१</sup> हिंदी नव जीवन, २६-४-२८

<sup>२</sup> हिंदी नव जीवन ३५-२८

<sup>३ ४</sup> मगनलाल गांधी की पुत्रियां

शरीर अत मे आश्रम के बोझ से और उनकी तपश्चर्या से कमजोर हो गया था ।<sup>१</sup>

उन्होंने आश्रम के लिए जन्म लिया था । सोना जैसे अग्नि में तपता है वैसे मग्नलाल सेवाग्नि में तपे और कस्टौटी पर सो फी-सदी खरे उतरकर दुनिया से कूच कर गये । आश्रम में जो कोई भी है वह मग्नलाल की सेवा की गवाही देता है ।<sup>२</sup>

: ७ :

### गोपालकृष्ण गोखले

गुरु के विषय मे शिष्य क्या लिखे । उसका लिखना एक प्रकार की धृष्टिता मात्र है । सच्चा शिष्य वही है जो गुरु मे अपने-को लीन कर दे, अर्थात् वह टीकाकार हो ही नहीं सकता । जो भक्ति दोष देखती हो वह सच्ची भक्ति नहीं और दोष गुण के पृथक्करण मे असमर्थ लेखक द्वारा की गई गुरु-स्तुति को यदि सर्वसाधारण अगीकार न करे तो इसपर उसे नाराज होने का अधिकार नहीं हो सकता । शिष्य के आचरणों ही से गुरु की टीका होती है । गोखले राजनैतिक विषयों मे मेरे गुरु थे, इस बात को मैं अनेक बार कह चुका हूँ । इस कारण उनके विषय मे कुछ लिखने मे मैं अपनेको असमर्थ समझता हूँ । मैं चाहे जितना लिख जाऊँ, मुझे थोड़ा ही मालूम होगा । मेरे विचार से गुरु-शिष्य का सबध शुद्ध आध्यात्मिक सबध है । वह अकशास्त्र के नियमानुसार नहीं होता । कभी-कभी वह हमारे बिना जाने भी हो जाता है । उसके होने मे एक क्षण से अधिक नहीं लगता, पर एक बार होकर वह फिर टूटना जानता ही नहीं ।

<sup>१</sup> महादेव भाई की डायरी, भाग १, ८-७-३२

<sup>२</sup> 'यरवडा-मंदिर से' ३०-५-३२

‘ १८९६ ई० मे पहले-पहल हम दोनों व्यक्तियों मे यह सबध हुआ । उस समय न मुझे उनका खयाल था और न उन्हे मेरा । उसी समय मुझे गुरुजी के भी गुरु लोकमान्य तिलक, सर फिरोज-शाह मेहता, जस्टिस बद्रहीन तैयबजी, डा० भाडारकर तथा बगाल और मद्रास प्रांत के और भी अनेक नेताओं के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैं उस समय बिल्कुल नवयुवक था, मुझे पर सबने प्रेम-वृष्टि की । सबके एकत्र दर्शन का वह प्रसग मुझे कभी न भूलेगा, परतु गोखले से मिलकर मेरा हृदय जितना शीतल हुआ उतना औरो से मिलने से नहीं हुआ । मुझे याद नहीं आता कि गोखले ने मुझपर औरो की अपेक्षा अधिक प्रेम-वृष्टि की थी । तुलना करने से मैं कह सकता हूँ कि डा० भाडारकर ने मुझपर जितना अनुराग प्रकट किया उतना और किसीने नहीं किया । उन्होने कहा—“यद्यपि मैं आजकल सार्वजनिक कार्यों से अलग रहता हूँ, फिर भी केवल तुम्हारी खातिर मैं उस सभा का अध्यक्ष बनना स्वीकार करता हूँ, जो तुम्हारे प्रश्न पर विचार करने के लिए होनेवाली है ।” यह सब होते हुए भी केवल गोखले ही ने मुझे अपने प्रेम-पाश में आबद्ध किया । उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ । पर सन् १९०२ वाली कलकत्ते की काग्रेस मे मुझे अपने शिष्य-भाव का पूरा-पूरा अनुभव हुआ । उपर्युक्त नेताओं मे से अनेक के दर्शनों का उस समय मुझे फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ । किन्तु मैंने देखा कि गोखले को मेरी याद बनी हुई थी । देखते ही उन्होने मेरा हाथ पकड़ लिया । वह मुझे अपने घर खीच ले गये । मुझे भय था कि विषय-निर्वाचिनी-समिति मे मेरी बात न सुनी जायगी । प्रस्तावों की चर्चा शुरू हुई और खत्म भी हो गई, पर मुझे अत तक यह कहने का साहस न हुआ कि मेरे मन मे भी दक्षिण अफ्रीका-सबधी एक प्रश्न है । मेरे लिए रात को कौन बैठा रहता । नेतागण काम को जल्दी निपटाने के लिए आतुर हो गये । उनके उठ जाने के डर से मैं कापने लगा । मुझे गोखले को याद दिलाने का भी साहस न हुआ ।

इतने में वह स्वयं ही बोले—मिंगाधी भी दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की दशा के सबध में एक प्रस्ताव करना चाहते हैं। उसपर अवश्य विचार किया जाय। मेरे आनंद की सीमा न रही। राष्ट्रसभा के सबध में मेरा यह पहला ही अनुभव था। इसलिए उससे स्वीकृत होनेवाले प्रस्तावों का मैं बड़ा महत्व समझता था। इसके बाद भी उनके दर्शन के कितने ही अवसर उपस्थित हुए और वे सभी पवित्र हैं। पर इस समय जिस बात को मैं उनका महामत्र मानता हूँ, उसका उल्लेख कर, इसे पूर्ण करना उत्तम होगा।०

इस कठिन कलिकाल में किसी विरले ही मनुष्य में शुद्ध धर्मभाव देख पड़ता है। ऋषि, मुनि, साधु आदि नाम धारण कर भटकते फिरनेवालों को इस भाव की प्राप्ति शायद ही कभी होती है। आजकल उनका धर्म-रक्षक पद से च्युत हो जाना सभी लोग देख रहे हैं। यदि एक ही सुदर वाक्य में धर्म की पूरी व्याख्या कही है तो वह भक्त-शिरोमणि गुजराती कवि नरसिंह मेहता के इस वाक्य में है

“ज्यां लगी आतमा तत्व चीन्यो नहीं,  
त्यां लागी साधना सर्वं जूठी ।”

अर्थात्—“जबतक आत्मतत्व की पहचान न हो तबतक सभी साधनाएं निरर्थक हैं।” यह वचन उसके अनुभव-सागर के मथन से निकला हुआ रत्न है। इससे ज्ञात होता है कि महातपस्वी तथा योगीजनों में भी (सच्चा) धर्मभाव होना अनिवार्य नहीं है। गोखले को आत्मतत्व का उत्तम ज्ञान था, इसमें मुझे तनिक भी सदेह नहीं। यद्यपि वह सदा ही धार्मिक आडंबरसे दूर रहे, फिर भी उनका सपूर्ण जीवन धर्ममय था। भिन्न-भिन्न युगों में मोक्ष-मार्ग पर लगानेवाली प्रवृत्तिया देखी गई है। जब-जब धर्मबधन ढीला पड़ता है तब-तब कोई एक विशेष प्रवृत्ति धर्म-जागृति में विशेष उपयोगी होती है। यह विशेष प्रवृत्ति उस समय की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की होती

है। आजकल हम अपनेको राजनैतिक विषयो में अवनत देखते हैं। एकागी दृष्टि से विचार करने से जान पड़ेगा कि राजनैतिक सुधार से ही अन्य बातो में हम उन्नति कर सकेंगे। यह बात एक प्रकार से सच भी है। राजनैतिक अवस्था के सुधार के बिना उन्नति होना सभव नहीं। पर राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन होने ही से उन्नति न होगी। परिवर्तन के साधन यदि दूषित तथा घृणित हुए तो उन्नति के बदले और अवनति ही होने की अधिकतर सभावना है। जो परिवर्तन शुद्ध और पवित्र साधनो से किया जाता है वही हमें उच्च मार्ग पर ले जा सकता है। सार्वजनिक कामो में पड़ते ही गोखले को इस तत्व का ज्ञान हो गया था और इसको उन्होने कार्य में भी परिणत किया। यह बात सभी लोग जानते थे कि यह भव्य विचार उन्होने अपनी भारत-सेवक-समिति तथा सपूर्ण जन-समुदाय के सम्मुख रखा कि यदि राजनीति को धार्मिक स्वरूप दिया जायगा तो यही मोक्ष-मार्ग पर ले जानेवाली हो जायगी। उन्होने साफ कह दिया कि जबतक हमारे राजनैतिक कार्यों को धर्मभाव की सहायता न मिलेगी तबतक वे सूखे, रस-हीन, ही बने रहेंगे। उनकी मृत्यु पर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में जो लेख प्रकाशित हुआ था उसके लेखक ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था और राजनैतिक सन्यासी उत्पन्न करने के उनके प्रयत्न की सफलता पर अविश्वास प्रकट करते हुए, उनकी यादगार 'भारत-सेवक-समिति' का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया था। वर्तमान काल में राजनैतिक सन्यासी ही सन्यासाश्रम की गौरववृद्धि कर सकते हैं। अन्य गेरुवा वस्त्रधारी सन्यासी उसकी अपकीर्ति के ही कारण है। शुद्ध धर्म-मार्ग में चलनेवाले किसी भारतवासी का राजनैतिक कामो से परे रहना कठिन है। उसी बात को मैं दूसरी तरह अगीकार किये बिना रह ही नहीं सकता। और आजकल की राज्य-व्यवस्था के जाल में हम इस तरह फस गये हैं कि राजनीति से अलग रहते हुए, लोक-सेवा करना सर्वथा असभव ही है। पूर्व समय में जो किसान इस बात को जाने बिना

भी कि जिस देश में हम बसते हैं, उसका अधिकारी कौन है, अपनी जीवन-यात्रा भलीभाति निर्वहि कर लेता था, वह आज ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी दशा में उसका धर्मचिरण राजनैतिक परिस्थिति के अनुसार ही होना चाहिए। यदि हमारे साधु, ऋषि, मुनि, मौलवी और पादरी इस उच्च तत्व को स्वीकार कर ले तो जहा देखिये वही भारत-सेवक-समितिया ही दिखाई देने लगे और भारत में धर्मभाव इतना व्यापक हो जाय कि जो राजनैतिक चर्चा आज लोगों को अरुचिकर होती है वही उन्हे पवित्र और प्रिय मालूम होने लगे, फिर पहले ही की तरह भारत-वासी धार्मिक साम्राज्य का उपभोग करने लगे। भारत का बधन एक क्षण में दूर हो जाय और वह स्थिति प्रत्यक्ष आखो के सामने आ जाय, जिसका दर्शन एक प्राचीन कवि ने अपनी अमरवाणी में इस प्रकार किया है—फौलाद से तलबार बनाने का नहीं, बल्कि (हल की) फाल बनाने का काम लिया जायगा और सिहँ और बकरे साथ-साथ विचरण करेंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्ति ही गुरुवर गोखले का जीवन-मन्त्र थी। यही उनका सदेश है और मुझे विश्वास है कि शुद्ध और सरल मन से विचार करने पर उनके भाषणों<sup>१</sup> के प्रत्येक शब्द में यह मन्त्र लक्षित होगा।

• • •

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।  
यत्पप्स्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश भारत-माता ने महात्मा गोखले को दिया था और उनके आचरणों से सूचित होता है कि उन्होंने उसका पालन भी किया है। यह सर्वमान्य बात है कि उन्होंने जो-जो किया, जिस-जिस का उपभोग

---

<sup>१</sup> स्वर्गीय गोखले की पुण्य-तिथि के उपलक्ष्य में उनके भाषणों तथा लेखों के गुजराती संग्रह की भूमिका।

किया, जो स्वार्थ त्याग किया, जिस तप का आचरण किया, वह सभी कुछ उन्होंने भारत-माता के चरणों में अर्पण कर दिया।

केवल देश ही के लिए जन्म लेनेवाले इस महात्मा का अपने देश-बधुओं के प्रति क्या सदेग है ? ‘भारत-सेवक-समिति’ के जो सेवक महात्मा गोखले के अतिम समय में उनके पास उपस्थित थे, उन्हे उन्होंने निम्नलिखित वाक्य कहे थे ।

“(तुम लोग) मेरा जीवन-चरित लिखने न बैठना, मेरी मूर्ति बनवाने मे भी अपना समय मत लगाना । तुम लोग भारत के सच्चे सेवक होगे तो अपने सिद्धात के अनुसार आचरण करने अर्थात् भारत की ही सेवा करने मे अपनी आयु व्यतीत करोगे ।”

सेवा के सबध मे उनके आतरिक विचार हमे मालूम है । राष्ट्रीय सभा का कार्य-सचालन, भाषण तथा लेख द्वारा जनता को देश की सच्ची स्थिति का ज्ञान कराना, प्रत्येक भारतवासी को साक्षर बनाने का प्रयत्न कराना, ये सब काम सेवा ही है । पर किस उद्देश्य और किस प्रणाली से यह सेवा की जाय ? इस प्रश्न का वहं जो उत्तर देते वह उनके इस वाक्य से प्रकट होता है । अपनी सस्था (‘भारत-सेवक-समिति’) की नियमावली बनाते हुए उन्होंने लिखा है, “सेवकों का कर्तव्य भारत के राजनैतिक जीवन को धार्मिक बनाना है ।” इसी एक वाक्य मे सब-कुछ भरा हुआ है । उनका जीवन धार्मिक था । मेरा विवेक इस बात का साक्षी है कि उन्होंने जो-जो काम किये, सब धर्मभाव ही की प्रेरणा से किये । बीस साल पहले उनका कोई-कोई उद्गार या कथन नास्तिकों का-सा होता था । एक बार उन्होंने कहा था— “क्या ही अच्छा होता यदि मुझमे भी वही श्रद्धा होती, जो रानडे मे थी ।” पर उस समय भी उनके कार्यों के मूल मे उनकी धर्म-बुद्धि अवश्य रहती थी । जिस पुरुष का आचरण साधारों के सदृश्य है, जिसकी वृत्ति निर्भल है, जो सत्य की मूर्ति है, जो नम्र है जिसने सर्वथा अहंकार का परित्याग कर दिया है, वह निस्सदेह

धर्मात्मा है। गोखले इसी कोटि के महात्मा थे। यह बात मैं उनके लगभग २० वर्षों की सगति के अनुभव से कह सकता हूँ।

१८९६ मेरे मैंने नेटाल की शत्तिबदी की मजदूरी पर भारत में वाद-विवाद आरभ किया। उस समय कलकत्ता, बर्बई, पूना, मद्रास आदि स्थानों के नेताओं से मेरा पहले-पहल सबध हुआ। उस समय सब लोग जानते थे कि महात्मा गोखले रानडे के शिष्य हैं। फर्ग्यूसन कालेज को वह अपना जीवन भी अपेण कर चुके थे, और मैं उस समय एक निरा अनुभवहीन युवक था। मैं पहले-पहल पूना मेरे उनसे मिला। इस पहली ही भेट मेरे हम लोगों में जितना घनिष्ठ सबध हो गया उतना और किसी नेता से नहीं हुआ। महात्मा गोखले के विषय मेरे जो बाते मैंने सुनी थी वे सब प्रत्यक्ष देखने मेरे आईं। उनकी वह प्रेम-युक्त और हास्यमय मूर्ति मुझे कभी न भूलेगी। मुझे उस समय मालूम हुआ कि मानो वह साक्षात् धर्म की ही मूर्ति है। उस समय मुझे रानडे के भी दर्शन हुए थे। पर उनके हृदय मेरे मैं स्थान न पा सका। मैं उनके विषय में केवल इतना ही जान सका कि वह गोखले के गुरु है। अवस्था और अनुभव मेरे वह मुझसे बहुत अधिक बढ़े थे, इस कारण अथवा और किसी कारण से मैं रानडे को उतना न जान सका, जितना कि गोखले को मैंने जाना।

१८९६ ईंके अवसर से ही गोखले का राजनैतिक जीवन मेरे लिए आदर्श-स्वरूप हुआ। उसी समय से उन्होंने राजनैतिक गुरु के नाते मेरे हृदय मेरे निवास किया। उन्होंने सार्वजनिक सभा (पूना) की त्रैमासिक पुस्तक का सपादन किया। उन्होंने फर्ग्यूसन-कालेज में अध्यापन-कार्य करके उसे उन्नत दशा को पहुँचाया। उन्होंने ब्रेल्वी-कमीशन के सामने गवाही देकर अपनी वास्तविक योग्यता का प्रमाण दिया, उनकी बुद्धिमत्ता की छाप लाड़ कर्जन पर—उन लाड़ कर्जन पर जो अपने सामने किसीको कुछ न गिनते थे—बैठी और वह उनसे शक्ति रहने लगे।

उन्होंने बड़े-बड़े काम करके मातृभूमि की कीर्ति को उज्ज्वल

किया। पब्लिक-सर्विस-कमीशन का काम करते समय उन्होने अपने जीने-मरने तक की परवा न की। उनके इन तथा अन्य कार्यों का दूसरे व्यक्तियों ने उत्तम रीति से वर्णन किया है।

...                    ..                    ...

जनरल बोथा तथा स्मट्स से जब उन्होने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में मुलाकात की थी उस समय इस मुलाकात के लिए तैयार होने में उन्होने जितना परिश्रम किया था वह मुझे इस जन्म में नहीं भूल सकता। मुलाकात के पहले दिन उन्होने मेरी और मि० कैलेनबेक की परीक्षा ली। वह स्वयं रात के तीन ही बजे जाग पड़े और हम लोगों को भी उन्होने जगाया। उन्हे जो पुस्तकें दी गईं थीं उनको उन्होने अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब हम लोगों से जिरह करके वह इस बात का निश्चय करना चाहते थे कि उनकी तैयारी पूरी हुई या अभी उसमें कसर है। मैंने उनसे विनयपूर्वक कहा कि इतना परिश्रम अनावश्यक है। हम लोगों को तो कुछ मिले या न मिले, लड़ना ही होगा, पर अपने आराम के लिए मैं आपका बलिदान नहीं करना चाहता। पर जिस पुरुष ने सर्वदा काम में लगे रहने की आदत ही बना रखी थी, वह मेरी बातों पर कब ध्यान देता। उनकी जिरहों का मैं क्या वर्णन करूँ। उनकी चिताशीलता की कितनी प्रशस्ता करूँ। इतने परिश्रम का एक ही परिणाम होना चाहिए था। मत्रिमंडल ने वचन दिया कि आगामी बैठक में सत्याग्रहियों की आकाक्षाओं को स्वीकार करने वाला कानून पास किया जायगा और मजदूरों को ४५ रुपयों का जो कर देना पड़ता है वह माफ कर दिया जायगा।

पर इस वचन का पालन नहीं किया गया। तो क्या गोखले निश्चेष्ट हो बैठ रहे? एक क्षण के लिए भी नहीं। मेरा विश्वास है कि १९१३ ई० में उक्त वचन को पूरा कराने के लिए उन्होने जो अविराम श्रम किया, उससे उनके जीवन के दस वर्ष अवश्य छीजें होगे। उनके डाक्टर की भी यही राय है। उस वर्ष भारत में जागृति उत्पन्न करने और द्रव्य एकत्र करने के लिए उन्होने जितने

कष्ट सहे, उनका अनुमान कठिन है। यह महात्मा गोखले का ही प्रताप था कि दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न पर भारतवर्ष हिल उठा। लार्ड हार्डिंज ने मद्रास में इतिहास में यादगार होने योग्य जो भाषण दिया वह भी उन्हींका प्रताप था। उनसे घनिष्ठ परिचय रखनेवालों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका के मामले की चिता ने उन्हें चारपाई पर डाल दिया, फिर भी अत तक उन्होने विश्वाम करना स्वीकार न किया। दक्षिण अफ्रीका से आधी रात को आने वाले पत्र-सरीखे लबे-चौडे तारों को उसी क्षण पढ़ना, जबाब तैयार करना, लार्ड हार्डिंज के नाम पर तार भेजना, समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराये जानेवाले लेख का मसविदा तैयार करना और इन कामों की भीड़ में खाने और सोने तक की याद न रहना, रात-दिन एक कर डालना, ऐसी अनन्य निस्स्वार्थ भक्ति वही करेगा जो धर्मतिमा हो।

हिंदू और मुसलमान के प्रश्न को भी वह धार्मिक दृष्टि से ही देखते थे। एक बार अपनेको हिंदू कहनेवाला एक साधु उनके पास आया और कहने लगा कि मुसलमान नीच है और हिंदू उच्च। महात्मा गोखले को अपने जाल में फसते न देख उसने उन्हें दोष देते हुए कहा कि तुम मे हिंदुत्व का तनिक भी अभिमान नहीं। महात्मा गोखले ने भवे चढ़ाकर हृदय-भेदी स्वर में उत्तर दिया—“यदि तुम जैसा कहते हो वैसा करने ही मे हिंदुत्व है तो मैं हिंदू नहीं। तुम अपना रास्ता पकड़ो।”

महात्मा गोखले मे निर्भयता का गुण बहुत अधिक था। धर्मनिष्ठा मे इस गुण का स्थान प्राय सर्वान्वि है। लेफिटनेट रैड की हत्या के पश्चात् पूना मे हलचल मच गई थी। गोखले उस समय इरलैंड मे थे। पूनावालों की तरफ से वहा उन्होने जो व्याख्यान दिये वे सारे जगत मे प्रसिद्ध हैं। उनमे वह कुछ ऐसी बाते कह गये थे, जिनका पीछे वह सबूत न दे सकते थे। थोडे ही दिनों बाद वह भारत लौटे। अपने भाषणों मे उन्होने अंग्रेज सिपाहियों पर जो इलजाम लगाया था उसके लिए उन्होने माफी माग ली। इस

माफी मागने के कारण यहा के बहुत-से लोग उनसे नाराज भी हो गये। महात्मा को कितने ही लोगों ने सार्वजनिक कामों से अलग हो जाने की सलाह दी। कितने ही नासमझों ने उनपर भीरुता का आरोप करने में भी आगामीछा न किया। इन सबका उन्होंने अत्यत गमीर और मधुर भाषा में यही उत्तर दिया—“देश-सेवा का कार्य मैंने किसीकी आज्ञा से अगीकार नहीं किया है और किसीकी आज्ञा से उसे मैं छोड़ भी नहीं सकता। अपना कर्तव्य करते हुए यदि मैं लोकपक्ष के साथ रहने के योग्य समझा जाऊं तो अच्छा ही है, पर यदि मेरे भाग्य वैसे न हो तो भी मैं उसे अच्छा ही समझूँगा।” काम करना उन्होंने अपना धर्म माना था। जहातक मेरा अनुभव है, उन्होंने कभी स्वार्थ-दृष्टि से इस बात का विचार नहीं किया कि मेरे कार्यों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि उनमें वह शक्ति थी जिससे यदि देश के लिए उन्हें फासी पर चढ़ना होता तो भी वह अविचलित चित्त से हसते हुए फासी पर चढ़ जाते। मैं जानता हूँ कि अनेक बार उन्हें जिन अवस्थाओं में रहना पड़ा है उनमें रहने की अपेक्षा फासी पर चढ़ना कहीं सहज था। ऐसी विकट परिस्थितियों का उन्हें अनेक बार सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी पाव पीछे न हटाया।

इनसब बातों से तात्पर्य यह निकलता है कि यदि इस महान्-देशभक्त के चरित्र का कोई अश हमारे ग्रहण करने योग्य है तो वह उनका धर्म-भाव ही है। उसीका अनुकरण करना हमें उचित है। हम सब लोग बड़ी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं हो सकते। हम यह भी नहीं देखते कि उसके सदस्य होने से देश-सेवा हो ही जाती है। हम सब लोग पब्लिक-सर्विस-कमीशन में नहीं बैठ सकते। यह बात भी नहीं है कि उसमें के सब बैठनेवाले देशभक्त ही होते हैं। हम सब लोग उनकी बराबरी के विद्वान् नहीं हो सकते और विद्वानमात्र के देश-सेवक होने का भी हमें अनुभव नहीं है। परतु निर्भयता, सत्य, धैर्य, नम्रता, न्यायशीलता, सरलता और

अध्यवसाय आदि गुणों का विकास कर उन्हें देश के लिए अपेक्षित करना सबके लिए साध्य है, यही धर्मभाव है। राजनैतिक जीवन को धर्ममय करने का यही अर्थ है। उक्त वचन के अनुसार आचरण करनेवाले को अपना पथ सदा ही सूझता रहेगा। महात्मा गोखले की सप्ति का भी वही उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार की निष्ठा से काम करनेवाले को और भी जिन-जिन विभूतियों की आवश्यकता होगी वे सब प्राप्त होंगी। यह ईश्वर का वचन है और महात्मा गोखले इसका ज्वलत प्रमाण है।<sup>१</sup>

विश्व-बधुत्व की भावना उन्होंने स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाई, इस बात को उनके साथी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। पारिया (अत्यज) कहे जानेवाले भाइयों से वह खूब दिल खोलकर मिलते थे। यह बात उनमें नहीं थी कि वह किसी पर कृपा या अहसान कर रहे हैं। उनके हृदय में तो केवल सेवा का ही आदर्श था। उनका विश्वास था कि सार्वजनिक आदमी जनता के नेता नहीं, बल्कि सेवक है। उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा सेवक ही सबसे बड़ा नेता था। वह हर तरह एक सच्चे जन्मना ब्राह्मण थे। वह जन्मजात अध्यापक भी थे। उनसे जब कोई 'प्रोफेसर' कहता तो बड़े प्रसन्न होते थे। विनम्रता की तो वह मूर्ति थे। राष्ट्र को उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। चाहते तो वह मालामाल हो जाते, लेकिन उन्होंने तो स्वेच्छा से गरीबी का ही बाना पर्संद किया। गोखले ने एक महान अवसर पर लिखा था, "जो सेवा किसी व्यक्ति के कहने से हाथ में नहीं ली जाती, वह किसी दूसरे की आज्ञा से त्यागी भी नहीं जा सकती। इसलिए सबसे निरापद नियम तो यह है कि मनुष्य को हम उसके वर्तमान रूप में ही ग्रहण करे, किर चाहे जिस कुल में वह पैदा हुआ हो और उसकी जाति या उसका रंग चाहे जो हो।"<sup>२</sup>

<sup>१</sup> 'महात्मा गांधी' रामचंद्र वर्मा लिखित ।

<sup>२</sup> हरिजन-सेवक ९-३-३४

: ८ :

## धोषालबाबू

काग्रेस के अधिवेशन को एक-दो दिन की देर थी। मैंने निश्चय किया था कि काग्रेस के दफतर मेरी सेवा स्वीकार हो तो कुछ सेवा करके अनुभव प्राप्त करूँ।

जिस दिन हम आये उसी दिन नहा-धोकर मैं काग्रेस के दफतर में गया। श्री भूपेन्द्रनाथ बसु और श्रीधोषाल मत्री थे। भूपेनबाबू के पास पहुचकर कोई काम मागा। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, “मेरे पास तो कोई काम नहीं है, पर शायद मिठो धोषाल तुमको कुछ बतावेगे। उनसे मिलो।”

मैं धोषालबाबू के पास गया। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। कुछ मुस्कराये और बोले, “मेरे पास कारकुन का काम है। करोगे?”

मैंने उत्तर दिया, “जरूर करूँगा। अपने बस भर सबकुछ करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ।”

“नवयुवक, सच्चा सेवा-भाव इसीको कहते हैं।”

कुछ स्वयं-सेवक उनके पास खड़े थे। उनकी ओर मुख्यातिब होकर कहा, “देखते हो, इस नवयुवक ने क्या कहा?”

फिर मेरी ओर देखकर कहा, “तो लो, यह चिट्ठियों का देर, और यह मेरे सामने पड़ी है कुरसी। उसे ले लो। देखते हो न, सैकड़ो आदमी मुझसे मिलने आया करते हैं। अब मैं उनसे मिलूँ या जो लोग फालतूँ चिट्ठियां लिखा करते हैं उन्हे उत्तर दूँ? मेरे पास ऐसे कारकुन नहीं कि जिनसे मैं यह काम करा सकूँ। इन चिट्ठियों मेरे बहुतेरी तो फिजूल होगी, पर तुम सबको पढ़ जाना। जिनकी पहुच लिखना जरूरी हो उनकी पहुच लिख देना और जिनके उत्तर के लिए मुझसे पूछना हो पूछ लेना।”

उनके इस विश्वास से मुझे बड़ी खुशी हुई।

श्री धोषाल मुझे पहचानते न थे। नाम-ठाम तो मेरा उन्होंने

बाद को जाना। चिट्ठियों के जवाब आदि का काम आसान था। सारे ढेर को मैने तुरत निपटा दिया। घोषालबाबू खुश हुए। उन्हे बात करने की आदत बहुत थी। मैं देखता था कि वह बातों में बहुत समय लगाया करते थे। मेरा इतिहास जानने के बाद तो कारकुन का काम देने में उन्हे जरा शर्म मालूम हुई, पर मैने उन्हे निश्चित कर दिया।

“कहां मैं और कहा आप! आप काग्रेस के पुराने सेवक, मेरे नजदीक तो आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं ठहरा अनुभवहीन नवयुवक! यह काम सौंपकर मुझपर तो आपने अहसान ही किया है; क्योंकि मुझे आगे चलकर काग्रेस में काम करना है। उसके काम-काज को समझने का अलभ्य अवसर आपने मुझे दिया है।”

“सच पूछो तो यही सच्ची मनोवृत्ति है। परतु आजकल के नवयुवक ऐसा नहीं मानते। पर मैं तो काग्रेस को उसके जन्म से जानता हूँ। उसकी स्थापना करने में मिंह्यूम के साथ मेरा भी हाथ था।” घोषालबाबू बोले।

हम दोनों में खासा संबंध हो गया। दोपहर के खाने के समय वह मुझे साथ रखते। घोषालबाबू के बटन भी ‘बेरा’ लगता। यह देखकर ‘बेरा’ का काम खुद मैने लिया। मुझे वह अच्छा लगता। बडे-बड़ों की ओर मेरा बड़ा आदर रहता था। जब वह मेरे मनो-भावों से परिचित हो गये तब अपना निजी सेवा का सारा काम मुझे करने देते थे। बटन लगवाते हुए मुह पिचकारकर मुझसे कहते, “देखो न, काग्रेस के सेवक को बटन लगाने तक की फुरसत नहीं मिलती, क्योंकि उस समय भी वे काम में लगे रहते हैं।” इस भोलेपन पर मुझे मन में हँसी तो आई, परंतु ऐसी सेवा के लिए मन में अस्त्रिचि बिल्कुल न हुई। उससे जो लाभ हुआ उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती।<sup>9</sup>

: ९ :

## अमृतलाल वि० ठक्कर

ठक्करबापा आगामी २७ नवबर को ७० वर्ष के हो जायगे। बापा हरिजनों के पिता हैं और आदि-वासियों और उन सबके भी, जो लगभग हरिजनों की ही कोटि के हैं और जिनकी गणना अर्ध-सभ्य जातियों में की जाती है। दिल्ली के हरिजन-निवास-वासियों की तजवीज इस प्रकार उनकी ७०वीं जयती मनाने की है, जिस से ठक्करबापा के दिवस पर, हरिजन-कार्य के निमित्त, उन्हे  
७००००) की एक विनम्र थैली भेट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेरा आशीर्वाद मांगा है। यह भी चाहते हैं कि उनके इस शुभ प्रयत्न को मैं प्रकाश में ला दू। पर मैंने तो उन्हें ज़िड़का है कि उनमें आत्म-श्रद्धा की कमी है। ठक्करबापा एक विरल लोकसेवक है। वह विनम्र स्वभाव के है। वह प्रशस्ता के भूखे नहीं। उनका जीवन कार्य ही उनका एकमात्र सतोष और विश्राम है। वृद्धावस्था उनके उत्साह को मद नहीं कर सकती है। वह स्वयं एक संस्था है। एक बार जब मैंने उनसे कहा कि वह थोड़ा आराम ले ले तो तुरत उनका जवाब आया, “जब इतना तमाम काम करने को पड़ा है, तब मैं आराम कैसे ले सकता हूँ? मेरा काम ही मेरा आराम है।” अपने जीवन-कार्य में वह जिस प्रकार अपनी शक्ति लगा रहे हैं, उसे देख कर तो उनके आस-पास रहनेवाले नवयुवक भी लज्जित हो जाते हैं। इतने महान् कार्य के लिए और उस जनसेवक के लिए, जो अपने विशाल वृद्ध कधो पर इतना भारी भार वहन कर रहा है, ७००००) की थैली एक प्रकार का अपमान है। कार्यकर्त्ताओं का तो यह लक्ष्य होना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान से वे ७०,००००) से कम तो किसी हालत में इकट्ठे नहीं करेंगे। महान् सेवा-प्रवृत्ति और उसके सेवा-रत मिता को देखते हुए, यह ७०,००००) की रकम भी कोई चीज नहीं है। लेकिन एक महीने के अंदर यह

रकम इकट्ठी करनी है, इस दृष्टि से यह ठीक ही है।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

भारत-सेवक-समिति को अपने प्राणों की तरह प्रिय समझने-वाले एक मित्र श्री ठक्करबापा-कोष के लिए दस रुपये का चदा भेजते हुए लिखते हैं—

“श्री ठक्करबापा की प्रशंसा में लिखे गये आपके एक-एक शब्द का मैं समर्थन करता हूँ। इस सबध में मेरी एक ही सूचना है और वह यह कि बापा के पुण्य कार्यों का सारा श्रेय भारत-सेवक-समिति को महज इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि बापा उसके एक सदस्य है। समिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनको अपना सदस्य माना है और बापा के द्वारा मानव-जाति की जो महान सेवा हुई है, उसपर हमेशा ही गर्व किया है।”

यह शिकायत बिल्कुल ठीक है। दरअसल, बात तो यह है कि बापा की कई विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मैं उनकी एक खास विशेषता का उल्लेख करना भूल गया हूँ, इसका मुझे ख्याल ही न रहा। बात यह कि भारत-सेवक-समिति की सदस्यता स्वीकार करने से पहले बापा म्युनिसिपल कारपोरेशन, बर्बई के रोड इजीनियर का काम करते थे। हरिजन-सेवक-संघ को उनकी सेवाएं भारत-समिति की ओर से ही बतौर कर्ज के मिली हैं।<sup>२</sup>

बापा की इकहत्तरवी जयती मनाने में मुझे हाजिर होना चाहिए। लेकिन मैं इस लायक नहीं रहा हूँ। मेरी तो हार्दिक आशा है कि बापा सौ वर्ष पूरे करे। बापा का जन्म ही दलितों की सेवा के लिए है, वह भले ही अस्पृश्य हो या भिल या सताल या खासी इत्यादि। उनकी कदर करने में भी हम दलितों की कुछ-न-कुछ सेवा करते हैं। बापा की सेवा ने हिंदुस्तान को बढ़ाया है।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, २१-१०-३९

<sup>२</sup> हरिजन सेवक, ४-११-३९

<sup>३</sup> हरिजन सेवक, ९-१२-३९

: १० :

## रवींद्रनाथ ठाकुर

लार्ड हार्डिंग ने डाक्टर रवींद्रनाथ ठाकुर को एशिया के महा-कवि की पदवी दी थी, पर अब रवींद्रबाबू न सिर्फ एशिया के बल्कि सासार भर के महा-कवि गिने जा रहे हैं। उनके हाथ से भारतवर्ष की सबसे बड़ी सेवा यह हुई है कि उन्होंने अपनी कविता द्वारा भारतवर्ष का सदेश सासार को सुनाया है। इसीसे रवींद्रबाबू को सच्चे हृदय से इस बात की चिता है कि भारतवासी भारत-माता के नाम से कोई झूठा या सारहीन सदेशा ससार को न सुनावे। हमारे देश का नाम न डूबने पावे, इस बात की चिता करना रवींद्रबाबू के लिए स्वाभाविक ही है।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

शांतिनिकेतन मे आगमन मेरे लिए एक तीर्थ-यात्रा के समान था। बहुत दिनों से मेरी इच्छा वहा जाने की थी, लेकिन यह अवसर मलिकदा जाते समय ही मुझे मिल सका। मेरे लिए शांतिनिकेतन नया नहीं है। १९१५ मे जब इसकी रूपरेखा बन रही थी तब मै वही था। इसका मतलब यह नहीं कि अब इसका निर्माण-क्रम रुक गया है। गुरुदेव खुद विकसित हो रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण उनके मन के लचीलेपन मे कोई अतर नहीं पड़ा है। इसलिए जबतक गुरुदेव की भावना की छाया उसके ऊपर है तबतक शांतिनिकेतन की वृद्धि रुक नहीं सकती। वहा प्रत्येक मनुष्य की उनके प्रति जो श्रद्धा है वह ऊपर उठानेवाली है, क्योंकि वह सहज है। मुझे तो इसने अवश्य ही ऊचा उठाया। कृतज्ञ छात्रों और अध्यापकों ने उनको 'गुरुदेव' की जो उपाधि दे रखी है उससे शांतिनिकेतन मे उनकी स्थिति ठीक-ठीक व्यक्त होती है। यह स्थिति उनकी इसलिए है कि वह उस

<sup>१</sup> यंग इंडिया, १-६-२१

स्थान और वहा के समूह मे निमग्न हो गये हैं, अपनेको भूल गये हैं। मैंने देखा कि वह अपनी प्रियतम कृति 'विश्व भारती' के लिए जी रहे हैं। वह चाहते हैं कि यह फूले-फले और अपने भविष्य के विषय मे निश्चित हो जाय। इसके बारे मे उन्होने मुझसे देर तक बातचीत की। लेकिन इतना भी उनके लिए काफी नहीं था, इसलिए जब हम विदा हो रहे थे तब उन्होने मुझे नीचे लिखा बहुमूल्य पत्र दिया

**प्रिय महात्माजी,**

आपने आज सुबह ही हमारे कार्य के 'विश्व-भारती'-केंद्र का विहावलोकन किया है। मैं नहीं जानता कि आपने इसकी मर्यादा का क्या अदाज लगाया है। आप जानते हैं कि यद्यपि अपने वर्तमान रूप मे यह सम्प्यारा राष्ट्रीय है, तथापि अत भावना की दृष्टि से यह एक सार्वदेशिक—अतर्राष्ट्रीय—सम्प्यारा है और अपने साधनों के अनुसार भरसक शेष जगत को भारत की सकृति का आतिथ्य प्रदान करती है।

एक बड़े गाढ़े अवसर पर आपने बिल्कुल टूटने से इसे बचाया और अपने पाव पर खड़े होने मे इसकी सहायता की। आपके इस मित्रतापूर्ण कार्य के लिए हम आपके निकट सदा आभारी हैं।

और अब शातिनिकतन से आपके विदा होने के पहले मैं आपसे जोरदार अपील करता हूँ कि यदि आप इसे एक राष्ट्रीय संपत्ति समझते हैं तो इस सम्प्यारा को अपने सरक्षण मे लेकर इसे स्थायित्व प्रदान करे। 'विश्व-भारती' उस नौका के समान है, जो मेरे जीवन के सर्वोत्तम रत्नों से भरी हुई है और मुझे आशा है कि अपनी रक्षा के लिए अपने देशवासियों से यह विशेष देख-रेख पाने का दावा कर सकती है।

प्रेमपूर्वक—

रवीद्रनाथ ठाकुर

इस सम्प्यारा को अपने सरक्षण मे लेनेवाला मैं कौन होता हूँ? चूँकि यह एक ईमानदार आत्मा की कृति है, इसलिए ईश्वर का सरक्षण इसके साथ है। वह कोई दिखावे की चीज नहीं है। गुरुदेव

स्वयं सार्वदेशिक—अतर्राष्ट्रीय—है, क्योंकि वह सच्चे रूप में राष्ट्रीय है। इसलिए उनकी सपूर्ण कृतिया सार्वदेशिक है और ‘विश्व-भारती’ उन सबमें श्रेष्ठ है। मुझे इसमें किसी तरह का सदेह नहीं कि जहातक आर्थिक बोझ का सबध है इसके भविष्य के बारे में गुरुदेव को सपूर्ण चिता से मुक्त कर देना चाहिए। उनकी हृदयग्राही अपील के जवाब में जो कुछ सहायता करने लायक मैं हूँ, करने का मैंने उनको वचन दिया है।<sup>१</sup>

.. . . . .

मैं यहाँ आप लोगों के लिए कोई अतिथि या महमान बन-कर नहीं आया हूँ। शातिनिकेतन तो मेरे लिए घर से भी अधिक है। जब १९१४ में मैं इलैण्ड से लौटनेवाला था तब यही तो मेरे दक्षिण अफ्रीकावाले कुटुब्र का प्रेमपूर्वक आतिथ्य हुआ था और यहा मुझे भी करीब एक महीने तक आश्रय मिला था। जब मैं आप सब लोगों को अपने सामने एकत्र देखता हूँ तो उन दिनों की याद मेरे हृदय पर छा जाती है। मैं कितना चाहता हूँ कि यहा ज्यादा दिन ठहरू, पर अफसोस कि यह सभव नहीं। यहा कर्तव्य का प्रश्न है। उस दिन एक मित्र को एक पत्र में मैंने लिखा था कि शातिनिकेतन और मलिकांदा की यह यात्रा मेरे लिए तीर्थ-यात्रा है। सचमुच इस बार शातिनिकेतन मेरे लिए ‘शाति का निकेतन’ सिद्ध हुआ। मैं यहा राजनीति की सब चिता और झज्जट छोड़कर मात्र गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैंने अक्सर एक कुशल भिक्षुक होने का दावा किया है। लेकिन आज गुरुदेव का मुझे जो आशीर्वाद मिला है उससे बढ़कर दान मेरी झोली में कभी किसीने नहीं डाला है। मैं जानता हूँ कि उनका आशीर्वाद तो मुझे हमेशा ही है। मगर आज मेरा खास सौभाग्य है कि उन्हींके हाथों रूबरू मुझे आशीर्वाद मिला और इस कारण मेरे हर्ष का पार नहीं।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, २-३-४०

<sup>२</sup> हरिजन सेवक, ३०-३-४०

डा० रवीद्रनाथ टैगोर के निधन मे हमने न केवल अपने पुग के सबसे बड़े कवि को ही, बल्कि एक उत्कट राष्ट्रवादी को, जो कि मानवता का पुजारी भी था, खो दिया है। शायद ही कोई ऐसी सार्वजनिक प्रवृत्ति होगी, जिसपर उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व की छाप न पड़ी हो। शातिनिकेतन और श्रीनिकेतन के रूप मे उन्होने समस्त राष्ट्र के लिए ही नहीं, अपितु समस्त सासार के लिए विरासत छोड़ी है।<sup>१</sup>

... ... ...

टैगोर की क्या बात ! उन्होने क्या नहीं साधा ? साहित्य का एक भी क्षेत्र उन्होने छोड़ा है ? और सबसे कमाल ! ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आदमी हमारे यहा तो है ही नहीं, लेकिन दुनिया मे भी होगा या नहीं, इसमे मुझे शक है।<sup>२</sup>

... ... ...

गुरुदेव की देह खाक मे मिल चुकी है, लेकिन उनके अदर जो जोत थी, जो उजेला था, वह तो सूरज की तरह था, जो तबतक बना रहेगा जबतक धरती पर जानदार रहेगे। गुरुदेव ने जो रोशनी फैलाई वह आत्मा के लिए थी। सूरज की रोशनी जैसे हमारे शरीर को फायदा पहुचाती है, वैसे गुरुदेव की फैलाई रोशनी ने हमारी आत्मा को ऊपर उठाया है। वह एक कवि थे और प्रथम श्रेणी के साहित्यिक थे। उन्होने अपनी मातृभाषा मे लिखा और सारा बगाल उनकी कविता के झरने से काव्य-रस का गहरा पान कर सका। उनकी रचनाओं के अनुवाद बहुत-सी भाषाओं मे हो चुके हैं। वह अग्रेजी के भी बहुत बड़े लेखक थे और शायद बिना अग्रेजी जाने ही वह उस जबान के इतने बड़े लेखक बन गये थे। प्रदरसे की पढाई तो उन्होने की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की कोई

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, ७-८-४१

<sup>२</sup> 'महादेवभाई' की डायरी'

डिग्री उन्होंने नहीं ली थी। वह तो बस गुरुदेव ही थे। हमारे एक वाइसराय ने उनको 'एशिया का कवि' कहा था। उससे पहले किसी को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। वह समूची दुनिया के भी कवि थे। यहीं क्यों, वह तो ऋषि थे। हमारे लिए वह अपनी 'गीताजलि' छोड़ गये हैं, जिसने उनको सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। तुलसी-दासजी हमारे लिए अपनी अमर रामायण छोड़ गये हैं। वेदव्यास-जी ने महाभारत के रूप में हमारे लिए मानव-जाति का इतिहास छोड़ा है। ये सब निरे कवि नहीं थे। ये तो गुरु थे। गुरुदेव ने भी सिर्फ कवि के नाते ही नहीं, ऋषि की हैसियत से भी लिखा है। लेकिन सिर्फ लिखना ही उनकी अकेली खासियत नहीं थी। वह एक कलाकार थे, नृत्यकार थे और गायक थे। बढ़िया-से-बढ़िया कला में जो मिठास और पवित्रता होनी चाहिए, वह सब उनमें और उनकी चीजों में थी। नई-नई चीजे पैदा करने की उनकी ताकत ने हमको शातिनिकेतन, श्रीनिकेतन और विश्व-भारती जैसी संस्थाएँ दी है। अपनी इन संस्थाओं में वह भावरूप से विराज-मान है, और ये अकेले बगाल को ही नहीं, बल्कि समूचे हिंदुस्तान को उनकी विरासत के रूप में मिली है। शातिनिकेतन तो हम सबके लिए असल में यात्रा का एक धाम ही बन गया है। गुरुदेव अपने जीतेजी इन संस्थाओं को वह रूप नहीं दे पाये, जो वह देना चाहते थे, जिसका वह सपना देखते थे। कौन है, जो ऐसा कर पाया हो? आदमी के मनोरथ को पूरा करना तो भगवान के हाथ में है। फिर भी ये संस्थाएँ हमे उनकी कोशिशों की याद दिलावेगी और हमेशा हमको यह बताती रहेंगी कि गुरुदेव के मन में अपने देश के लिए कितनी गहरी प्रीति थी और उन्होंने उसकी कितनी-कितनी सेवाएँ की है।<sup>१</sup>

: ११ :

## लोकमान्य तिलक

लोकमान्य बाल गगाधर तिलक अब ससार मे नहीं है। यह विश्वास करना कठिन मालूम होता है कि वह ससार से उठ गये। हम लोगों के समय मे ऐसा दूसरा कोई नहीं, जिसका जनता पर लोकमान्य के जैसा प्रभाव हो। हजारों देशवासियों की उनपर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अपूर्व थी। यह अक्षरशा सत्य है कि वह जनता के आराध्यदेव थे, प्रतिमा थे। उनके बचन हजारों आदमियों के लिए नियम और कानून-से थे। पुरुषों मे पुरुष-सिंह ससार से उठ गया। केशरी की धोर गर्जना विलीन हो गई।

देशवासियों पर उनका इतना प्रभाव होने का क्या कारण था? मैं समझता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा ही सहज है। उनकी स्वदेश-भक्ति ही उनकी इद्रियवृत्ति थी। वह स्वदेश-प्रेम के सिवा दूसरा धर्म नहीं जानते थे।

जन्म से ही वह प्रजासत्तावादी थे। बहुमत की आज्ञा पर इतना अधिक विश्वास करते थे कि मझे उससे भयभीत होना पड़ता था। पर यही वह बात है जिससे जनता पर उनका इतना अधिक प्रभाव था। स्वदेश के लिए वह जिस इच्छा-शक्ति से काम लेते थे वह बड़ी ही प्रबल थी। उनका जीवन वह ग्रथ है जिसे खोलने की भी जरूरत नहीं, वह खुला हुआ ग्रथ है। उनका खाना-पीना और पहनावा बिल्कुल साधारण था। उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही निर्मल और बेदाग था। उन्होंने अपनी आश्चर्य-जनक बुद्धि-शक्ति को स्वदेश को अपूर्ण कर दिया था। जितनी स्थिरता और दृढ़ता के साथ लोकमान्य ने स्वराज्य की शुभ वार्ता का उपदेश किया उतना और किसीने नहीं किया। इसी कारण स्वदेशवासी उनपर अटूट विश्वास रखते थे। साहस ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी आशावादिता अदम्य थी। उनको आशा थी कि जीवनकाल मे ही मे सपूर्ण रूप से स्वराज्य स्थापित हुआ देख

सकूगा। यदि वह इसे नहीं देख सके तो उनका दोष नहीं है। उन्होंने निस्सदेह स्वराज्य-प्राप्ति की अवधि बहुत कम कर दी है।

मैं अग्रेजों को ऐसी धारणा बनाने से मना करता हूँ कि लोकमान्य अग्रेजों के शत्रु थे, या अधिकारी वर्ग या अग्रेजी राज्य से घृणा करते थे।

कलकत्ता-काग्रेस के समय हिंदी के राष्ट्र-भाषा होने के सबंध में उन्होंने जो कहा था, उसे सुनने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। वह काग्रेस-पड़ाल से तुरत ही लौटे थे। हिंदी के सबंध में उन्होंने अपने शात भाषण में जो कहा उससे बड़ी तृप्ति हुई। भाषण में उन्होंने देशी भाषाओं पर खयाल रखने के कारण अग्रेजों की बड़ी प्रशसा की थी। विलायत जाने पर, यद्यपि उन्हें अग्रेज जूररो के विषय में बुरा ही अनुभव हुआ तथापि उनका ब्रिटिश प्रजा-सत्ता में बड़ा ही दृढ़ विश्वास हो गया। उन्होंने यहातक कहा था कि पजाब के अत्याचारों का चित्र 'सिनेमेटोग्राफ' यत्र द्वारा ब्रिटिश प्रजासत्तावादियों को दिखाना चाहिए। मैंने यहा इस बात का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि मैं भी ब्रिटिश प्रजासत्ता पर विश्वास रखता हूँ (जो कि मैं नहीं रखता), पर यह दिखाने के लिए कि वह अग्रेज-जाति के प्रति घृणा का भाव नहीं रखते थे। पर वह भारत और साम्राज्य की अवस्था को इस पिछड़ी अवस्था में न तो रखना ही चाहते थे और न रख सकते थे।

वह चाहते थे कि शीघ्र ही भारत से समानता का भाव रखा जाय और इसे वह देश का जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो लडाई की उसमे सरकार को छोड़ नहीं दिया। स्वतंत्रता के इस युद्ध में उन्होंने न तो किसीकी मुरव्वत की और न किसीकी प्रतीक्षा ही की। मुझे आशा है, अग्रेज लोग उस महापुरुष को पहचानेगे, जिनकी भारत पूजा करता था।

भारत की भावी संतति के हृदय मे भी यही भाव बना रहेगा कि लोकमान्य नवीन भारत के बनानेवाले थे। वे तिलक महा-

राज का स्मरण यह कह करेगे कि एक पुरुष था, जो हमारे लिए ही जन्मा और हमारे लिए ही मरा। ऐसे महापुरुष को मरना कहना ईश्वर की निदा करना है। उनका स्थायी तत्व सदा के लिए हम लोगों में व्याप्त हो गया। आओ, हम भारत के एकमात्र लोकमान्य का अविनाशी स्मारक अपने जीवन में उनके साहस, उनकी सरलता, उनके आश्चर्यजनक उद्योग और उनकी स्वदेश-भक्ति को सीखकर बनावे। ईश्वर उनकी आत्मा को शाति प्रदान करे।

...  
लोकमान्य तो एक ही थे। लोगों ने तिलक महाराज को जो पढ़वी, जो उच्चस्थान, दिया था वह राजाओं के दिये खिताबों से लाख-गुना कीमती था। देश ने आज यह बात सिद्ध कर दिखाई है। यह कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी कि सारी बबई लोकमान्य को पहुंचाने के लिए उलट पड़ी थी।\*

उनके आखिरी दिनों में जो दृश्य मैंने अपनी आखों से देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के उस अगाध प्रेम का वर्णन करना असभव है।

फ्रास में कहावत है कि 'राजा मर गये, राजा चिरजीव रहे।' यह विचार इगलैंड आदि सारे देशों में प्रचलित है और जब राजा की मृत्यु होती है तब यह कहावत कही जाती है। उसका भावार्थ यह है कि राजा तो मरता ही नहीं। राजतत्र एक मिनिट भी बद नहीं रहता।

उसी प्रकार तिलक महाराज भी मर नहीं सकते, न मरे ही। बबई की जनता ने यह दिखला दिया कि वह जीते हैं और बहुत समय तक जीयेगे। उनके सगे-सबधियों को भले ही दुख हुआ हो, उन्होंने भले ही आखों से मोती टपकाये हो, परतु दूसरे लोग तो उत्सव मनाने के लिए आये थे। बाजे और भजन लोगों को चेतावनी दे

\* यंग इंडिया ४-८-२०

२ यहां सकेत मृत्यु के समय से है।

रहे थे कि लोकमान्य मरे नहीं हैं। 'लोकमान्य तिलक महाराज की जय' ध्वनि से आकाश गूँज उठता थी। उस समय लोग इस बात को भल गये थे कि हम तो तिलक महाराज के देह के दाह-कर्म के लिए आये हैं।

शनिवार की रात को जब मैंने उनके स्वर्गवास की खबर सुनी तब मेरा चित्त व्याकुल हो रहा था, पर जयघोष सुनकर मेरी बेचैनी जाती रही। मेरी भी यही धारणा हुई कि तिलक महाराज जीवित है। उनका क्षण-भगुर देह छृट गया है, पर उनकी अमर आत्मा तो लाखों लोगों के हृदय में विराजमान है।

इस जमाने में किसी भी लोकनायक को ऐसी मृत्यु का सौ-

- भाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। दादाभाई गये, फिरोजशाह गये, गोखले भी चले गये। सबके साथ हजारों लोग शमशान तक गये थे, पर तिलक महाराज ने तो हृद कर दी। उनके पीछे तो सारी दुनिया गई। रविवार को बबई बावली हो गई थी।

यह कैसा चमत्कार! ससार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु ही नहीं। अथवा यो कहे कि जगत् स्वयं ही एक चमत्कृति है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। इस सिद्धात में कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्य का हिंदुस्तान पर असीम प्रेम था। इसी कारण लोक-प्रेम की भी मर्यादा नहीं रह गई थी। स्वराज्य के मन्त्र का जितना जप उन्होंने किया है उतना दूसरा किसीने नहीं किया। जिस समय दूसरे लोग यह मानते थे कि हा, अब भारत स्वराज्य के योग्य होगा, उस समय लोकमान्य सच्चे दिल से मानते थे कि भारत आज ही तैयार है। लोकमान्य की इस धारणा ने लोगों के मन को हर लिया था। ऐसा मानकर वह बैठे नहीं रहे, बल्कि जिदगी भर उसके अनुसार काम किया। उससे जनता में नवीन चैतन्य, नया जोश पैदा हुआ। उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अधीरता का स्वाद लोगों को चखाया और ज्यो-ज्यो जनता को उसका स्वाद मालूम होने लगा त्यो-त्यो वह उनकी तरफ खिचती गई।

उनपर अनेक तरह की आफते आई, तरह-तरह के कष्ट उन्हे सहने पड़े, तो भी उन्होंने उस मत्र का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। इस तरह वह कठिन परीक्षाओं में भी पास हुए। इससे जनता ने उन्हें अपने हृदय का सम्राट् बनाया और उनका वचन उसके लिए कानून की तरह मान्य हो गया।

देह के नष्ट हो जाने से ऐसा महान् जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि देह-पात के बाद से तो वह शुरू होता है।

जिसे हम पूजनीय मानते हैं उसकी सच्ची पूजा तो उसके सद्गुणों का अनुकरण करना ही है। लोकमान्य अत्यत सादगी के साथ रहते थे। उनके स्मरण के लिए हमें भी अपना जीवन सादा बनाना चाहिए। हमें उस सीमा तक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जिस तक के लिए हमारा मन गवाही देता हो। अपने निश्चित कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वह विचारशील थे। हमें भी विचार करके ही बोलना और काम करना चाहिए। वह विद्वान् थे, अपनी मातृभाषा और सस्कृति पर उनका खूब प्रभुत्व था। हमें भी उनकी तरह विद्वान् होने का निश्चय करना चाहिए। व्यवहार में विदेशी भाषा का त्याग करके मातृभाषा का काफी ज्ञान प्राप्त करना और उसीके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें सस्कृत भाषा का अध्ययन करके अपने धर्म-शास्त्रों में छिपे धर्म-रहस्यों को प्रकट करना चाहिए। वह स्वदेशी के प्रेमी थे। हमें भी स्वदेशी का अर्थ समझकर उसका व्यवहार करना चाहिए। उनके हृदय में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। हमें भी अपने हृदय में ऐसा प्रेम उदय करे और दिन-प्रतिदिन देश-सेवा में अधिकाधिक तत्पर हो। इसी रीति से उनकी पूजा हो सकती है। जिनसे इतना न हो सके वे उनकी यादगार के लिए जितना हो सके धन दे और वह स्वराज्य के कार्य में खर्च किया जाय।

लोकमान्य वर्तमान राज्य-मंडल के कैंटटर शत्रु थे। पर इससे यह न समझना चाहिए कि वह अग्रेजों से द्वेष करते थे। जो

लोग ऐसा समझते हैं वे भूल करते हैं। उन्हीं के श्रीमुख से मैंने कई बार अग्रेजों की प्रशंसा सुनी है। वह अग्रेजी राज्य के सबध को भी अनिष्ट नहीं मानते थे। वह तो सिर्फ अपनेको अग्रेजों के बराबर मनवाना चाहते थे। किसीका भी गुलाम बनकर रहना उन्हें पसद न था।

“शठ प्रति शाठचम्” तिलक महाराज का जीवन-मत्र नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह इतनी लोकप्रियता प्राप्त न कर सकते। मेरी जान में सासार-भर में ऐसा भी एक उदाहरण नहीं है, जिससे किसी मनुष्य ने इस सिद्धात पर अपना जीवन-निर्माण किया हो और फिर भी वह लोकमान्य बन सका हो। यह सच है कि इस बारे में जितना गहरा मैं पैठता हूँ, वह नहीं पैठते थे। हम शठ के प्रति शाठच का कदापि उपयोग कर ही नहीं सकते। ‘गीता-रहस्य’ में एक-दो स्थानों में, सिर्फ एक-ही दो स्थानों में, इस बात का थोड़ा समर्थन जरूर मिलता है। लोकमान्य मानते थे कि राष्ट्र-हित के लिए अगर कभी शाठच से, दूसरे शब्दों में ‘जैसे को तैसा’ सिद्धात से, काम लेना पड़े तो ले सकते हैं। साथ ही वह यह भी मानते तो थे ही कि शठ के सामने भी सत्य का प्रयोग करना अच्छा है, यही सत्य सिद्धात है। मगर इस सबध में वह कहा करते थे कि साधु लोग ही इस सिद्धात पर अमल कर सकते हैं। तिलक महाराज की व्याख्या के मुताबिक साधु लोगों से अर्थ वैरागियों का नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जो दुनिया से अलिप्त रहते हैं, दुनियादारी के कामों में भाग नहीं लेते। इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि अगर कोई दुनिया में रहकर इस सिद्धात का पालन करे तो अनुचित होगा—हा, वह न कर सके यह दूसरी बात है। वह मानते थे कि शाठच का उपयोग करने का उसे अधिकार है। लेकिन ऐसे महान् पुरुष के जीवन का मूल्य ठहराने का हमें कोई अधिकार हो तो हम विवादास्पद बातों से उसका मूल्य न

ठहरावे। लोकमान्य का जीवन भारत के लिए, समस्त विश्व के लिए, एक बहुमूल्य विरासत है। उसकी पूरी कीमत तो भविष्य में निश्चित होगी। इतिहास ही उसकी कीमत का अनुभान लगावेगा, वही लगा सकता है। जीवित मनुष्य का ठीक-ठीक मूल्य, उसका सच्चा महत्व, उसके समकालीन कभी ठहरा ही नहीं सकते। उनसे कुछ-न-कुछ पक्षपात तो हो ही जाता है, क्योंकि रागद्वेष-पूर्ण लोग ही इस काम के कर्ता भी होते हैं। सच पूछा जाय तो इतिहासकार भी राग-द्वेष-रहित नहीं पाये जाते। समकालीन व्यक्ति में विशेष पक्षपात होने की सभावना रहती है। लोकमान्य के महान् जीवन का उपयोग तो यह है कि हम उनके जीवन के शाश्वत सिद्धातों का सदा स्मरण और अनुकरण करे।

तिलक महाराज का देश-प्रेम अटल था। साथ ही उनमें तीक्ष्ण न्याय-वृत्ति भी थी। इस गुण का परिचय मुझे अनायास मिला था। १९१७ की कलकत्ता-महासभा के दिनों में, हिंदी साहित्य सम्मेलन की सभा में भी वह आये थे। महासभा के काम से उन्हे फुर्सत तो कैसे हो सकती थी? फिर भी वह आये और भाषण करके चले गये। मैंने वही देखा कि राष्ट्र-भाषा हिंदी के प्रति उनमें कितना प्रेम था। मगर इससे भी बढ़कर जो बात मैंने उनमें देखी, वह थी अग्रेजों के प्रति की उनकी न्याय-वृत्ति। उन्होंने अपना भाषण ही यो शुरू किया था—“मैं अग्रेजी शासन की खूब निदा करता हूँ, फिर भी अग्रेज विद्वानों ने हमारी भाषा की जो सेवा की है, उस हम भुला नहीं सकते।” उनका आधा भाषण इन्हीं बातों से भरा था। आखिर उन्होंने कहा था कि अगर हमे राष्ट्र-भाषा के क्षेत्र को जीतना और उसकी वृद्धि करना हो तो हमे भी अग्रेज विद्वानों की भाति ही परिश्रम और अभ्यास करना चाहिए। अपनी लिपि की रक्षा और व्याकरण की व्यवस्था के लिए हम एक बड़ी हद तक अग्रेज विद्वानों के आभारी हैं। जो पादरी आरभ में आये थे, उनमें पर-भाषा के लिए प्रेम था। गुजराती में टेलर-कृत व्याकरण कोई साधारण वस्तु नहीं है। लोकमान्य ने इस बात

का विचार भी नहीं किया कि अग्रेजों की स्तुति करने से मेरी लोक-प्रियता घटेगी। लोगों का तो यहीं विश्वास था कि वह अग्रेजों की निदा ही कर सकते हैं।

तिलक महाराज मे जो त्याग-वृत्ति थी, उसका सौवा या हजारवा भाग की हम अपने मे नहीं बता सकते। और उनकी सादगी? उनके कमरे मे न तो किसी तरह का फर्नीचर होता था, न कोई खास सजावट। अपरिचित आदमी तो खयाल भी नहीं कर सकता था कि वह किसी महान् पुरुष का निवास-स्थान है। रग-रग मे भिड़ी हुई उनकी इस सादगी का हम अनुकरण करे तो कैसा हो? उनका धैर्य तो अद्भुत था ही। अपने कर्तव्य मे वह सदा अटल रहते और उसे कभी भूलते ही न थे। धर्मपत्नी की मृत्यु का सवाद पाने पर भी उनकी कलम चलती ही रही। क्या हम तिलक महाराज के जीवन का एक भी ऐसा क्षण बतला सकते हैं, जो भोग-विलास मे बीता हो? उनमे जबर्दस्त सहिष्णुता थी। यानी वह चाहे जैसे उड्ड-से-उड्ड आदमी से भी काम करवा लेते थे। लोकनायक मे यह शक्ति होनी चाहिए। इससे कोई हानि नहीं होती। अगर हम सकुचित हृदय बन जाय और सोच ले कि फला आदमी से काम लेगे ही नहीं, तो या तो हमें जगल मे जाकर बस जाना चाहिए, या घर बैठें-बैठे गृहस्थ का जीवन बिताना चाहिए। इसमे शर्त यही है कि स्वयं अलिप्त रह सके।

मुह से तिलक महाराज का बखान करके ही हम चुप न हो बठे। काम, काम और काम ही हमारा जीवन-सूत्र होना चाहिए। जब कि हम स्वराज्य-यज्ञ को चालू रखना चाहते हैं, हमें चाहिए कि हम निकम्मे साहित्य का पढ़ना बद कर दे, निरर्थक बातें करना छोड़ दे और अपने जीवन का एक-एक क्षण स्वराज्य के काम मे बिताने लगे। आप पूछेंगे कि क्या पढ़ाई छोड़कर यह काम करे? १९२१ मे भी विद्यार्थियों के साथ मेरा यहीं झगड़ा था कि तिलक महाराज ने क्या किया था? उन्होने जो बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे, वे बाहर रहकर नहीं, जेल मे रहकर लिखे थे। 'गीता-रहस्य' और

‘आर्किटक होम’ वह जेल में ही लिख सके थे। बड़े-बड़े मौलिक ग्रथ लिखने की शक्ति होते हुए भी उन्होंने देश के लिए उसका बलिदान किया था। उन्होंने सोचा, “घर के चारों ओर आग भभक उठी है। इसे जितनी बुझा सकू, उतनी तो बुझाऊ।” उन्होंने अगर हजार घड़े पानी से वह बुझाई हो तो हम एक ही घड़ा डाले, मगर डाले तो सही। पढाई आदि आवश्यक होते हुए भी गौण बातें हैं। अगर स्वराज्य के लिए इनका उपयोग होता हो तो करना चाहिए, अन्यथा इन्हें तिलाजलि देनी चाहिए। इससे न हमारा नुकसान है और न ससार का।

तिलक महाराज अपने जीवन द्वारा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण छोड़ गये हैं। जिनके जीवन में से इतनी सारी बातें ग्रहण करने योग्य हो, जिनकी विरासत इतनी जबर्दस्त हो, उनके सबध में उक्त प्रश्न के लिए गुजाइश ही नहीं रहती है। हमारा धर्म तो गुणग्राही बनने का है।

आज हमें जो काम करना है, वह मुदार आदमियों के करने से तो हो नहीं सकता। स्वराज्य का काम कठिन है। भारत में आज एक लहर बह रही है। उसमें खिचकर हम भाषण करते हैं, धीगाधीगी मचाते हैं, तूफान खड़े करते हैं, मनमाने तौर पर सस्थाओं में घुस जाते हैं और फिर उन्हें नष्ट करते एवं धारासभाओं में जाकर भाषण करते हैं। तिलक महाराज के जीवन में ये बाते हमारे देखने में भी नहीं आती। उनके जीवन के जो गुण अनुकरणीय हैं, सो तो मैं ऊपर कह ही चुकाँ हूँ।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> लोकमान्य की पुण्यतिथि पर गुजरात विद्यापीठ में दिया गया भाषण।

: १२ :

## अब्बास तैयबजी

सबसे पहले सन् १९१५ में मैं अब्बास तैयबजी से मिला था। जहा कही मैं गया, तैयबजी-परिवार का कोई-न-कोई स्त्री-पुरुष मुझसे आकर जरूर मिला। ऐसा मालूम पड़ता है, मानो इस महान् और चारों तरफ फैले हुए परिवार ने यह नियम ही बना लिया था। हमारे बीच इस अटूट सबध का खास कारण क्या था? सिवा इसके मुझे और कुछ मालूम नहीं कि जिस सुप्रतिष्ठित न्यायाधीश के कारण यह वश प्रसिद्ध है, उससे सन् १८९० में मेरी मित्रता हो गई थी, जबकि मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया था और बिल्कुल अनजान व्यक्ति था। कुछ लोगों के विचार में तो मैं सभवत एक दुःसाहसी आदमी था, लेकिन बदरूदीन तैयबजी और कुछ अन्य व्यक्ति ऐसे भी थे, जिनका यह ख्याल नहीं था।

मगर मुझे तो बड़ौदा के अब्बास मिया के विषय पर ही आना चाहिए। जब हम एक-दूसरे से मिलते और मैं उनके मुह की ओर देखता तो मुझे स्व० जस्टिस बदरूदीन तैयबजी का स्मरण हो आता था। हमारी उस मलाकात से हमारे बीच जन्म-भर के लिए मित्रता की गाठ बध गई। मैंने उन्हें हरिजनों का मित्र ही नहीं, बल्कि उन्हीं का एक पाया। बहुत दिन पहले गोधरा में, शाम को हरिजनों की बस्ती में होनेवाले एक अस्पृश्यता-विरोधी-सम्मेलन में जब मैंने उन्हें बुलाया तो दर्शकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब्बास मिया ने हरिजनों के काम में उसी उत्साह से भाग लिया, जैसे कोई कट्टर हिंदू ले सकता है। इतने पर भी वह कोई साधारण मुसलमान नहीं थे। इस्लाम के लिए उन्होंने मुक्तहस्त से दान दिया और कई मुस्लिम सस्थाओं को वह सहायता देते रहते थे। मगर हरिजनों को मुसलमान बनाने जैसा कोई विचार उनके मन में नहीं था। उनके इस्लाम में भूमडल के तमाम महान् धर्मों के

लिए गुजाइश थी। इसीलिए अस्पृश्यता-विरोधी-आंदोलन में वह हिंदुओं की ही तरह उत्साहपूर्वक भाग लेते थे, और मैं जानता हूँ कि जबतक वह जिदा रहे तबतक उनका यह उत्साह बराबर वैसा ही बना रहा।

असल बात यह है कि उन्होने आधे मन से कभी कोई काम नहीं किया। अब्बास तैयबजी अपने मन में कोई बात छिपा कर नहीं रखते थे। पजाब की पुकार का उन्होने तत्क्षण जवाब दिया। उनकी आयु के और ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं झेली, जेलों की सख्तिया बर्दाशत करना कोई मजाक नहीं था। लेकिन उनकी श्रद्धा ने हरेक कठिनाई को विजय कर लिया। हँसते-हँसाते खेड़ा के किसानों की तरह ही सादा जीवन व्यतीत करते, उन्हींका-सा खाना खाते और सब मौसमों में उन्हींकी रही-सही गाडियों में सफर करने की क्षमता से अनेक तौजीवानों को उनके सामने शर्मिदा होना पड़ा। ऐसी असुविधाओं के बारे में, जिन्हे कि बचाया जा सकता हो, मैंने उनको कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। “क्यो ?” का प्रश्न करना उनका काम नहीं था, वह तो काम करने और अपनेको झोक देने की बात जानते थे। हालांकि एक समय चीफ जज की हैसियत से उन्हें किसीको मृत्युदण्ड देने और अपनी आज्ञा-पालन कराने की सत्ता प्राप्त थी, फिर भी बिना किसी उच्च के अनुशासन पालन करने की आश्चर्यजनक क्षमता उन्होने प्रदर्शित की। वह मनुष्य-जाति के चिरले सेवकों में से थे। भारत-सेवक भी वह इसीलिए थे कि वह मनुष्य-जाति के सेवक थे। ईश्वर को वह दरिद्र-नारायण के रूप में मानते थे। उनका विश्वास था कि परमेश्वर दीन-दुखियों के बीच ही रहता है। अब्बास मिया का शरीर यद्यपि इस समय कब्र में विश्राम कर रहा है, पर वह मरे नहीं है। उनका जीवन हम सबके लिए एक स्फूर्ति है, एक प्रेरणा है।<sup>१</sup>

---

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, २०-८-३६

: १३ :

## देशबंधु चित्तरंजन दास

देशबंधु दास एक महान् पुरुष थे। मैं गत छ वर्षों से उन्हें जानता हूँ। कुछ ही दिन पहले जब मैं दार्जिलिंग से उनसे विदा हुआ था तब मैंने एक मित्र से कहा था कि जितनी ही घनिष्ठता उनसे बढ़ती है उतना ही उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। मैंने दार्जिलिंग मेरे देखा कि उनके मन मे भारत की भलाई के सिवा और कोई विचार न था। वह भारत की स्वाधीनता का ही सपना देखते थे, उसीका विचार करते थे और उसीकी बातचीत करते थे, और कुछ नहीं। दार्जिलिंग से विदा होते समय भी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप बिछुड़े हुए दलों को एक करने के लिए बगाल मे अधिक समय तक ठहरिये, ताकि सब लोगों की शक्ति एक कार्य के लिए युक्त हो जाय। मेरी बगाल-यात्रा मे उनसे मत-भेद रखनेवालों ने भी बिना हिचकिचाहट के इस बात को स्वीकार किया है कि बगाल मे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जो उनका स्थान ले सके। वह निर्भीक थे, वीर थे। बगाल मे नवयुवकों के प्रति उनका निस्सीम स्नेह था। किसी नवयुवक ने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि देशबंधु से सहायता मांगने पर कभी किसीकी प्रार्थना खाली गई। उन्होंने लाखों रुपया पैदा किया और लाखों रुपया बगाल के नवयुवकों मे बाट दिया। उनका त्याग अनुपम था, और उनकी महान् बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता की बात मैं क्या कह सकता हूँ। दार्जिलिंग मे उन्होंने मुझसे अनेक बार कहा कि भारत की स्वाधीनता अहिंसा और सत्य पर निर्भर है। . . .

देशबंधु ने पटना और दार्जिलिंग मे चरखा कातने की कोशिश की थी। मैंने उनको चरखा का पाठ पढ़ाया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं कातना सीखने की कोशिश करूँगा और जबतक शरीर रहेगा तबतक कातूँगा। उन्होंने अपने दार्जिलिंग

के निवास-स्थान को 'चरखा-क्लब' बना दिया था। उनकी नेक पत्नी ने बादा किया कि बीमारी की हालत छोड़कर मैं रोज आध घटे तक स्वयं चरखा चलाऊगी और उनकी लड़की, बहन और बहन की लड़की तो बराबर ही चरखा कातती थी। -

देशबधु मुझसे अक्सर कहा करते—“मैं समझता हूँ कि शारा सभा में जाना जरूरी है मगर चरखा कातना भी उतना ही जरूरी है। न सिर्फ जरूरी है, बल्कि बिना चरखे के धारा सभा के काम को कारगर बनाना असभव है।” उन्होंने जबसे खादी की पोशाक पहनना शुरू किया तब से मरने के दिन तक पहनते आये।

मेरे लिए यह कहने की बात नहीं है कि उन्होंने हिंदू-मुसलमानों में मेल करने के लिए कितना बड़ा काम किया था। अचूतों से वह कितना प्रेम रखते थे, इसके विषय में सिर्फ वही एक बात कहूँगा जो मैंने बारीसाल मे कल रात को एक नाम-शूद्र नेता से सुनी थी। उस नेता ने कहा—“मुझे पहली आर्थिक सहायता देशबधु ने दी और पीछे डाक्टर राय ने।” देशबधु देश-सेवको मे एक रत्न थे। उनकी सेवा और त्याग बेजोड था। ईश्वर करे, उनकी याद हमे सदा बनी रहे और उनका आदर्श हमारे सदुद्योग मे सार्थक हो। हमारा मार्ग लबा और दुर्गम है। हमको उसम आत्म-निर्भरता के सिवा और कोई सहारा नहीं देगा। स्वावलबन ही देशबधु का मुख्य सूत्र था। वह हमे सदा अनुप्राणित करता रहेगा।<sup>1</sup>

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

मनुष्यों मे से एक दिग्गज पुरुष उठ गया। १९१९ मे, पजाब महासभा जाच-समिति के सिलसिले मे उनसे पहले-पहल मेरा प्रत्यक्ष परिचय हुआ। मैं उनके प्रति सशय और भय के भाव लेकर उनसे मिलने गया था। दूर से ही मैंने उनकी धुआधार बकालत और उससे भी अधिक धुआधार बक्तृत्व का हाल सुना था। वह अपनी मोटरकार लेकर सप्तनीक, सपरिवार आये थे और

एक राजा की शान-बान के साथ रहते थे । मेरा पहला अनुभव तो कुछ अच्छा न रहा । हम हटर-कमिटी की तहकीकात में गवाहिया दिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठे थे । मैंने उनके अदर तमाम कानूनी बारीकियों को तथा गवाह को जिरह में तोड़कर फौजी कानून के राज्य की, बहुतेरी शारारतों की कलई खोलने की, बकीलोचित तीव्र इच्छा देखी । मेरा प्रयोजन कुछ भिन्न था । मैंने अपना कथन उन्हे सुनाया । दूसरी मुलाकात में मेरे दिल को तसल्ली हुई और मेरा तमाम डर दूर हो गया । उनसे मैंने जो कुछ कहा उसको उन्होंने उत्सुकता के साथ सुना । भारतवर्ष में पहली ही बार बहुतेरे देशसेवकों के घनिष्ठ समागम में आने का अवसर मुझे मिला था । त्रिवेतक मैंने महासभा के किसी काम में वैसे कोई हिस्सा न लिया था । वह मुझे जानते थे—एक दक्षिण अफ्रीका का योद्धा है । पर मेरे तमाम साथियों ने मुझे अपने घर का-सा बना लिया, और देश के इस विस्थायत सेवक का नबर इसमें सबसे आगे था । मैं उस समिति का अध्यक्ष माना जाता था । “जिन बातों में हमारा मतभेद होगा उनमें मैं अपना कथन आपके सामने उपस्थित कर दूगा । फिर जो फैसला आप करेगे उसे मैं मान लूगा । इसका यकीन मैं आपको दिलाता हूँ ।” उनके इस स्वयस्फूर्त आश्वासन के पहले ही हममे इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि मुझे अपने मन का सशय उनपर प्रकट करने का साहस हो गया । फिर जब उनकी ओर से यह आश्वासन मिल गया तब मुझे ऐसे मित्र-निष्ठ साथी पर अभिमान तो हुआ, किन्तु साथ ही कुछ सकोच भी मालूम हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तो भारत की राजनीति में एक नौसिखिया था और शायद ही ऐसे पूर्ण विश्वास का अधिकारी था । परतु तत्र-निष्ठा छोटे-बड़े के भेद को नहीं जानती । वह राजा जो कि तत्र-निष्ठा के मूल्य को जानता है अपने सेवक की भी बात, उस माले में मानता है, जिसका पूरा भार उसपर छोड़ देता है । इस जगह मेरा स्थान एक सेवक के जैसा था । और मैं इस बात का उल्लेख कृतज्ञता और अभिमान के साथ करता

हूँ कि मुझे जितने मित्र-निष्ठ साथी वहा मिले थे, उनमें कोई इतना मित्र-निष्ठ न था जितना चित्तरजन दास थे ।

अमृतसर-धारा-सभा में तत्र-निष्ठ का अधिकार मुझे नहीं मिल सकता था । वहा हम परस्पर योद्धा थे, हर शस्त्र को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार राष्ट्र-हित-सबधी अपने ट्रस्ट की रक्षा करनी थी, जहा तर्कं अथवा अपने पक्ष की आवश्यकता के अलावा किसीकी बात मान लेने का सवाल न था । महासभा के मच पर पहली लडाई लड़ना मेरे लिए एक पूरे आनंद और तृप्ति का विषय था । बड़े सभ्य, उसी तरह न झुकनेवाले महान् मालवीयजी बलाबल को सामने रखने की कोशिश कर रहे थे । कभी एक के पास जाते थे, कभी दूसरे के पास । महासभा के अध्यक्ष पडित मोतीलाल-जी ने सोचा कि खेल खत्म हो गया । मेरी तो लोकमान्य और देशबधु से खासी जम रही थी । सुधार-सबधी प्रस्ताव का एक ही सूत्र उन दोनों ने बना रखा था । हम एक-दूसरे को समझा देना चाहते थे, पर कोई किसीका कायल न होता था । बहुतों ने तो सोचा था कि अब कोई चारा नहीं था और इसका अत बुरा रहेगा । अलीभाई, जिन्हे मैं जानता था और चाहता था, पर आज की तरह जिनसे मेरा परिचय न था, देशबधु के प्रस्ताव के पक्ष मे मुझे समझाने लगे । मुहम्मद अली ने अपनी लुभावनी नम्रता से कहा, “जाच-समिति मैं आपने जो महान् कार्य किया है, उसे नष्ट न कीजिये ।” पर वह मुझे न पटा सके । तब जयरामदास वह ठड़े दिमागवाला सिंधी आया, और उसने एक चिट मे समझौते की सूचना और उसकी हिमायत लिखकर मेरे पास पहुँचाई । मैं शायद ही उन्हे जानता था । पर उनकी आंखों और चेहरे मे कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे लुभा लिया । मैंने उस सूचना को पढ़ा । वह अच्छी थी । मैंने उसे देशबधु को दिया । उन्होंने जवाब दिया, “ठीक है, बशर्तेकि हमारे पक्ष के लोग उसे मान ले ।” यहां ध्यान दीजिये उनकी घनिष्ठता पर । अपने पक्ष के लोगों का समाधान किये बिना वह नहीं रहना चाहते थे । यही एक रहस्य है लोगों के

हृदय पर उनके आश्चर्यजनक अधिकार का । वह सब लोगों को पसंद हुई । लोकमान्य अपनी गरुड़ के सदृश तीखी आखों से वहा जो कुछ हो रहा था सब देख रहे थे । व्याख्यान-मच से पड़ित मालवीयजी की गगा के सदृश वाघारा वह रही थी । उनकी एक आख सभामच की ओर देख रही थी जहाँकि हम साधारण लोग बैठकर राष्ट्र के भाग्य का निर्णय कर रहे थे । लोकमान्य ने कहा—“मेरे देखने की जरूरत नहीं । यदि दास ने उसे पसद कर लिया है तो मेरे लिए वह काफी है ।” मालवीयजी ने उसे वहा से सुना, कागज मेरे हाथ से छीन लिया और घोर करतल ध्वनि से घोषित कर दिया कि समझौता हो गया । मैंने इस घटना का सविस्तर वर्णन इसलिए किया है कि उसमे देशबंधु की महत्ता और निर्विवाद नेतृत्व, कार्य-विषयक दृढ़ता, निर्णय-सबधी समझदारी और पक्ष-निष्ठा के कारणों का सग्रह आ जाता है ।

अब और आगे बढ़िये । हम जुहू, अहमदाबाद, दिल्ली और दार्जिलिंग पहुँचते हैं । जुहू मे वे और पड़ित मोतीलालजी मुझे अपने पक्ष मे मिलाने के लिए आये । वह दोनों जोड़वा भाई हो गये थे । हमारे दृष्टि-बिंदु अलग-अलग थे, पर उन्हे यह गवारा न होता था कि मेरे साथ मतभेद रहे । यदि उनके बस का होता तो वे ५० मील चले जाते जहा मैं सिर्फ २५ मील चाहता, परन्तु वे अपने एक अत्यत प्रिय मित्र के सामने भी एक इच न झुकना चाहते थे, जहाँ कि देशहित सकट मे था । हमने एक प्रकार का समझौता कर लिया । हमारा मन तो न भरा, पर हम निराश न हुए । हम एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुले हुए थे । फिर हम अहमदाबाद मे मिले । देशबंधु अपने पूरे रग मे थे और एक चतुर खिलाड़ी की तरह सब रग-डग देखते थे । उन्होने मुझे एक शान की शिक्षत दी । उनके जैसे मित्र के हाथों ऐसी कितनी शिक्षत मैं न खाऊँगा । पर अफसोस । वह शरीर अब दुनिया मे नहीं रहा ।

वह अक्सर आध्यात्मिकता की बाते करते थे और कहते

थे कि धर्म के विषय मे आपका मेरा कोई मतभेद नहीं है। पर यद्यपि उन्होने कहा नहीं तथापि हो सकता है कि उनका भाव यह रहा हो कि मैं इतना काव्यहीन हूँ कि मुझे हमारे विश्वासो की एकात्मता नहीं दिखाई देती। मैं मानता हूँ कि उनका ख्याल ठीक था। उन बहुमूल्य पात्र दिनों मे मैंने उनका हर कार्य धर्म-मय देखा और न कवल वह महान् थे, बल्कि नेक भी थे, उनकी नेकी बढ़ती जा रही थी।

जबकि क्रूर दैव ने लोकमान्य को हमसे छीन लिया तब मैं अकेला असहाय रह गया। अभी तक मेरी वह चोट गई नहीं है, क्योंकि अबतक मझे उनके प्रिय शिष्यों की आराधना करनी पड़ती है। पर देशबधु के वियोग ने तो मुझे और भी बुरी हालत मे छोड़ दिया है।<sup>९</sup>

...

...

...

उनका त्याग महान् था। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनकी मुठ्ठी सदा सबके लिए खुली रहती थी। दान देने मे वह कभी आगा-पीछा न सोचते थे। उस दिन मैंने बडे भीठे भाव से कहा, “अच्छा होता, आप दान देने मे अधिक विचार से काम लेते।” उन्होने तुरत उत्तर दिया, “पर मैं नहीं समझता कि अपने अविचार के कारण मेरी कुछ हानि हुई है।” अभीर और गरीब सबके लिए उनका रसोई-घर खुला था। उनका हृदय हरेक की मुसीबत के समय उसके पास दौड़ जाता था। सारे बगाल मे ऐसा कौन नवयुवक ह, जो किसी-न-किसी रूप मे देशबधु का कृतज्ञ नहीं है? उनकी बेजोड़ कानूनी प्रतिभा भी सदा गरीबों की सेवा के लिए हाजिर रहती थी। मूँझे मालूम हुआ है कि उन्होने यदि सबकी नहीं तो, बहुतेरे राजनैतिक कैदियों की पैरवी बिना एक कौड़ी लिये की है। पजाब की जात्र के समय जब वह पजाब गये तो अपना सारा खर्च अपनी जेब से किया था। उन दिनों अपने

<sup>९</sup> हिंदू नव्वजीवन २५-६-२५

साथ वह एक राजा की तरह लवाजमा ले गये थे। उन्होने मुझसे कहा था कि पजाब की उस यात्रा मे उनके पचास हजार रुपये खर्च हुए थे। जो उनके द्वार पर आता था उसीके लिए उनकी उदारता का हाथ आगे बढ़ जाता था। उनके इसी गुण ने उन्हे हजारों नवयुवकों के दिल का राजा बना दिया था।

जैसे ही वह उदार थे वैसे ही निर्भीक भी थे अमृतसर मे उनकी धुआधार बक्तृताओं ने मेरा दम खुश कर दिया था। वह अपने देश की मुक्ति तुरत चाहते थे। वह एक विशेषण को हटाने या बदलने के लिए तैयार न थे इसलिए नहीं कि वह जिद्दी थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने देश को बहुत चाहते थे। उन्होने विशाल शक्तियों को अपने कब्जे मे रखा। अपने अदम्य उत्साह और अध्यवसाय के द्वारा उन्होने अपने दल को प्रबल बनाया। परतु यह भीषण शक्ति-प्रवाह उनकी जान ले बैठा। उनका यह बलिदान स्वेच्छापूर्वक था। वह उच्च था, उदात्त था।<sup>9</sup>

कलकत्ता १८ ता० को पागल हो गया था। अक-शास्त्री कहते हैं कि २ लाख से कम आदमी इकट्ठे न हुए थे। रास्तों पर खड़े, तार के खभों पर चढ़े, टाम की छत पर खड़े, झरोखों मे राह देखते हुए बैठे स्त्री-पुरुष इससे जुदा हैं।

साथ भजन-कीर्तन तो था ही। पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। शब खुला हुआ था, परतु उसपर फूलों के हार का पहाड़ बिछ गया था।

अर्थी के जुलूस के आगे स्वयसेवक फुलवाड़ी लेकर चल रहे थे। उसमे फूलों से सुसज्जित चरखा था। जुलूस स्टेशन से ७-३० पर चलकर इमशान मे ३ बजे पहुचा। ३-३० बजे अग्नि-सस्कार शुरू हुआ।

इमशान-घाट पर भीड़ उमड़ी थी। पीछे से जो भीड़ उमड़ती थी उसे रोकना अति कठिन था और मैं समझता हूँ कि यदि मुझे

<sup>9</sup> हिंदी नवजीवन २५-६-२५

हट्टे-कट्टे लोगों ने अपने कधे पर बिठाकर इस उमडती हुई भीड़ के सामने न उठा रखा होता तो भयकर दुर्घटना हो जाती। दो सशक्त आदमियों ने मुझे अपने कधे पर बिठा रखा और उस हालत में मैं लोगों को रोक रहा था और उनसे बैठ जाने की प्रार्थना कर रहा था। लोग जबतक मुझे देखते थे तबतक तो मानते थे, पर मैं जहा अशाति की आशका होती उस ओर गया कि मेरी पीठ फिरते ही लोग तुरत उठ खड़े हो जाते थे। सब लोग दीवाने हो गये थे। हजारों आखे रथी की ओर लगी हुई थी। जब दाहकर्म शूल हुआ तब लोग धीरज खो बैठे। सब बरबस खड़े हो गये और चिंता की ओर लिच पड़े। यदि एक भी क्षण का विलंब होता तो सबके चिंता पर गिर पड़ने का अदेशा था। अब क्या करे? मैंने लोगों से कहा, “अब काम पूरा हुआ। सब अपने-अपने घर जावे।” और मुझे उठानेवाले भाइयों से कहा, “अब मुझे इस भीड़ से हटा ले चलो।” लोगों को मैं पुकार-पुकारकर और इशारे से कहता चला कि मेरे पीछे आओ। इसका असर बहुत अच्छा हुआ, वह हजारों की भीड़ बापस लौटी और दुर्घटना होते-होते बची। चिंता चदन की लकड़ी की बनाई गई थी।

लोग ऐसे मालूम होते थे मानो वन-भोज को आये हो। गभीरता तो सबके चेहरे पर थी, पर ऐसा नहीं मालूम होता था कि वे शोक-भार से दब गये हैं। कुटुम्बियों का और मेरा शोक स्वार्थ-पूर्ण मालूम होता था। हमारे तत्व-ज्ञान का अत आ गया, लोगों का कायम रहा, क्योंकि वे तटस्थ थे। उनके अंदर सम्मान का भाव तो पूरा-पूरा था। उनकी पूजा नि स्वार्थ थी। वे तो भारत-पुत्र को, अपने बधु को, प्रमाणपत्र देने के लिए आये थे। वे अपनी आंखों से और चेष्टा से ऐसा कहते हुए दिखाई देते थे, “तुमने बड़ा काम किया, तुम्हारे जैसे हजारों हों।”

देशबधु जैसे भव्य थे वैसे ही भले थे। दार्जिलिंग में इसका बड़ा अनुभव मुझे हुआ। उन्होंने धर्म-संबंधी बातें की। जिनकी छाप उनके दिल पर गहरी बैठी, उनकी बातें की। वह धर्म का अनु-

भव-ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। “दूसरे देश में जो कुछ हो, पर इस देश का उद्धार तो शातिमार्ग से ही हो सकता है। मैं यहा के नवयुवकों को दिखला दूगा कि हम शाति के रास्ते स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं।” ‘यदि हम भले हो जायगे तो अनेजों को भला बना लेंगे।’ “इस अधिकार और दभ में मुझे सत्य के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दूसरे की हमें आवश्यकता भी नहीं।” “मैं तमाम दलों में मेल कराना चाहता हूँ। बाधा सिर्फ इतनी ही है कि हमारे लोग भीरु हैं। उनको एकत्र करने के प्रयत्न में होता क्या है कि हमें भीरु बनना पड़ता है। तुम जरूर सबको मिलाने की कोशिश करना और मिलना, पत्र-सपादकों को समझाना कि मेरी और स्वराज्य-दल की खामखाना निदा करने से क्या लाभ? मैंने यदि भूल की हो तो मुझे बतावे। मैं यदि उन्हे सतुष्ट न करूँ तो फिर शौक से पेट भर के मेरी निदा करे।” “तुम्हारे चरखे का रहस्य मैं दिन-दिन अधिक समझता जाता हूँ। मेरा कधा यदि दर्द न करता हो और इसमें मेरी गति कुठित न हो तो मैं तुरत सीख लूँ। एक बार सीखने पर नियमपूर्वक कातने में मेरा जी न ऊबेगा। पर सीखते हुए जी उकता उठता है। देखो न, तार टूटे ही जाते हैं।” “पर आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं? स्वराज्य के लिए आप क्या नहीं कर सकते।” “हा-हा, यह तो ठीक ही है। मैं कहा सीखने से नाहीं करता हूँ? मैं तो अपनी कठिनाई बताता हूँ। पूछो तो वास्तीदेवी से कि ऐसे काम में मैं कितना मदबुद्ध हूँ?” वास्तीदेवी ने उनकी मदद की, “ये सच कहते हैं। अपना कलमदान खोलना हो तो ताला लगाने मुझे आना पड़ता है।” मैंने कहा, “यह तो आपकों चालाकी है। इस तरह आपने देशबंधु को अपग बना रखा है, जिससे उन्हे सदा आपकी खुशामद करनी पड़े और आप पर सहारा रखना पड़े।” हँसी से कमरा गूज उठा। देशबंधु मध्यस्थ हुए। “एक महीने बाद मेरी परीक्षा लेना। उस समय मैं रस्सियां निकालता न मिलूँगा।” मैंने कहा, “ठीक है। आपके लिए सतीशबाबू शिक्षक भी भैंजे देंगे। आप जब पास

हो जायगे तो समझियेगा कि स्वराज्य नजदीक आ गया ।” ऐसे सब विनोदो का वर्णन करने लगे तो खात्मा नहीं हो सकता ।

कितने ही संस्मरण तो ऐसे हैं, जिनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता ।

मैं जिस प्रेम का अनुभव वहां कर रहा था उसकी कुछ झलक यदि यहां न दिखाऊ तो मैं कृतघ्न माना जाऊगा । वह छोटी-छोटी-सी बात की सभाल रखते थे । मेरे खुद कलकत्ते से मगवाते । दार्जिलिंग में बकरी या बकरी का दूध मिलना मुश्किल पड़ता है । इसलिए ठेठ तलहटी से पाच बकरिया मगवा कर रखी । मेरी जरूरत की एक-एक चीज का इतजाम किये बगैर न रहते थे । हमारे कमरे के दरम्यान सिर्फ एक दीवार थी । सुबह होते ही, काम-काज से निवटकर, मेरी राह देखते बैठते । चारपाई पर बैठते थे, चारपाई अभी नहीं छुटी थी । पत्थी मारकर बैठने की मेरी आदत से परिचित थे । सौ कुरसी पर नहीं बैठने देते थे । खटिया पर ही अपने सामने मुझे बैठाते । गहे पर भी कुछ खास तौर पर बिछवाते और तकिया भी लगवाते । मुझसे दिल्लगी किये बिना न रहा गया, “यह दृश्य तो मुझे चालीस बरस पहले की याद दिलाता है । जब मेरी शादी हुई थी तब हम दुल्हे-दुलहिन इस तरह बैठे थे । अब यहा पाणि-ग्रहण की ही कसर है ।” मेरे कहने की देर थी कि देशबधु के कहकहे से सारा घर गूंज उठा । देशबधु जब हँसते तो उनकी आवाज दूर तक पहुंचे बिना न रहती ।

देशबधु का हृदय दिन-पर-दिन कोमल होता जाता था । रुढ़ि के अनुसार मांस-मळ्ली खाने मे उन्हे कोई विधि-निषेध न था । फिर भी जब असहयोग शुरू हुआ तब मासाहार, मद्यपान और चुरट तीनों चीजे उन्होने छोड़ दी थी । पीछे जाकर फिर उन्होने अपना जोर जमाया था, परतु उनका झुकाव इनको छोड़ने की ओर ही रहता था । अभी कुछ दिनों से राधास्वामी सप्रदाय के एक साधु से उनका समागम हुआ । तब से निरामिष भोजन की उत्सुकता बढ़ गई थी । सौ जबसे वह दार्जिलिंग गये, निरामिष भोजन शुरू

किया था । और मेरे रहने तक घर मे मास-मछली न आने दिया । मुझसे अनेक बार कहा, “यदि मुझसे हो सका तो अब से मै मास-मछली को छुड़गा तक नहीं । मुझे वह पसद थी नहीं और मै समझता हूँ कि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति मे बाधा पहुँचती है । मेरे गुरु ने मुझे खास तौर पर कहा कि साधना के खातिर तुम्हे मासाहार अवश्य छोड़ देना चाहिए ।”<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

यदि हमे देशबधु की आत्मा को शाति दिलाना हो तो हमारे पास एक ही इलाज है । उनके तमाम सद्गुणों को हम अपने अदर पैदा करे । कितने ही सद्गुण तो अवश्य पैदा कर सकते हैं । उनके सदृश अग्रेजी चाहे हमे न आसके, उनकी तरह वकील हम सब न हो सके, धारासभा मे जाने की शक्ति उनके सदश हमारे पास न हो, पर हमारे अदर उनके जैसा देशप्रेम तो हो सकता है । उनके बराबर उदारता हम सीख सकते हैं । उनके बराबर धन हम चाहे न दे सके, परतु जो यथाशक्ति देते हैं, उन्होने बहुत-कुछ दे दिया है । विधवा के एक ताबे के छल्ले की कीमत महाराज के करोड़ों मे से दिये हजार की कीमत से ज्यादा है । देशबधु ने खादी पहनने के बाद फिर घर मे या बाहर उसका त्याग नहीं किया । क्या हम खादी पहनेगे ? देशबधु ने महीन खादी कभी न चाही उन्होन तो मोटी खादी को ही पसद किया था । देशबधु ने कातने का प्रयत्न किया । जिन्होने शुरू नहीं किया, क्या वे अब करेगे ?<sup>२</sup>

' : १४ :

## महादेव देसाई

महादेव की अक्समात् मृत्यु हो गई । पहले जरा भी पता

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २-७-२५

<sup>२</sup> हिंदी नवजीवन, ९-७-२५

नहीं चला । रात अच्छी तरह सोये । नाश्ता किया । मेरे साथ टहले । सुशीला<sup>१</sup> और जेल के डाक्टरों ने, जो कुछ कर सकते थे, किया लेकिन इश्वर की मर्जी कुछ और थी । सुशीला और मैंने शव को स्नान कराया । शरीर शाति से पड़ा है, फूलों से ढका है, धूप जल रही है । सुशीला और मैं गीता-पाठ कर रहे हैं । महादेव की योगी और देशभक्त की भाति मृत्यु हुई है । दुर्गा, बाबला और सुशीला से कहो, शोक करने की मनाई है । ऐसी महान् मृत्यु पर हर्ष ही होना चाहिए । अत्येष्ठि मेरे सामने हो रही है । भस्म रख लूगा ।<sup>२</sup>

• • • • •

भावना तो महादेव की खुराक थी । उसका बलिदान कोई छोटी चीज नहीं है । अकेला भी वह बहुत काम करेगा । मैं इसे शुभ शकुन मानता हूँ । शुद्धतम बलिदान हुआ है, इसका परिणाम अशुभ नहीं हो सकता । महादेव मेरा अतिरिक्त शरीर था । कितनी दफा मैंने उसे मैक्सवेल के पास भेजा है, दूसरों के पास भेजा है । मान लेता था कि महादेव को काम सौंपा है तो वह कर लेगा ।

•

उसे मेरा वारिस होना था, पर मुझे उसका वारिस होना पड़ा है । महादेव की समाधि पर जाना मेरे लिए बिल्कुल सहज बन गया है । मैं न जाऊं तो बेचैन हो जाऊं । वहा जाकर मैं कुछ करना नहीं चाहता, समय भी नहीं देना चाहता, मगर हो आता हूँ, इतना ही मेरे लिए बस है । अगर मैं जिदा रहा तो यह जमीन आगाखां<sup>३</sup> से माग लूगा । वह न दें, यह सभव हो सकता है । मगर किसी रोज तो हिंदुस्तान आजाद होगा । तब यह यात्रा का स्थान बनेगा । मैं वहा जाता हूँ तो महादेव के गुणों का स्मरण करने के लिए, उन्हे ग्रहण करने के लिए । मैं उसकी स्मृति को

<sup>१</sup> डा० सुशीला नैयर <sup>२</sup> आगाखां महल से २५-८-४२ को दिया तार

<sup>३</sup> महादेवभाई की मृत्यु आगाखां महल में हुई थी ।

खोना नहीं चाहता । और जिस तरह से वह यहा मरा, उससे उसकी स्त्री और उसके लड़के के प्रति मेरी वफादारी भी मुझे बताती है कि मुझे वहा नियमित रूप से जाना चाहिए । हो सकता है कि मेरी जिंदगी में यह जगह मुझे न मिल सके और इस जगह को यात्रा-स्थल बनते मैं न देख सकूँ, मगर किसी-न-किसी दिन वह जरूर बनेगा, इतना मैं जानता हूँ ।

आज तो मैं सब काम उसका काम समझकर करता हूँ । बाहर जाऊगा तब भी उसीका काम करूँगा ।

...                    ...                    ...

• • • लगता ही नहीं कि महादेव सदा के लिए गया । कल रात को स्वप्न में वह लड़की कहती है, “महादेवभाई कहाँ है ?” मैं उत्तर देता हूँ, “बहन, मैं तो उसे इमशान में छोड़ आया हूँ ।” पीछे वह पागल-सी हो जाती है, कहती है, “लाओ महादेव-भाई को ! उसे वहा क्यों छोड़ आये ?” • • • महादेव की मैं भाट की तरह स्तुति करता हूँ, मगर मेरा मन उसकी शिकायत भी करता है । उसकी मिसाल सपूर्ण या आदर्श नहीं मानना चाहिए । वह इस विचार का जप करते-करते चला गया कि मैं बापू के बाद क्या कर सकता हूँ ? बापू से पहले चला जाऊ तो अच्छा है । मगर उसे तो कहना चाहिए था कि “नहीं, मुझे तो जिदा रहना है और बापू का काम करना है ।” यह दृढ़ सकल्प उसे मरने से रोक भी लेता ।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

मेरे विचार से महादेव के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी मौका पड़ने पर अपनेको भूलकर शून्यवत् बन जाने की उनकी शक्ति ।<sup>२</sup>

...                    ...                    ...

जमनालाल, मगनलाल और महादेव—इनमें से हरेक

<sup>१</sup> कारावास-कहानी

<sup>२</sup> हरिजन सेवक १२-८-४६

अपने-अपने क्षेत्र में अनूठे थे । मेरा खयाल है कि उनकी जगह दूसरे नहीं ले सकते । मगर मैं कहूँगा कि इन तीनों में से महादेव मुझमें पूरी तरह खो गया था । मैं यह कह सकता हूँ कि मुझसे अलग उसकी कोई हस्ती ही नहीं रह गई थी ।

महादेव की एक बड़ी खूबी यह थी कि जो काम उन्हें सौंपा जाता था, उसे करने के लिए वह सदा तैयार रहते और बड़े उत्साह से करते थे । इसी तरह वह एक अच्छे लेखक, अच्छे रसोइया और अच्छे कुली बन सकते थे । अक्सर जो लोग मेरे साथ काम करने के लिए आते हैं, वे ऐसे ही बन जाते हैं ।<sup>१</sup>

...

महादेव गुलाब का फूल है ।<sup>२</sup>

वह मेरे बाँसवेल (जीवनी लिखनेवाले) बनना चाहते थे, फिर भी मुझसे पहले मरना चाहते थे । इससे बेहतर वह क्या कर सकते थे? सो वह तो चले गये और मुझे उनकी जीवनी लिखने के लिए छोड़ गये । बच्चे अपने मा-बाप के पहले मरना चाहे तो इससे बढ़कर बेरहमी और क्या हो सकती है? यह उनका निरा स्वार्थ है । भले ही मैं दूसरों को इस बात का यकीन न दिला सकूँ, लेकिन यह मैं जरूर महसूस करता हूँ कि मौत कभी वक्त से पहले नहीं आती । दुनिया में अपना काम खत्म करने से पहले कोई मर्द या औरत कभी नहीं मरता । महादेव ने पचास साल में सौ बरस का काम पूरा कर डाला था । सो वह आराम करने चले गये, जिसपर उनका पूरा हक था ।<sup>३</sup>

...

...

...

महादेव के मित्र और प्रशसक उनके प्रिय काम करके ही उनकी बरसी मना सकते हैं । वह बड़े शक्तिशाली पुरुष थे । वह सुदर

<sup>१</sup> हरिजन सेवक १८-८-४६    <sup>२</sup> हरिजन सेवक, १८-८-४६

<sup>३</sup> हरिजन सेवक १८-८-४६

और सुडौल अक्षर लिखते थे। वह कई चीजों से प्यार करते थे। लेकिन उन सबमें चर्खे की जगह पहली थी। एक कलाकार होने के नाते वह नियम से बहुत बढ़िया करताई करते थे। कामकाज के भारी बोझ से थककर चूर हो जाने पर भी वह हमेशा कातने का वक्त निकाल लेते थे। चर्खा उन्हें फिर तरोताजा बना देता था।

उनकी कई खूबियों में उनके बेजोड़ अक्षर भी कोई कम महत्व नहीं रखते थे। उसमें कोई उनका सानी न था। रामदास स्वामी ने अपने एक दोहे में खूबसूरत अक्षरों की चमकीले मोतियों से तुलना की है। महादेव की कलम से निकले हुए अक्षर खरे मोती जैसे होते थे।

उनकी तीसरी खूबी थी, हिंदुस्तान की भाषाओं से उनका प्रेम। वह भाषा-शास्त्री थे। बगाली, मराठी और हिंदी पर उनका पूरा अधिकार था और वह उर्दू भी सीख चुके थे।<sup>१</sup>

: १५ :

## सरोजिनी नायडू

सरोजिनी देवी आगामी वर्ष के लिए महासभा<sup>२</sup> की सभानेत्री निर्वाचित हो गई। यह सम्मान उनको पिछले वर्ष ही दिया जानेवाला था। बड़ी योग्यता द्वारा उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। उनकी असीम शक्ति के लिए और पूर्व और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में की गई महान सेवा के लिए वह इस सम्मान की पात्र है और आजकल के दिनों में जबकि स्त्री-जाति के अदर भारी जागृति हो रही है, स्वागत-कारिणी-समिति का भारतवर्ष की एक सर्वोत्तम प्रतिभाशालिनी पुत्री को सभापति चुनना भारतवर्ष की स्त्री-जाति का समृच्छित सम्मान करना है। उनके सभापति चुने जाने से हमारे प्रवासी देश-भाइयों

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, ८-९-४६

<sup>२</sup> काग्रेस

को पूर्ण संतोष होगा और इससे उनके अदर वह साहस पैदा होगा, जिससे वे अपने सामने उपस्थित लडाई को लड़ सकेंगे। राष्ट्र द्वारा दिये जाने वाले सबसे ऊचे पद पर उनका होना स्वतंत्रता को हमारे अधिक समीप लावे।<sup>१</sup>

अमेरिका के लिए श्री सरोजिनीदेवी ने गत १२ ता० को हिंदुस्तान का किनारा छोड़ा। यूरोप, अमेरिका, इत्यादि मुल्को में अपनी स्थायी सभाएँ स्थापित करके या समय-समय पर अपने प्रतिनिधि भेजकर हमारे बारे में जो ज़ंठी मान्यताएँ प्रचलित हो गई हैं, उन्हे दूर करने की आशा अनेक आदमी रखते हैं। मुझे यह आशा हमेशा ही गलत जान पड़ी है। ऐसा करने से हम सार्व-जनिक धन का और जिनका और अच्छा उपयोग हो सकता है, उन लोगों के समय का दुरुपयोग करेंगे। कितु पश्चिम में अगर किसीका जाना फल सकता है तो सरोजिनीदेवी का या कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जाना अवश्य फल सकता है। सरोजिनीदेवी का नाम उनके काव्यों से पश्चिम में प्रसिद्ध है। उनमें चतुराई भी वैसी ही है। उन्हे यह भली-भाति मालूम है कि कहां, क्या और कितना कहना चाहिए। किसीको दुख पहुचाये बिना खरी-खरी सुना देने की कला उन्होंने साधी है। जहा कही वह जाती है, उनकी बात सुने बिना लोगों का काम चलता ही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में अपनी शक्ति का सपूर्ण उपयोग करके उन्होंने वहा के अंग्रेजों का मन हरण किया था और सुदर विजय प्राप्त करके सर हबीबुल्ला-प्रतिनिधि-मडल का रास्ता साफ किया था। वहां का काम कठिन था, कितु वहापर उन्होंने अपनी मर्यादा निश्चित करके कानून के जाल-पंचों में न पड़ते हुए, मुख्य बात में लगे रह-कर अपना काम भली-भाति किया था और हिंदुस्तान का नाम चमकाया था। ऐसा ही काम वे अमेरिका आदि देशों में भी करेंगी।

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, ८-१०-२५

अमेरिका मे उनकी हाजिरी ही मिस मेयो के असत्य का जवाब हो जायगी। उनका साहस भी उनकी दूसरी शक्तियों के ही समान है। परदेश जाने मे न तो उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता रहती है और न किसी मत्री की ही। जहा कही जाना हो वह अकेले निर्भयता से विचर सकती है। उनकी ऐसी निर्भयता स्त्रियों के लिए तो अनुकरणीय है ही, पुरुषों को भी लजानेवाली है। हम अवश्य यह आशा रख सकते हैं कि उनकी पश्चिम की यात्रा मे से अच्छा फल निकलेगा।<sup>१</sup>

अमेरिका से कई-एक मित्रों के पत्र बराबर मेरे पास आते रहते हैं, जिनमे सरोजिनीदेवी के काम की प्रशंसा रहती है। मित्र इलिखते हैं कि सरोजिनीदेवी अमेरिका मे बड़े महत्व का काम कर रही है और अपनी सारी ईश्वरदत्त प्रतिभा का इस देश के लिए पूरा-पूरा उपयोग कर रही है। इसमे शका नहीं कि उन्होने अमेरिकावासियों का मन मोह लिया है। कनाडा की एक बहन ने एक लवे पत्र मे अपने कुछ अनुभव लिखकर भेजे हैं, उसमे थोड़ी सी बाते नीचे देता हूँ

“सरोजिनी देवी थोड़े समय के लिए मेरी मेहमान बनी थी। आपके उन मित्र और दूत से मिलकर मैंने अपने-आपको बड़भागी पाया है। मैं खुद एक स्त्री हूँ, वह भी स्त्री ही है। साथ ही वह तो कवि और सुधारक है, इसीलिए उन्होने मेरा हृदय और भी चुरा लिया है। उनकी आत्मा का मुझपर बहुत ज्यादा असर हुआ है और इतने दिन के बाद भी उनके मिलाप की बात हमारे हृदय मे जैसी-की-तैसी बनी हुई है। जिस गिरजाघर मे सरोजिनीदेवी ने व्याख्यान दिया था वह तो श्रोताओं से खचाखच भर गया था। उनके ज्ञान की, उनके अनुभवों की, उनकी काव्य-शक्ति की, उनके मधुर कोकिल कंठ की, उनके विनोद की—और अग्रेजी भाषा पर उनके प्रभुत्व की मैं

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २०-१-२८

आपसे क्या बात कहूँ ? जैसे-जैसे उनकी वाणी का प्रवाह बढ़ता गया, वैसे-वैसे लोग मारे आश्चर्य के चकित होते गये और आखिर-कार उनके गुणों पर पूरे-पूरे मुग्ध हो गये । उन्होंने हमारे सामने जितनी भी समस्याएं रखी, हममें से कोई भी उनका उत्तर न दे सका । मेरे पास एक व्यवहार-कुशल व्यापारी बैठे हुए थे, उन्होंने समाधिवत् होकर उनका सारा व्याख्यान सुना । जो प्रश्न पूछे गये सरोजिनीदेवी ने उनके ठीक-ठीक उत्तर दिये और बीच-बीच में जिस ढंग से उन्होंने विनोद का सहारा लिया उसे देखकर तो पूर्वोक्त व्यापारी महाशय से बोले बिना न रहा गया । उन्होंने कहा, ‘ऐसी शक्ति तो मैंने किसी भी दूसरी स्त्री में नहीं देखी । अगर सच कहूँ, मेरी राय में कोई भी पुरुष इनके मुकाबले में खड़ा, नहीं रह सकता ।’ वर्तमान भारत के विषय में उन्होंने जो कुछ कहा, वह बहुत ज्यादा असर करनेवाला था । उन्होंने हमारी न्याय-प्रियता को जागृत किया, हमारे हृदयों को पानी-पानी कर दिया और हमें उसी समय यह अनुभव होने लगा कि आपके वहा भी उसी तरह का राज्यतत्र होना चाहिए, जैसा हमारे यहाँ है । सरोजिनीदेवी की रचना में, मालूम होता है, ईश्वर ने कई रग पूरे हैं । उनसे भोजन के समय मिलिये या सम्मेलनों में मिलिये, सामान्य वातालाप के लिए मिलिये अथवा और किसी काम के लिए, हर हालत में उनकी प्रतिभा बिखरी पड़ती थी । उनके उत्साह का तो पार ही नहीं है । कई निमत्रणों को स्वीकार कर चुकी हैं, एक ही दिन में कई जगह जाती है, लेकिन मालूम नहीं होता कि थकी हुई है । ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके पास शक्ति का कोई अटूट भडार है । लोकप्रियता से वह फूल नहीं उठती । यहा की सब अच्छी चीजे उन्हे पसद हैं । वह बच्चों को प्यार करती है, सुंदर फूल उनका मन चुरा लेते हैं, हमारे वृक्ष, हमारे सरोवर और हमारी नदिया उन्हे आनंद प्रदान करती हैं, फिर भी वह भविष्य को नहीं भूलती । यानी, स्त्री-जाति में जो कमज़ोरिया रहती है और प्रशस्ता के कारण जिस तरह बहुधा स्त्रिया अपना आपा भूल

जाती है, उस तरह का भय मुझे सरोजिनीदेवी के बारे में नहीं है।”

मैं नहीं समझता कि इन बहन ने जिन शब्दों में सरोजिनीदेवी की शक्ति का वर्णन किया है उनमें कोई बात बढ़ाकर लिखी गई है। सरोजिनीदेवी में वस्तुस्थिति को पल भर में समझ लेने की अपूर्व शक्ति है। वह अपनी मर्यादा को समझती है। अर्थशास्त्रियों और राजनैतिक नेताओं की बारीकी में वह कभी नहीं उत्तरती। इस तरह के ज्ञान का न तो वह कभी दावा करती है और न आडबर ही। साधारण आदमी के पास जितना ज्ञान होता है, उतने ही ज्ञान की पूजी से वह अपना काम इतनी चतुराई से कर लेती है कि सामनैवाला आदमी उन्हें कभी उलझन में डाल ही नहीं सकता। उलटे जो कुछ उनसे ग्रहण करता है उसीमें इतना सतोष अनुभव करता है, मानो उसे सबकुछ मिल गया हो।<sup>१</sup>

: १६ : .

## मोतीलाल नेहरू

महासभा का सभापतित्व अब फूलों का कोमल ताज नहीं रह गया है। फूल के दल तो दिनों-दिन गिरते जाते हैं और काटे उधड़ते जाते हैं। अब इस काटों के ताज को कौन धारण करेगा? बाप या बेटा? सैकड़ों लड़ाइयों के लड़ाका पडित मोतीलाल नेहरू इस काटों के ताज को पहनेगे या सयम-नियम के पक्के जवान सिपाही पडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होने अपनी योग्यता और महत्ता से देश के युवकों के हृदयों पर अधिकार कर लिया है? श्रीयुत वल्लभभाई पटेल का नाम स्वभावत ही सबकी जबान पर है। पडितजी एक व्यक्तिगत पत्र में लिखते हैं कि इस समय तो वल्लभभाई पटेल को ही, उनकी वीरता के लिए, सभापति चुनना चाहिए और सरकार को यह दिखला देना चाहिए कि उन

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २१-२-२९

पर सारे राष्ट्र का विश्वास है। खैर, मगर अभी तो श्री बल्लभभाईं का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। इस समय उनके पास काम भी इतना पड़ा हुआ है कि वह बारडोली छोड़कर दूसरी ओर ध्यान ही नहीं दें सकते। और फिर दिसबर आने से पहले ही सभव है कि वह सरकार के अनेक बदीगृहों में से किसी एक में उसके अतिथि बनकर पहुंच जाय। मेरा अपना विचार तो यह है कि यह काटो का ताज पडित जवाहरलाल नेहरू को ही मिलना चाहिए। भविष्य तो देश के युवकों के ही हाथ में होना चाहिए। मगर बगाल तो अगले साल, जबकि बहुत-से तूफानों का भय है, पडित मोतीलाल के ही हाथों महासभा की पतवार देना चाहता है। हम लोगों में आपस में फूट है और चारों ओर से हमें एक ऐसा शत्रु घेरे हुए हैं जो जितना शक्तिशाली है, उतना ही नीति-अनीति से लापरवाह भी। बगाल को इस समय किसी बड़े-बड़े की विशेष आवश्यकता है और वह भी ऐसे आदमी की, जिसने उसके गाढ़े अवसर पर, उसे संभाल्य हो। अगर सारे हिंदुस्तान के लिए आगे सुख का समय नहीं आने वाला है तो बगाल के लिए तो और भी नहीं। इसके तो हजारों कारण हैं कि पडित मोतीलालजी को ही क्यों यह काटो का ताज धारण करना चाहिए। वह वीर है, उदार है, उनपर सभी दलों का विश्वास है, मुसलमान उन्हे अपना मित्र मानते हैं, उनके विरोधी भी उनका आदर करते हैं और अपनी जोरदार दलीलों से वह उन्हे प्राय ही अपनी राय से सहमत कर लेते हैं और फिर इसके अलावा उनके स्वभाव में सधि और समझौते की भावना की ऐसी पुट भरी हुई है, जिससे वह किसी ऐसे राष्ट्र के अत्यत योग्य दूत होने लायक है, जिसे सम्मानित समझौते की आवश्यकता है और जो उसे करने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों पर विचार करके, अत्यत साहसी बगाली देशभक्त पडित मोतीलाल नेहरू को ही अगले वर्ष के लिए राष्ट्र का कर्णधार बनाना चाहते हैं।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २६-७-२८

मैं श्री मोतीलाल नेहरू इत्यादि की याद आपको दिला दूगा, जिन्होने अपनी कानूनी लियाकत बिल्कुल मुफ्त बाटी और अपने देश की बड़ी अच्छी तथा विश्वस्त सेवा की। आप मुझे शायद ताना देंगे कि वे लोग इस कारण ऐसा कर सके थे कि वे अपने व्यवसाय में बड़ी लंबी फीस लेते थे। मैं इस तर्क को इस कारण नहीं मान सकता कि मनमोहन घोष के सिवा मेरा और सबसे परिचय रहा है। अधिक रूपया होने की वजह से इन लोगों ने भारत को आवश्यकता पड़ने पर अपनी योग्यता उदारतापूर्वक दी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसका उनकी आराम तथा विलास से रहने की योग्यता से कोई सबध नहीं है। मैंने उनको बड़े सतोष से दीनता-पूर्वक जीवन-निर्वाह करते देखा है।<sup>१</sup>

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

स्वर्गीय मोतीलालजी के चित्र के उद्घाटन का जो सम्मान तुम लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारे पास उनकी छवि रहे और उनके पवित्र भावों को तुम सदा अपने हृदय में अकित रखो, यह उचित ही है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जैसा सबध दो सगे-सहोदर भाइयों के बीच होता है, वैसा ही प्रगाढ़ प्रेम-सबध मोतीलालजी के और मेरे बीच था। मोतीलालजी की देश-सेवा, मोतीलालजी का त्याग, मोतीलालजी का अपने पुत्र-पुत्रियों के प्रति अनुपम प्रेम, इन सब बातों का परिचय जैसा मुझे था, लगभग वैसा ही तुम्हे भी होना चाहिए। जब से मुझे मोतीलालजी का प्रथम परिचय प्राप्त हुआ, तब से उनके जीवन के अंतिम समय तक उनके निकट सर्सरी में रहने का सद्भाग्य ईश्वर ने मुझे दिया था। मैंने देखा कि वह प्रतिक्षण स्वदेशाहित का ही चितन करते थे। उनके लिए स्वराज्य स्वप्न नहीं, बल्कि प्राण था। स्वराज्य की उन्हें सदा तृष्णा-पिपासा

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, १२-११-३१

रही और वह दिन-दिन बढ़ती ही गई। ऐसे आदर्श देशभक्त का चित्र अपने सम्मुख रखना उचित ही है।

पड़ित मोतीलालजी के सदूगुणों में एक गुण यह भी था कि वह अस्पृश्यता नहीं मानते थे। वह मानो एक राजपुरुष थे। उन्होंने तो बहुद रूपया कमाया, उसे सत्कारों में, स्वराज्य के कार्यों में लुटाया। मुझे उनके ऐसे दृष्टात मालूम है कि उनके हृदय में ऊच-नीच का भाव था ही नहीं।<sup>१</sup>

उस जमाने में हमने विदेशी कपड़े के पहाड़ चिन-चिनकर जला दिये थे और कोई यह नहीं कहता था कि इससे राष्ट्र की निधि बरबाद हो रही है। श्रीमती नायडू ने अपनी पेरिस की साड़ी जर्ली दी थी और स्व० मोतीलालजी ने भी अपने विलायती कपड़ों में दियासलाई लगा दी थी। उनके पास तो आलमारी-की-आल-मारिया विदेशी कपड़े थे। इसके बाद जब वह जेल गये तब उन्होंने मेरे पास एक खत भेजा था—आज वह खत मैं खोज नहीं सकता—पर उसमे था कि मैं सच्चा जीवन अब ही जी रहा हूँ, आनंद भवन में मेरे पास जो समृद्धि थी उससे मुझे यह सुख नहीं मिलता था। वहा उन्हें सिंगार, शराब, गोश्त कुछ नहीं मिलता था। पूरा भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उसमे उन्हें सुख मालूम हुआ। यह सही है कि उनकी यह चीज हमेशा नहीं चली।<sup>२</sup>

मेरी हालत विधवा-स्त्री से भी बुरी है। एक विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद वफादारी से जीवन बिताकर अपने पति के अच्छे कामों का फल पा सकती है। मैं कुछ भी नहीं पा सकता। मोतीलालजी की मृत्यु से मैंने जो खोया है, वह मेरा सदा के लिए नुकसान है।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २९-१२-३३

<sup>२</sup> प्रार्थना-प्रवचन, २०-६-४७

<sup>३</sup> 'कोई शिकायत नहीं', पृष्ठ ७३

... मोतीलालजी की मृत्यु हरेक देश-भक्त के लिए ईर्ष्या-स्पद होनी चाहिए, क्योंकि अपना सबकुछ न्यौछावर करके वह मरे हैं और अत समय तक देश का ही ध्यान करते रहे हैं। इस बीर की मृत्यु से हमारे अदर भी बलिदान की भावना आनी चाहिए।<sup>१</sup>

: १७ :

## वल्लभभाई पटेल

सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ रहना मेरा बड़ा सौभाग्य था। उनकी अनुपम वीरता से मैं अच्छी तरह परिचित था, परन्तु पिछले १६ महीने मेरे जिस प्रकार रहा, वैसा सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला था। जिस प्रकार उन्होने मुझे स्नेह से ढक लिया, वह मुझे मेरी मा की याद दिलाता है। मैं यह कभी नहीं जानता था कि उनमेरा मा के गुण भी हैं।... बारदोली और खेड़ा के किसानों के लिए उनकी चिंता मैं कभी नहीं भूल सकता।<sup>२</sup>

... . . .

सरदार वल्लभभाई हँसी मेरे कहा करते थे कि उनके हाथ की रेखाओं मेरे जेल की रेखा नहीं है। उन लोगों के लिए जेल है ही नहीं, जिनके मन मेरे जेल महल के समान है और जो जेल और महल मेरे कोई भेद नहीं समझते। जहां आज सरदार विराजे हैं, वहां हम सबको जाना है, पर बिना योग्यता प्राप्त किये जेल नहीं मिलती। सरदार वल्लभभाई की अमूल्य सेवाओं के हम पात्र थे या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अवसर अब आ गया है। उन्हें गुजरात से आशा क्यों न हो? उन्होने मजदूरों की सेवा मेरे कौन कमी रखी है?

<sup>१</sup> ७ फरवरी को दिया गया सदेश

<sup>२</sup> 'महादेवभाई की डायरी'

डाकवालों और रेलवे के नौकरों ने उनके पास बैठकर स्वराज्य का पाठ कौन कम पढ़ा है ? अहमदाबाद का ऐसा कौन नागरिक है जो नहीं जानता कि उन्होंने अपना सर्वस्व होम कर शहर की सेवा की है ? शहर में जब भीषण महामारी फैली थी, उन दिनों गरीबों की सेवा का इतजाम करनेवाला कौन था ? वल्लभभाईं। अकाल पड़ने पर अकाल-पीडितों की मदद के लिए दौड़ पड़नेवाला कौन था ? वल्लभभाईं। गुजरात में ऐतिहासिक बाढ़ आई, लाखों लोग घरबार-विहीन बन गये, खेतों की फसल बह गई। उस समय सारे गुजरात का सकट टालने के लिए सैकड़ों स्वयंसेवकों को तैयार करनेवाला, लोगों के लिए एक करोड़ रुपये सरकार के खजाने से निकलवानेवाला कौन था ? वल्लभभाईं ही। और वह भी वल्लभभाईं ही थे, जिन्हें बारदोली की जीत के लिए ऋणी जनता ने सरदार कहकर पुकारा और जो संपूर्ण स्वराज्य की आखिरी लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। वल्लभभाईं तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल पहुंच गये। अब हमें क्या करना चाहिए ? इस सवाल का एक जवाब तो साफ ही है। हम हिम्मत न हारें, उलटे हमसे से हरएक डुगुनी दृढ़ता और डुगुनी हिम्मत के साथ सविनय-भग के लिए तैयार हो जाय और जेल की, या मौत मिले तो मौत की, राह पकड़ ले। सरदार के जाने के बाद अब रहनुमा कौन होगा ? इस तरह का नामदीर्घ से भरा हुआ सवाल कोई अपने मन मे न उठने दे। । । । जिसे सविनय-भग करना है, उसके पास आज बहुतेरे साधन पड़े हुए हैं और सरकार नये-नये साधन पैदा कर रही है। जैसे हमारे लिए यह जीवन-मरण का खेल है, वैसे ही सरकार के लिए भी है। मालूम होता है कि उसकी हस्ती का आधार ही स्वतत्र स्वभाव के मनुष्यों को दबाने पर है, नहीं तो वह वल्लभभाईं के समान शाति, रक्षा के लिए प्रसिद्ध आदमी को क्यों पकड़ती ? ।

सरदार के लिए सब समान है, एक नन्हा बालक भी इसे जानता है। उन्हे तो गरीब-मात्र की सेवा करनी है। फिर भले ही वह भगी हो या ब्राह्मण, गुजराती हो या मद्रासी, राष्ट्र ने उनकी इस विशेषता को पहचाना और पहचानकर राष्ट्रपति बनाया।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

सरदार मेरे सर्गे भाई के समान है, तथापि इतना प्रमाण पत्र देते हुए मुझे जरा भी सकोच नहीं होता।<sup>२</sup>

...                    ...                    ...

बल्लभभाई अरबी घोड़े की तेजी से दौड़ रहे हैं। सस्कृत की किताब हाथ से छूटती ही नहीं। इसकी मुझे आशा नहीं थी। लिफाफो मेरे तो कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लिफाफे वह नापे बिना बनाते हैं और अदाज से काटते हैं, मगर बराबर के निकलते हैं और फिर भी ऐसा नहीं लगता कि इसमे बहुत समय लगता है। उनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो कुछ करना हो उसे याद रखने के लिए छोड़ते ही नहीं। जैसे आया वैसे ही कर डाला। कातना जब से शुरू किया है, तब से बराबर समय पर कातते हैं। इस तरह सूत मेरे रोज सुधार होता जा रहा है। हाथ मेरे लिया हुआ भूल जाने की बात तो शायद ही होती है। और जहा इतनी व्यवस्था हो, वहा धाधली तो हो ही कैसे?<sup>३</sup>

...                    ...                    ...

कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की थी कि सरदार का रुख मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कुछ दुख से उनकी बात सुनी, मगर कोई सफाई पेशा न की। उपवास शुरू होने के बाद मैंने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैंने टीकाकारों को कहा कि सरदार को मुझसे और पडित नेहरू से

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, १४-५-३१

<sup>२</sup> 'विजयी बारदोली'

<sup>३</sup> महादेवभाई की डायरी, २८-८-३२

अलग करके और मुझे और पडित नेहरू को खामख्वाह आसमान पर चढ़ाकर वे गलती करते हैं।

इससे उनको फायदा नहीं पहुच सकता। सरदार के बात करने के ढग में एक तरह का अक्खडपन है, जिससे कभी-कभी लोगों का दिल दुख जाता है, अगरचे सरदार का इरादा किसीको दुखी बनाने का नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है। उसमें सबके लिए जगह है। सो मैंने जो कहा, उसका मतलब यह था कि अपने जीवन भर के बफादार साथी को एक बेजा इलजाम से बरी कर दू। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कही यह न समझ बैठे कि मैं सरदार को अपना 'जी हुजूर' मानता हू। सरदार को प्रेम से मेरा 'जी हुजूर' कहा जाता था। इसलिए मैंने सरदार की तारीफ करते समय कह दिया कि वह इतने शक्तिशाली और मन के मजबूत है कि वह किसीके 'जी हुजूर' हो ही नहीं सकते। जब वह मेरे 'जी हुजूर' कहलाते थे तब वह ऐसा कहने देते थे, क्योंकि जो कुछ मैं कहता था वह अपने-आप उनके गले उत्तर जाता था। वे अपने क्षेत्र में बहुत बड़े थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने शासन चलाने में बहुत काबिलियत बताई थी। मगर वह इतने नम्र थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होंने उसका कारण मुझे बताया था कि जब मैं हिंदुस्तान में आया था उन दिनों जिस तरह का राज-काज हिंदुस्तान में चलता था, उसमें हिस्सा लेने का उन्हें मन नहीं होता था। मगर अब जब सत्ता उनके गले आ पड़ी तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसा को वह आजतक सफलतापूर्वक चला सके अब वह नहीं चला सकते। मैंने कहा है कि मैं समझ गया हू कि जिस चीज को मैं और मेरे साथी अहिंसा कहा करते थे वह सच्ची अहिंसा न थी। वह तो नकली चीज थी और उसका नाम है निष्क्रिय प्रतिरोध। हा, किनके हाथों मे निष्क्रिय प्रतिरोध किसी काम की चीज है? जरा सोचिये तो सही कि एक कमजोर आदमी जनता का प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकों की हँसी और बेइज्जती ही करवा सकता है। मैं जानता

हूँ कि सरदार कभी उन्हे सौपी हुई जिम्मेदारी को दगा नहीं दे सकते। वे उसका पतन बर्दाश्त नहीं कर सकते।<sup>१</sup>

: १८ :

### जमनालाल बजाज

सेठ जमनालाल बजाज को छीनकर काल ने हमारे बीच से एक शक्तिशाली व्यक्ति को छीन लिया है। जब-जब मैंने धनवानों के लिए यह लिखा कि वे लोककल्याण की दृष्टि से अपने धन के ट्रस्टी बन जाय तब-तब मेरे सामने सदा ही इस वणिक शिरोमणि का उदाहरण मुख्य रहा। अगर वह अपनी सपत्ति के आदर्श ट्रस्टी नहीं बन पाये तो इसमें दोष उनका नहीं था। मैंने जानबूझकर उनको रोका। मैं नहीं चाहता था कि वे उत्साह में आकर ऐसा कोई काम कर ले, जिसके लिए बाद में शात मन से सोचने पर उन्हें पछताना पड़े। उनकी सादगी तो उनकी अपनी ही चीज़ थी। अपने लिए उन्होंने जितने भी घर बनाये, वे उनके घर नहीं रहे, धर्म-शाला बन गये। सत्याग्रही के नाते उनका दान सर्वोत्तम रहा। राजनीतिक प्रश्नों की चर्चा में वह अपनी राय दृढ़तापूर्वक व्यक्त करते थे। उनके निर्णय पूर्के हुआ करते थे। त्याग की दृष्टि से उनका अतिम कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा। वह किसी ऐसे रचनात्मक काम में लग जाना चाहते थे, जिसमें वह अपनी पूरी योग्यता के साथ अपने जीवन का शेष भाग तन्मय होकर बिता सके। देश के पश्च-धन की रक्षा का काम उन्होंने अपने लिए चुना था और गाय का उसका प्रतीक माना था। इस काम में वह इतनी एकाग्रता और लगन के साथ जुट गये थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। उनकी उदारता में जारी, धर्म या वर्ण की सकुचितता को कोई स्थान न था। वह एक ऐसी साधना में लगे हुए थे, जो कामकाजी आदमी के

लिए विरल है। विचार-समयम उनकी एक बड़ी साधना थी। वह सदा ही अपनेको तस्कर विचारों से बचाने की कोशिश में रहते थे। उनके अवसान से वसुधरा का एक रत्न कम हो गया है। उनको खोकर देश ने अपना एक वीर-से-वीर सेवक खोया है। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया था, उसे अब उनकी विधवा जानकीदेवी ने स्वय करने का निश्चय किया है। उन्होंने अपनी समस्त निजी सपत्ति को, जो करीब ढाई लाख के आस-पास है, कृष्णार्पण कर दिया है। ईश्वर उन्हे अपने इस अगीकृत कार्य में सफल होने की शक्ति दे।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

मेरे साथ जमनालालजी का सबध करीब-करीब तभी से-शुरू हुआ जब से मैंने हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने मेरे सभी कामों को पूरी तरह अपना लिया था, यहातक कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ज्योही मैं किसी नये काम को शुरू करता वह उसका बोझ खुद उठा लेते थे। इस तरह मुझे निश्चित कर देना मानो उनका जीवन-कार्य ही बन गया था।<sup>२</sup>

११ फरवरी को जब मैं जमनालालजी के द्वार पर पहुचा तो उनका देहात हो चुका था। मेरे पास वर्धा से सदेश तो सिर्फ यही आया था कि खून का दौरा कम करने की दवा भेजे। मैं दवा भेज-कर अपने दिल की तसल्ली कर सकता था। लेकिन उस दिन मैंने महसूस किया कि नहीं, मुझे खुद ही जाना चाहिए। जब वहा पहुचा तो मामला कुछ और ही पाया।

जमनालालजी तो बड़भागी थे। उनकी तरह हम भी अपने को बड़भागी साबित कर सकते हैं, बशर्ते कि जो चीज उनके रहते हमें साफ नहीं दिखाई दी वह उनके बाद हमें साफ दिखाई देने लगे, जो जाग्रति हममे उनके जीवित रहते नहीं आई वह अब

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, १५-२-४२

सब में आ जाय ।

उनका सबसे बड़ा काम गोसेवा का था । वैसे तो यह काम पहले भी चलता था, लेकिन धीमी चाल से । इसमें उन्हें सतोष न था । उन्होंने इसे तीव्र गति से चलाना चाहा और इतनी तीव्रता से चलाया कि खुद ही चल बसे ।

...                    ...                    ...

खादी के काम में उनकी दिलचस्पी मुझसे कम न थी । खादी के लिए जितना समय मैंने दिया उतना ही उन्होंने भी दिया । उन्होंने इस काम के पीछे मुझसे कम बुद्धि खर्च नहीं की थी । इस-लिए कार्यकर्ता भी वह ही ढूढ़-ढूढ़कर मेरे पास लाया करते थे । थोड़े मेरे यह कह लीजिय कि अगर मैंने खादी का मत्र दिया तो जमनालालजी ने उसको मूर्त रूप दिया । खादी का काम कुछ होने के बाद मैं तो जेल मेरा जैविठा, मगर वह जानते थे कि मेरे नजदीक खादी ही मेरे स्वराज्य है । अगर उन्होंने तुरत ही उसमे रत होकर उसे सगठित रूप न दिया होता तो मेरी गैरहाजिरी मेरा सारा काम तीन-तेरह हो जाता ।

यही बात ग्रामोद्योग की थी । उन्होंने इसके लिए मगनवाड़ी दी ही थी, साथ ही उसके सामने की कुछ जमीन भी वह मगनवाड़ी के लिए खरीदने का सकल्प कर चुके थे । अब चिं० कमलनयन<sup>१</sup> ने वह जमीन भी मगनवाड़ी को दे दी है । ग्रामोद्योग का काम इतना व्यापक है कि इसमे अटूट रूपया खर्च किया जा सकता है । . . .

...                    ...                    ...

एक बात और जमनालालजी कई बार कहा करते थे कि लोग और सब जगह तो खादी पहनकर चले जाते हैं, लेकिन बैंक मे नहीं जाते । अगर बैंक में वह अपनी मारवाड़ी पगड़ी पहनकर न जाय तो उनके खयाल में इसमें उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है । मगर खुद जमनालालजी ने कभी इसकी कोई चर्चा नहीं की ।

•

<sup>१</sup> जमनालालजी के ज्येष्ठ पुत्र

फिर उसका नतीजा कुछ भी क्यों न हुआ हो ! अत मैं यह चाहता हूँ कि हममे इतनी स्वतत्रता और इतना आत्म-गौरव पैदा हो जाना चाहिए कि हम अपनी खादी की पोशाक मे हर जगह बिना झिल्क के जा सके ।

अबतक इस देश की आजादी को खोने मे व्यापारी-समाज की खास जिम्मेदारी रही है । जमनालालजी को यह चीज बराबर खटका करती थी ।

जमनालालजी के दूसरे काम आखो के सामने ही है । महिला-आश्रम को ही लीजिये । यह उनकी अपनी एक विशेष कृति है । उन्हींकी कल्पना के अनुसार यह अबतक काम करता रहा है । जमनालालजी के सामने सवाल यह था कि जो लोग देश के काम मे जुटकर भिखारी बन जाते हैं, उनके बाल-बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध हो ? उन्होने कहा कि कम-से-कम उनकी लड़कियों को सरकारी मदरसों के मुकाबले मे अच्छी ही तालीम मिल सकेगी । बस, इसी खयाल से महिला-आश्रम की स्थापना हुई । आज इस आश्रम के लिए एक त्यागी और सुशिक्षित महिला की आवश्यकता है । आप इस आवश्यकता की पूर्ति मे सहायक हो सकते हैं । बुनियादी तालीम और हरिजन-सेवक-संघ के काम का भी यही हाल है । आप इनमे शारीक हो सकते हैं । हिंदू-मुस्लिम-एकता के लिए उनके दिल मे खास लग्न थी । उनके अदर सांप्रदायिक द्वेष की बूतक न थी । आप उनके जीवन से इस गुण को ग्रहण कर सकते हैं ।

जमनालालजी का स्मृति-स्तभ खड़ा करके हम उनकी याद को चिरस्थायी नहीं बना सकते । स्तभ पर खुदे हुए शिला-लेख को तो लोग पढ़कर थोड़े ही समय मे भल जायगे, परतु जिस आदमी ने दुनिया के लिए इतना कुछ किया है उसके काम को चिरस्थायी रखने का सकल्प कोई कर ले तो वह उनका सच्चा स्मारक हो रहेगा । किन्तु इसके लिए मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता । जिसे जो कुछ भी करना हो आत्मोन्नति के लिए करे । अगर

दिखावे के लिए कुछ भी होगा तो उससे मुझे और जमनालालजी की आत्मा को उल्टा कष्ट ही होगा ।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

जमनालाल का शरीर मर गया, पर असल जमनालाल तो जिदा ही है और आगे के लिए उसे जिदा रखना हमारा काम है ।<sup>२</sup>

: १९ :

## सुभाषचंद्र बोस

नेताजी के जीवन से जो सबसे बड़ी शिक्षा ली जा सकती है वह है उनकी अपने अनुयायियों में ऐक्यभावना की प्रेरणाविधि, जिससे कि वे सब साप्रदायिक तथा प्रातीय बघनों से मुक्त रह सके और एक समान उद्देश्य के लिए अपना रक्त बहा सकें । उनकी अनुपम सफलता उन्हें निस्सदेह इतिहास के पश्चों में अमर रखेगी ।

नेताजी के प्रत्येक अनुगामी ने, जो भारत लौटने पर मुझसे मिले, निर्विवाद रूप से यह कहा कि नेताजी का प्रभाव उनपर जादू-सा हुआ करता था और वे उनके अधीन एकमात्र भारत की आजादी प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते थे । उनके दिलों में साप्रदायिक और प्रातीय या और कोई भी भेदभाव कभी भी अकुरित नहीं हुआ था ।

नेताजी एक महान् गुणवान् पुरुष थे । वह व्युत्पन्नमति और प्रतिभा-सपन्न थे । उन्होंने आई०सी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की, कितु नौकरी नहीं की । भारत लौटने पर वह देशबधास से प्रभावित हुए और कलकत्ता कारपोरेशन के मुख्य एक्जोक्युटिव आफिसर नियुक्त हुए । बाद में वह राष्ट्रीय महासभा के भी दो बार राष्ट्रपति बने, परतु उनकी उल्लेखनीय सफलताओं में, भारत

<sup>१</sup> सेवाग्राम, २८-२-४२

<sup>२</sup> जमनालालजी, पृष्ठ १०

से बाहर के, उस समय के कार्य है, जब वह देश से भागे और काबूल, इटली, जर्मनी और अन्य देशों से होकर अत मे जापान पहुच। विदेशी चाहे कुछ भी कहे, पर मैं विश्वास के साथ यह अवश्य कहूगा कि आज भारत मे एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनके इस प्रकार भागने को अपराध मानता है। 'समरथ को नहीं दोष गुसाई'—सत तुलसीदास के इस कथन के अनुसार नेताजी पर भागने का दोष नहीं लगाया जा सकता। जब सर्वप्रथम उन्होने सेना तैयार की तो उसकी तुच्छ सख्त्या की उन्होने कोई चिंता नहीं की। उनका निश्चय था कि सख्त्या चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, पर भारत को आजाद कराने के लिए उन्हे सामर्थ्य भर यत्न करना ही चाहिए।

नेताजी का सबसे महान् और स्थिर रहनेवाला कार्य था सब प्रकार के जातीय और वर्ग-भेद का उन्मूलन। वह केवल बंगाली ही नहीं थे। उन्होने अपने आपको कभी सर्वां हिंदू नहीं समझा। वह आमलच्छ भारतीय थे। इससे अधिक क्या कि उन्होने अपने अनुगामियों में भी यही आग प्रज्वलित की, जिससे प्रेरित होकर वे उनकी उपस्थिति मे सभी भेदभाव भूल गये थे और एक-सूत्र होकर काम करते थे।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

एक बात और। वह यह कि जो आजाद हिंद फौज सुभाष-बाबू ने बनाई थी और उसके लिए हम सब सुभाषबाबू की होशियारी, बहादुरी की तारीफ करते हैं और तारीफ करने की बात है; क्योंकि जब वह हिंदुस्तान से बाहर था तब उसने सोचा कि चलो, थोड़ा फौजी काम भी कर ल। वह कोई लड़वैया तो था नहीं। एक मामूली हिंदुस्तानी था। जैसै दूसरे वकील, बैरिस्टर रहते हैं वैसे सुभाषबाबू भी थे। फौज की कोई तालीम तो पाई नहीं थी। हाँ, सिविल सर्विस में जैसा आमतौर पर होता है, थोड़ी घुड़सवारी

<sup>१</sup> 'नेताजी, हिंज लाइफ एण्ड वर्क्स'

सीख ली होगी। लेकिन पीछे उन्होंने फौजी-शास्त्र थोड़ा पढ़ लिया होगा। इस प्रकार उनके मातहत जो सेना बनी थी, मैं सुनता हूँ कि उसके दो बड़े अफसर, जिनसे मैं जेल में तथा उसके बाहर भी मिला था, काश्मीर पर हमला करनेवालों से मिले हुए हैं। यह मुझको बहुत चुभता है। ये सुभाषबाबू के मातहत खास काम करनेवाले थे और हमेशा उनके साथ रहा करते थे। सुभाषबाबू लश्कर से कोई बात छिपाकर रख तो सकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनके मारफत काम लेना पड़ता था। वे आज लुटेरो के सरदार होकर आते हैं तो मुझको चुभता है। अगर उनको अखबार मिलते हैं या जो मैं कहता हूँ उसको वे सुन ले तो मैं अपनी यह नाकिस आवाज उनको पहुँचाता हूँ कि आप इसमें क्यों पड़ते हैं और सुभाष-बाबू के नाम को क्यों डुबाते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं कि हिंदू का पक्ष ले या मुसलमान का पक्ष ले? आपको तो जाति-भेद करना नहीं चाहिए। सुभाषबाबू तो ऐसे थे नहीं। उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, हरिजन आदि सब रहते थे। वहा न हरिजन का भेद था, न इतरजन का। वहा तो हिंदु-स्तानियों में जात-पात का कोई भेदभाव था ही नहीं। यो तो सब अपने धर्म पर कायम थे, कोई धर्म तो छोड़ बैठे थे नहीं। लेकिन सुभाषबाबू ने कब्जा कर लिया था, उनके चित्त का हरण कर लिया था, शरीर का हरण नहीं किया था। ऐसा तो चलता नहीं था कि अगर आज्ञाद हिंदू फौज में शामिल नहीं होता है तो काटो। लोगों को इस तरह काटकर वह हिंदुस्तान को रिहाईं दिलाने वाले नहीं थे। इस तरह से बड़े हुए और बड़प्पन पाया। तब आप इतने छोटे क्यों बनते हैं और इस छोटे काम में क्यों पड़ते हैं? अगर कुछ करना ही है तो सारे हिंदुस्तान के लिए करो। वहा जो मुसलमान है, अफरीदी है, उनको कहे कि यह जाहिलपन क्यों करना? लोगों को लूटना और देहातों को जलाना क्या? चलो, महाराजा से मिले, शेख अब्दुल्ला से मिले, उनको चिट्ठी लिखें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहा कोई लूट करने

तो आये नहीं है। आप इस्लाम को दबाते हैं, इसलिए आपको बताने आये हैं। यह तो मैं समझ सकता हूँ। तब तो आप सुभाष-बाबू का नाम उज्ज्वल करेगे और उन अफरीदी लोगों के सच्चे शिक्षक बनेगे। अफरीदी लोग कैसे रहते हैं, उनमें भी लुटेरे हैं या नहीं है, यह मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी निगाह मेरे वे भी इन्सान हैं। उनके दिल मेरी वही ईश्वर या खुदा है, इसलिए वे सब मेरे भाई हैं। अगर मैं उनमें रहूँ तो उनसे कहूँगा कि लूट क्या करना, एक-दूसरे पर गुस्सा क्या करना। मैं यह तो कहता नहीं कि तुम्हारे पास जो बढ़के या तलवारे हैं, उन्हे छोड़ दो। उनको रखो, लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए हैं, मुफलिस हैं, औरते हैं, बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए। उसमें क्या है, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान। तो मैं कहूँगा कि ये जो दो अफसर हैं, जिनका नाम मैंने सुन लिया है, वे सुभाषबाबू का नाम याद करें। वे तो मर गये, लेकिन उनका नाम नहीं मरा, काम तो नहीं मरा।<sup>1</sup>

...                    ...                    ...

आज सुभाषबाबू की जन्म-तिथि है। मैंने कह दिया है कि मैं तो किसीकी जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि याद नहीं रखता। वह आदत मेरी नहीं है। सुभाषबाबू की तिथि की मुझे याद दिलाई गई। उससे मैं राजी हुआ। उसका भी एक खास कारण है। वह हिंसा के पुजारी थे। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। पर इसमें क्या? मेरे पास गुण की ही कीमत है। तुलसीदासजी ने कहा है न,

“जड़-चेतन गुण-दोषमय विश्व कीन्ह करतार।

संत-हंस गुण गहाँ पथ परिहरि बारि विकार ॥”

हस जैसे पानी को छोड़कर दूध ले लेता है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। मनुष्य-मात्र मेरे गुण और दोष दोनों भरे पड़े हैं। हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। दोषों को भूल जाना चाहिए। सुभाषबाबू बड़े देश-प्रेमी थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान

<sup>1</sup> प्रार्थना-प्रवचन, २-११-४७

की बाजी लगा दी थी और वह करके भी बता दिया । वह सेनापति बने । उनकी फौज में हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सब थे । सब बंगाली ही थे, ऐसा भी नहीं था । उनमें न प्रातीयता थी, न रग-भेद, न जाति-भेद । वह सेनापति थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सहूलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं था ।<sup>१</sup>

: २० :

## मदनमोहन मालवीय

जब से १९१५ मे हिंदुस्तान आया तब से मेरा मालवीयजी के साथ बहुत समागम है और मैं उन्हे अच्छी तरह जानता हूँ । मेरा उनके साथ गहरा परिचय रहता है । उन्हे मैं हिंदू-सासार के श्रेष्ठ व्यक्तियों मे मानता हूँ । कट्टर और पुराने ख्यालात के होते हुए भी बड़े उदार विचार रखते हैं । उनका किसीसे ईर्ष्या रखना असभव है । उनकी उदारता ऐसी है कि उसमे उनके दुश्मनों के लिए भी जगह है । कभी उन्हे शासन की चाह न रही और जो शासन आज उनके पास है वह उनकी मातृभूमि की आज तक की लंबी और अखड़ सेवा का फल है । ऐसी सेवा का दावा हमसे से बहुत कम लोग कर सकते हैं । उनकी और मेरी विशेषता अलग-अलग है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को सगे भाई-सा प्यार करते हैं । मेरे और उनके बीच कभी जरा भी बिगाड़ नहीं हुआ । हमारे रास्ते जुदे-जुदे हैं । इसलिए हमारे बीच स्पर्धा और डाह का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता ।<sup>२</sup>

...                    ...                    ...  
• आशावाद और भोलेपन में मैं भेद करता हूँ । पठितजी

<sup>१</sup> प्रार्थना-प्रवचन २३-१-४८,

<sup>२</sup> हिंदी नवजीवन १-६-२४,

मे दोनो है। दृष्टिमर्यादा पर निराशा के चिन्ह होते हुए भी और जानते हुए भी जो आशा रखता है वह आशावादी है। यह गण पडितजी मे काफी मात्रा मे है। आशा की बाते कोई कह दे और उसपर विश्वास लाना वह भोलापन है। यह भी पडितजी मे है। उसे मै त्याज्य समझता हू। पडितजी महान व्यक्ति है, इसलिए उनको ऐसे भोलेपन से हार्नि नही हुई है। हमे ऐसे भोलेपन का अनुकरण कभी नही करना चाहिए। आशावाद अतर्नादि पर निर्भर है, भोलापन बाह्य बातो पर।<sup>१</sup>

\*\*\*

देश के सार्वजनिक जीवन को उनकी बहुत बड़ी देन है। उनका सबसे बड़ा कार्य हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस है। इस विद्यालय के प्रेम से हमे हार्दिक प्रेम है। महामना मालवीयजी ने उसके लिए जब कभी मेरी सेवाए चाही है, मैंने दी है।

मालवीयजी महाराज के साथ मेरा कितना गाढ़ सबध है। अगर उनका कोई काम मुझसे हो सकता है तो मुझे उसका अभिमान रहता है और अगर मैं उसे कर सकू तो अपनेको कृतार्थ समझता हू। यहा आना मेरे लिए तो एक तीर्थ मे आने के समान है।

यह विश्वविद्यालय मालवीयजी महाराज का सबसे बड़ा और प्राण-प्रिय कार्य है। उन्होने हिंदुस्तान की बहुत-बहुत सेवाए की हैं, इससे आज कोई इकार नही कर सकता। लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि उनके महान् कार्यों मे इस कार्य का महत्व सबसे ज्यादा रहेगा। २५ साल पहले, जब इस विश्वविद्यालय की नीव डाली गई थी, तब भी मालवीयजी महाराज के आग्रह और खिचाव से मै यहा आ पहुचा था। उस समय तो मै यह सोच भी न सकता था कि जहा बड़े-बड़े राजा-महाराजा और खुद वाइसराय आने-वाले हैं, वहा मुझ-जैसे फकीर की क्या जरूरत हो सकती है। तब तो मै 'महात्मा' भी नही बना था।

<sup>१</sup> महादेवभाई की डायरी, २७-५-३२

उस समय भी मालवीयजी महाराज की कृपा-दृष्टि मुझपर थी। कही भी कोई सेवक हो, वह उसे ढूढ़ निकालते हैं और किसी-न-किसी तरह अपने पास खीच ही लाते हैं। यह उनका सदा का धधा है।

लोग मालवीयजी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वह सब तरह उसके लायक है। मैं जानता हूँ कि हिंदू विश्वविद्यालय का कितना बड़ा विस्तार है। मसार में मालवीयजी से बढ़कर कोई भिक्षुक नहीं। जो काम उनके सामने आ जाता है, उसके लिए—अपने लिए नहीं—उनकी भिक्षा की झोली का मुह हमेशा खुला रहता है। वह हमेशा मागा ही करते हैं, और परमात्मा की भी उनपर बड़ी दया है कि जहाँ जाते हैं, उन्हें पैसे मिल ही जाते हैं, तिसपर भी उनकी भूख कभी नहीं बङ्गती। उनका भिक्षापात्र सदा खाली रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा की थी। एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ दस लाख रुपया इकट्ठा हो गया, मगर उनका पेट नहीं भरा। अभी-अभी उन्होंने मुझसे कान में कहा है कि आज के हमारे सभापति महाराज साहब दरभगा ने उनको एक खासी बड़ी रकम दान में और दी है।

मैं जानता हूँ कि मालवीयजी महाराज स्वयं किस तरह रहते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन का कोई पहलू मुझसे छिपा नहीं। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी पवित्रता और उनके प्रेम से मैं भली-भाति परिचित हूँ। उनके इन गुणों में से आप जितना कुछ ले सकें, जरूर ले। विद्यार्थियों के लिए तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें सीखने लायक हैं। मगर मुझे डर है कि उन्होंने, जितना सीखना चाहिए, सीखा नहीं है। यह आपका और हमारा दुर्भाग्य है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं। धप मेरहकर भी कोई सूरज का तेज न पा सके तो उसमें सूरज बैचारे का क्या दोष? वह तो अपनी तरफ से सबको गर्मी पहुँचाता रहता है, पर अगर कोई उसे लेना ही न चाहे और ठड़ मेरहकर

ठिठुरता फिरे तो सरज भी उसके लिए क्या करे ? मालवीयजी महाराज के इतने निकट रहकर भी अगर आप उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति, उदारता और विश्वव्यापी प्रेम आदि सद्गुणों का अपने जीवन में अनुकरण न कर सके तो कहिये, आप से बढ़कर अभागा और कौन होगा ? १

... ... ..

‘‘अग्रेजी मे एक कहावत है—‘राजा गया, राजा हमेशा जियो !’ ठीक यही भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा जा सकता है—“मालवीयजी गये, मालवीयजी अमर हो !” मालवीयजी हिंदुस्तान के लिए पैदा हुए और हिंदुस्तान के लिए किये गये अपने कामों में जीते हैं। उनके काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। उनमे सबसे बड़ा हिंदू-विश्वविद्यालय है। गलती से उसे हम बनारस हिंदू युनिवर्सिटी के नाम से पहचानते हैं। उस नाम के लिए दोष मालवीयजी महाराज का नहीं, उनके पैरोकारों का रहा है। मालवीयजी महाराज दासानुदास थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वह करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूलता उनके स्वभाव मे भरी थी, यहातक कि बाज दफा वह दोष का रूप लेलेती थी, लेकिन ‘समरथ को नहि दोष गुसाई’ वाली बात मालवीयजी महाराज के बारे मे भी कही जा सकती है। उनका प्रिय नाम तो हिंदू-विश्व-विद्यालय ही था और यह सुधार तो अब भी करने योग्य है। इस विश्वविद्यालय का हरेक पत्थर शुद्ध हिंदू-धर्म का प्रतिबिब छोना चाहिए। एक भी मकान पश्चिम के जडवाद की निशानी न हो, बल्कि अध्यात्म की निशानी हो। और जैसे मकान हो, वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हो। आज है ? प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्म की जीवित प्रतिमा है ? नहीं है तो, क्यों नहीं है ? इस विश्वविद्यालय की परीक्षा विद्यार्थियों की सख्त्या से नहीं, बल्कि उनके हिंदू-धर्म की प्रतिमा होने से ही हो सकती है, फिर भले वे थोड़े ही क्यों न हों।

मैं जानता हूं कि यह काम कठिन है, लेकिन यही इस विद्यालय की जड़ है। अगर यह ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं है। इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुत्रों का और उनके अनुयायियों का धर्म स्पष्ट है। जगत में हिंदू-धर्म का क्या स्थान है? उसमें आज क्या दोष है? वे कैसे दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराज के भक्तों का कर्तव्य है कि वे इन प्रश्नों को हल करें। मालवीयजी अपनी स्मृति छोड़ गये हैं। उसको स्थायी रूप देना, उसका विकास करना, उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्भ होगा।

विश्वविद्यालय के लिए स्व० मालवीयजी ने काफी द्रव्य इकट्ठा किया था, लेकिन बाकी भी काफी रहा है। इस काम में तो हरेक आदमी हाथ बटा सकता है।

यह तो हुई उनकी बाह्य प्रवृत्ति। उनका आतंरिक जीवन विशुद्ध था। वह दया के भडारथे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा था। भागवत उनकी प्रिय पुस्तक थी। वह सजग कथाकार थे। उनकी स्मरण-शक्ति तेजस्विनी थी। जीवन शुद्ध था, सादा था।

उनकी राजनीति को और दूसरी अनेक प्रवृत्तियों को छोड़ देता हूं। जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा के लिए अर्पित किया था और जो अनेक विभूतिया रखते थे, उनकी प्रवृत्ति की मर्यादा हो नहीं सकती। मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीजें ही देने का सकल्प किया था। जो लोग विश्वविद्यालय को शुद्ध बनाने में मदद देना चाहते हैं, वे मालवीयजी महाराज के अतर्जीवन के मनन और अनुसरण करने की कोशिश करें।<sup>१</sup>

• : २१ :

## श्रीमद् राजचंद्रभाई

… मैं जिनके पवित्र स्मरण लिखना आरभ करता हूं,

<sup>१</sup> हरिजन सेवक, ८-१२-४६

उन स्वर्गीय राजचद्र की आज जन्मतिथि है। कार्तिक पूर्णिमा संवत् १९७९ को उनका जन्म हुआ था।

मेरे जीवन पर श्रीमद्राजचद्र भाई का ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ा है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। उनके विषय में मेरे गहरे विचार हैं। मैं कितने ही वर्षों से भारत में धार्मिक पुरुषों की शोध में हूं, परतु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष भारत में अबतक नहीं देखा, जो श्रीमद् राजचद्रभाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। उनमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति थी, ढोग, पक्षपात या राग-द्वेष न थे। उनमें एक ऐसी महान् शक्ति थी, जिसके द्वारा वह प्राप्त हुए प्रसंग का पूर्ण लाभ उठा सकते थे। उनके लेख अग्रेज तत्व-ज्ञानियों की अपेक्षा भी विलक्षण, भावनामय और आत्मदर्शी हैं। यूरोप के तत्व-ज्ञानियों में मैं टाल्स्टाय को पहली श्रेणी का और रस्किन को दूसरी श्रेणी का विद्वान् समझता हूं, परतु श्रीमद् राजचद्रभाई का अनुभव इन दोनों से भी बढ़ा-चढ़ा था। इन महापुरुषों के जीवन के लेखों को अवकाश के समय पढ़ें तो आप पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वह प्राय कहा करते थे कि मैं किसी बाड़े का नहीं हूं और न किसी बाड़े में रहना ही चाहता हूं। यह सब तो उपर्धर्म—मर्यादित—है और धर्म तो असीम है कि जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। वह अपने जवाहरात के धधे से विरक्त होते कि तुरत पुस्तक हाथ में लेते। यदि उनकी इच्छा होती तो उनमें ऐसी शक्ति थी कि वही एक अच्छे प्रतिभाशाली बैरिस्टर, जज या वाइसराय हो सकते थे। यह अतिशयोक्ति नहीं, किन्तु मेरे मन पर उनकी छाप है। इनकी विचक्षणता दूसरे पर अपनी छाप लगा देती थी।

जिनका पुण्य-स्मरण करने के लिए हम लोग आये हुए हैं, उनके हम लोग पुजारी हैं। मैं भी उनका पुजारी हूं।

वह दयाधर्म की मूर्ति थे। उन्होंने दयाधर्म समझा था और उसे अपने जीवन में उतारा था। मैंने यह बहुत बार कहा और लिखा है कि मैंने अपने जीवन में बहुतों से बहुत-कुछ ग्रहण किया है। पर

सबसे अधिक यदि मैंने किसीके जीवन में से ग्रहण किया हो तो वह कविश्री (श्रीमद्राजचंद्र) के जीवन में से ग्रहण किया है। दया-धर्म भी मैंने उन्हींके जीवन में से सीखा है।

बहुत-से प्रसगों में तो हमें जड़ होकर वैसी ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। शुद्ध जड़ और चैतन्य में भेद नहीं के बराबर है। सारा जगत् जड़ रूप ही दीख पड़ता है। आत्मा तो कभी क्वचित् ही प्रकाशित होता है। ऐसा व्यवहार अलौकिक पुरुषों का होता है और यह मैंने देखा है कि ऐसा व्यवहार श्रीमद्राजचंद्रभाई का था।

वह बहुत बार कहा करते थे कि मेरे शरीर में चारों ओर से कोई बरछी भोक दे तो मैं उसे सह सकता हूँ, पर जगत् में जो झूठ, पाखड़, अत्याचार चल रहा है, धर्म के नाम से जो अधर्म हो रहा है उसकी बरछी मुझसे सही नहीं जाती। अत्याचारों से उन्हें अकुलाते मैंने बहुत बार देखा है। वह सारे जगत् को अपने कुटुंब के जैसा समझते थे। अपने भाई या बहन की मौत से जितना दुःख हमें होता है उतना ही दुःख उन्हें ससार में दुःख और मृत्यु देखकर होता था। . .

राजचंद्रभाई का शरीर जो इतनी छोटी उम्र में छूट गया, इसका कारण भी मुझे यहीं जान पड़ता है। यह ठीक है कि उनके शरीर में दर्द घर किये हुए था, पर जगत् के ताप का जो दर्द उन्हें था, वह उनके लिए असह्य था। उनके देह में केवल शारीरिक दर्द ही होता तो उसे उन्होंने अवश्य जीत लिया होता, पर उन्हें तो जान पड़ा कि ऐसे विषम काल में आत्म-दर्शन कैसे हो सकता है। यह दया-धर्म की निशानी है। . .

श्रीमद्राजचंद्र को मैं ‘रायचंद्रभाई’ अथवा ‘कवि’ कहकर प्रेम और मानपूर्वक सबोधन करता था। उनके सम्मरण लिखकर उनका रहस्य मुमुक्षुओं के समक्ष रखना मुझे अच्छा लगता है।

<sup>3</sup> राजचंद्र-जयती, अहमदाबाद में सभापति-पद से दिया गया भाषण

मुमुक्षु शब्द का मैने यहां जान-बूझकर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए यह प्रयास नहीं।

मेरे ऊपर तीन पुरुषों ने गहरी छाप डाली है टाल्स्टाय, रस्किन और रायचंद्रभाई। टाल्स्टाय ने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहार से, रस्किन ने अपनी एक ही पुस्तक 'अनटु दिस लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैने 'सर्वोदय' रखा है और रायचंद्रभाई ने अपने साथ गाढ़ परिचय से। जब मुझे हिंदू-धर्म में शंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करने में मदद करनेवाले रायचंद्रभाई थे। सन् १८९३ में दक्षिण अफ्रीका में मैं क्रिश्चियन सज्जनों के विशेष संपर्क में आया। उनका जीवन स्वच्छ था। वे चुस्त धर्मियों को क्रिश्चियन होने के लिए समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि मेरा और उनका सबध व्यावहारिक कार्य को लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने मेरी आत्मा के कल्याण के लिए चिता करना शुरू कर दिया। उस समय मैं अपना एक ही कर्तव्य समझ सका कि जबतक मैं हिंदू-धर्म के रहस्य को पूरी तौर से न जान लूँ और उससे मेरी आत्मा को सतोष न हो जाय तबतक मुझे अपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदू-धर्म और अन्य धर्मों की पुस्तके पढ़ना शुरू कर दी। क्रिश्चियन और मुसलमानी पुस्तके पढ़ी। विलायत के अग्रेज मित्रों के साथ पत्र-व्यवहार किया। उनके समक्ष अपनी शकाएँ रखी तथा हिंदुस्तान में जिन के ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी पत्र-व्यवहार किया। उनमें रायचंद्रभाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा सबध हो चका था। उनके प्रति मान भी था। इसलिए जो मिल सके उनसे लेने का मैंने विचार किया। उसका फल यह हुआ कि मुझे शांति मिली। हिंदू-धर्म में मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मन को विश्वास हुआ। मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचंद्रभाई हुए। इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक कुछ अनुमान कर सकते हैं।

इतना होने पर भी मैंने उन्हे धर्मगुरु नहीं माना। धर्मगुरु की तो मैं खोज किया ही करता हूँ। और अबतक मुझे सबके विषय में यही जवाब मिला है कि ये नहीं। ऐसा सपूर्ण गुरु प्राप्त करने के लिए तो अधिकार चाहिए। वह मैं कहा से लाऊँ?

\* \* \*

रायचंद्रभाई के साथ मेरी भेट जुलाई सन् १८९१ मे उस दिन हुई जब मैं विलायत से बबई वापस आया। इन दिनों समुद्र मे तूफान आया करता है, इस कारण जहाज रात को देरी से पहुँचा। मैं डाक्टर—बैरिस्टर—और अब रगून के प्रस्थात झंकेरी प्राण-जीवनदास मेहता के घर उतरा था। रायचंद्रभाई उनके बडे भाई के जमाई होते थे। डाक्टरसाहब ने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बडे भाई झंकेरी रेवाशकर जगजीवनदास की पहुँचान भी उसी दिन हुई। डाक्टरसाहब ने रायचंद्रभाई का 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा, "कवि होते हुए भी आप हमारे साथ व्यापार मे हैं। आप ज्ञानी और शतावधानी हैं।" किसीने सूचना की कि मैं उन्हे कुछ शब्द सुनाऊं और वे शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो, जिस क्रम से मैं बोलूँगा उसी क्रम से वे दुहरा जावेगे। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय विलायत से लौटा था। मुझे भाषा-ज्ञान का भी अभिमान था। मुझे विलायत की हवा भी कुछ क्रम न लगी थी। उन दिनों विलायत से आया मानो आकाश से उतरा। मैंने अपना समस्त ज्ञान उलट दिया। और अलग-अलग भाषाओं के शब्द पहले तो मैंने लिख लिये, क्योंकि मुझे वह क्रम कहा याद रहनेवाला था और बाद मे उन शब्दों को मैं बाच गया। उसी क्रम से रायचंद्रभाई ने धीरे-से एक के बाद एक सब शब्द कह सुनाये। मैं सतुष्ट हुआ, चकित हुआ और कवि की स्मरण-शक्ति के विषय मे मेरा उच्च विचार हुआ। विलायत की हवा कम पड़ने के लिए कहा जा सकता है कि यह सुदर अनुभव हुआ।

कवि को अग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल न था। उस समय उनकी उमर पच्चीस से अधिक न थी। गुजराती पाठशाला मे भी उन्होने

थोड़ा ही अभ्यास किया था। फिर भी इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और आस-पास से इतना उनका मान! इससे मैं मोहित हुआ। स्मरण-शक्ति पाठशाला में नहीं बिकती और ज्ञान भी पाठशाला के बाहर, यदि इच्छा हो—जिज्ञासा हो—तो मिलता तथा मान पाने के लिए विलायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता, परतु गुण को मान चाहिए तो मिलता है—यह पदार्थ पाठ मुझे बबई उतरते ही मिला।

कवि के साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा। स्मरण-शक्ति बहुत लोगों की तीव्र होती है, इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं। शास्त्र-ज्ञान भी बहुतों में पाया जाता है, परतु यदि वे लोग सस्कारी न हों तो उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। जहा सस्कार अच्छे होते हैं वहीं स्मरण-शक्ति और शास्त्र-ज्ञान सबधं शोभित होता है और जगत् को शोभित करता है। कवि सस्कारी ज्ञानी थे।

अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशो,  
क्या रे थईशुं बाह्यातर निर्णय जो ।  
सर्वं सर्वधनुं बधनं तीक्ष्णं छेदीने,  
विचरशुं कवं महत्पूर्वने पथं जो ॥  
सर्वं भावं थीं ओदासीन्यं वृत्ति करी,  
मात्रं देशं ते समझेतु हौयं जो ॥  
अन्यं कारणे अन्यं कश्चि कल्पे नहि,  
देहे पण किचित् मूर्छा नवं जोयं जो ॥ अपूर्व ॥

रायचंद्रभाई की १८ वर्ष की उमर के निकले हुए अपूर्व उद्गारों की ये पहली दो कडिया हैं।

जो वैराग्य इन कडियों में छलक रहा है, वह मने उनके दो वर्ष के गाढ़ परिचय से प्रत्येक क्षण में देखा है। उनके लेखों की एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कहीं भी क्रत्रिमता नहीं। दूसरे के ऊपर छाप

डालने के लिए उन्होने एक लाइन भी लिखी हो, यह मैंने नहीं देखा। उनके पास हमेशा कोई-न-कोई धर्म-पुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापी में वह अपने मन में जो विचार आते उन्हे लिख लेते थे। ये विचार कभी गद्य में और कभी पद्य में होते थे। इसी तरह 'अपूर्व अवसर' आदि पद भी लिखा हुआ होना चाहिए।

खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक किया करते हुए उनमे वैराग्य तो होता ही था। किसी समय उन्हे इस जगत् के किसी भी वैभव पर मोह हुआ हो, यह मैंने नहीं देखा।

उनका रहन-सहन मैं आदरपूर्वक परतु सूक्ष्मता से देखता हूँ। था। भोजन मे जो मिले वह उसीसे सतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक मादी थी। कुर्ता, अगरखा, खेस, सिल्क का दुपट्टा और धोती, यही उनकी पोशाक थी तथा ये भी कुछ-बहुत साफ या इस्तरी किये हुए रहते हो, यह मुझे याद नहीं। जमीन पर बैठना और कुरसी पर बैठना, उन्हे दोनों ही समान थे। सामान्य रीति से दुकान में वह गहीं पर बैठते थे।

उनकी चाल धीमी थी और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वह अपने विचार मे मग्न है। आखो मे उनके चमत्कार था। वह अत्यंत तेजस्वी थे। विह्वलता जरा भी न थी। आखो मे एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होठ पतले, नाक न नोक-दार न चपटी, शरीर दुर्बल, कद मध्यम, वर्ण श्याम और देखने मे वे शातिर्मिति थे। उनके कठ मे इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हे सुननेवाले थकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख और प्रफुल्लित था। उसके ऊपर अतरानद की छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हे अपने विचार प्रकट करते समय कभी कोई शब्द ढूढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद नहीं। पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हे देखा होगा। फिर भी पढ़नेवाले को यह न मालूम होता था कि कहीं विचार अपूर्ण है अथवा वाक्य-रचना त्रुटि-पूर्ण है, अथवा शब्दों के चुनाव मे कमी है।

यह वर्णन सथमी के विषय में सभव है। बाह्याङ्गबर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता। बीतरागता आत्मा की प्रसादी है। यह अनेक जन्मों के प्रयत्नों से मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है। रागों को निकालने का प्रयत्न करनेवाला जानता है कि राग-रहित होना कितना कठिन है। यह राग-रहित दशा कवि की स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप पड़ी थी।

मोक्ष की प्रथम सीढ़ी बीतरागता है। जबतक जगत की एक भी वस्तु में मन रमा है तबतक मोक्ष की बात कैसे अच्छी लग सकती है, अथवा अच्छी लगती भी हो तो केवल कानों को ही, ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थ के समझे बिना किसी सगीत का केवल स्वर ही अच्छा लगता है। ऐसी केवल कर्णप्रिय त्रीड़ा में से मोक्ष का अनसरण करनेवाले आचरण के आने में बहुत समय बीत जाता है। आंतर वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। ऐसे वैराग्य की लगन कवि में थी।

...                    ...                    ..

वणिक तेहनुं नाम जेह जूँ नव बोले,  
वणिक तेहनुं नाम, तोल ओलुं नव तोले,  
वणिक तेहनुं नाम बापे बोल्युं तेपाले,  
वणिक तेहनुं नाम व्याजसहित धन बाले,  
विवेक तोल ए वणिकनुं सुलतान तोल ए शाव छे,  
बेपार चूके जो वाणीओ दुख दावानल थाय छे।

—सामल भट्ट

सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अलग-अलग विरोधी वस्तुएं हैं। व्यापार में धर्म को घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा करने से दोनों बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्य में केवल निराशा ही लिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्म को अलग-रख सके।

धार्मिक मनुष्य का धर्म उसके प्रत्येक कार्य में झलकना ही

चाहिए, यह रायचंद्रभाई ने अपने जीवन में बताया था। धर्म कुछ एकादशी के दिन ही, पर्यूषण में ही, ईद के दिन ही, या रविवार के दिन ही पालना चाहिए, अथवा उसका पालन मंदिरों में, देरासरों में और मस्जिदों में ही होता है और दूकान या दरबार में नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, परंतु यह कहना धर्म को न समझने के बराबर है, यह रायचंद्रभाई कहते, मानते और अपने आचार में बताते थे।

उनका व्यापार हीरे-जवाहरात का था। वह श्री रेवाशंकर जगजीवन ज्ञवेरी के साझी थे। साथ में वे कपड़े की दूकान भी चलाते थे। अपने व्यवहार में संपूर्ण प्रकार से वह प्रामाणिकता बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी अनायास ही उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। चालाकी सरीखी कोई वस्तु उनमें नहीं देखता था। दूसरे की चालाकी वह तुरत ताड़ जाते थे। वह उन्हें असह्य मालूम होती थी। ऐसे समय उनकी भूकुटि भी चढ़ जाती और आखों में लाली आ जाती, यह मैं देखता था।

धर्म-कुशल लोग व्यवहारकुशल नहीं होते, इस वहम को राय-चंद्रभाई ने मिथ्या सिद्ध करके बताया था। अपने व्यापार में वह पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे। हीरे-जवाहरात की परीक्षा वह बहुत बारीकी से कर सकते थे। यद्यपि अग्रेजी का ज्ञान उन्हें न था, फिर भी पेरिस वगैरह के अपने आढ़तियों की चिट्ठियों और तारों के मर्म को वह फैरन समझ जाते थे और उनकी कला समझने में उन्हें देर न लगती। उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकाश सच्चे ही निकलते थे।

इतनी सावधानी और होशियारी होने पर भी वह व्यापार की उद्धिनता अथवा चिता न रखते थे। दुकान में बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वह अपने उदगार लिखते थे, खुल जाती थी। मेरे जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और

उनके साथ धर्म-चर्चा करने में हिचकते न थे। 'व्यापार के समय में व्यापार और धर्म के समय में धर्म' अर्थात् एक समय में एक ही काम होना चाहिए, इस सामान्य लोगों के सुदर नियम का कवि पालन न करते थे। वह शतावधानी होकर इसका पालन न करे तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग उसका उल्लंघन करने भी लगे तो जैसे दो घोड़ों पर सवारी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे अवश्य गिरते। सपूर्ण धार्मिक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रिया को जिस समय करता हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है। इतना ही नहीं, बल्कि उसे यही शोभा देता है। यह उसके योग की निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार अथवा इसी तरह की जो कोई अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिए। अतरंग में आत्मचित्तन तो मुमुक्षु में उसके श्वास की तरह सतत चलना ही चाहिए। उससे वह एक क्षण भी वचित नहीं रहता। परन्तु इस तरह आत्मचित्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य कार्य करता हो वह उसमें ही तन्मय रहता है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। ऊपर मैं कह चुका हूँ कि अपने व्यापार में वह पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होने पर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर पड़ी है कि कवि ने अपने शरीर से आवश्यकता से अधिक काम लिया है। यह योग की अपूर्णता तो नहीं हो सकती है यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्ति से अधिक बोझ उठा कर उसे कर्तव्य समझना यह राग है। ऐसा अत्यत सूक्ष्म राग कवि मे था, यह मुझे अनुभव हुआ है।

बहुत बार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से अधिक काम लेता है और बाद मे उसे पूरा करने मे उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु परमार्थ अर्थात् धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किये हुए काम मे सूक्ष्म मूर्छा का होना बहुत सभव है।

यदि हम इस जगत् मे केवल निमित्तमात्र ही है, यदि यह

शरीर हमे भाडे मिला है, और उस मार्ग से हमे तुरत मोक्ष साधन करना चाहिए, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्ग मे जो विघ्न आते हो उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए। यही पारमार्थिक दृष्टि है, दूसरी नहीं।

जो दलीले मैंने ऊपर दी है, उन्हे ही किसी दूसरे प्रकार से रायचंदभार्द अपनी चमत्कारिक भाषा मे मुझे सुना गये थे। ऐसा होने पर भी उन्होने ऐसी-बैसी उपाधिया उठाई कि जिसके फल-स्वरूप उन्हे सख्त बीमारी भोगनी पड़ी।

रायचंदभार्द को परोपकार के कारण मोहने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति याति-भूतानि निग्रह. कि करिष्यति' यह श्लोकार्थ यहा ठीक बैठता है और इसका अर्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक बताव करने के लिए उपर्युक्त कृष्ण-वचन का उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुप्योग है। रायचंदभार्द की प्रकृति उन्हे बलात्कार गहरे पानी मे ले गई। ऐसे कार्य को दोषरूप से भी लगभग सपूर्ण आत्माओं मे ही माना जा सकता है। हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित् पूरा कर पाते हैं।

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हे सबकोई ठग सकता है। उन्हे दुनिया की बातों की कुछ भी खबर नहीं पड़ती। यदि यह बात ठीक है तो कृष्णचंद्र और रामचंद्र दोनों अवतारों को केवल ससारी मनुष्यों मे ही गिनना चाहिए। कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असभव होना चाहिए। मनुष्य धार्मिक अर्थात् नीतिमान् होने पर भी कदाचित् ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्ष के लिए नीति और अनुभव ज्ञान का सुसगम होना चाहिए। जिसे अनुभव-ज्ञान हो गया है, उसके पास पाखड़ निभ ही नहीं सकता। सत्य के पास असत्य नहीं निभ सकता। अहिंसा के सान्निध्य मे हिंसा बद हो जाती है। जहा सरलता प्रकाशित होती है वहा छल-रूपी अधकार नष्ट हो जाता

है। ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटी को देखे तो उसे फौरन पहचान लेता है और उसका हृदय दया से आर्द्र हो जाता है। जिसने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया है वह दूसरे को पहचाने बिना कैसे रह सकता है। कोई-कोई धर्म के नाम पर उन्हे ठग भी लेते थे। ऐसे उदाहरण नियम की अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञान की ही दुर्लभता सिद्ध करते हैं।

इस तरह के अपवाद होते हुए भी व्यवहार-कुशलता और धर्मपरायणता का सुदर मेल जितना मैंने कवि मे देखा है उतना किसी दूसरे मे देखने मे नहीं आया।

... ... ...

रायचंदभाई के धर्म का विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि धर्म का उन्होने क्या स्वरूप समझाया था।

धर्म का अर्थ मतमतातर नहीं। धर्म का अर्थ शास्त्रो के नाम से कही जानेवाली पुस्तकों को पढ़ जाना, कठस्थ कर लेना अथवा उनमे जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है।

धर्म आत्मा का गुण है और वह मनुष्य-जाति मे दृश्य अथवा अदृश्य रूप से मौजूद है। धर्म से हम मनुष्य-जीवन का कर्तव्य समझ सकते हैं। धर्म द्वारा हम दूसरे जीवों के साथ अपना सच्चा सबध पहचान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान ले तबतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने-आपको स्वयं पहचान सकते हैं।

यह साधन हमे जहां-कही मिले, वही से प्राप्त करना चाहिए। फिर भले ही वह भारतवर्ष मे मिले, वाहे यूरोप से आये या अरब-स्तान से आये। इन साधनो का सामान्य स्वरूप समस्त धर्म-शास्त्रों मे एक ही सा है। इस बात को वह कह सकता है जिसने भिन्न-भिन्न शास्त्रों का अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिए, अथवा असत्य आचरण करना चाहिए। हिसा करना किसी भी शास्त्र मे नहीं बताया। समस्त शास्त्रों का दोहन करते हुए शकराचार्य ने कहा है, “ब्रह्म

सत्य जगन्मध्या।” उसी बात को कुरानशारीफ मे दूसरी तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है और वही है, उसके बिना और दूसरा कुछ नहीं। बाइबिल मे कहा है कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं। ये सब एक ही वस्तु के रूपातर हैं। परन्तु इस एक ही सत्य के स्पष्ट करने मे अपूर्ण मनुष्यों ने अपने भिन्न-भिन्न दृष्टि-विदुओं को काम मे लाकर हमारे लिए मोह-जाल रच दिया है। उसमे से हमें बाहर निकलना है। हम अपूर्ण हैं और अपने से कम अपूर्ण की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं और अत मे न जाने अमुक हृदय तक जाकर ऐसा मान लेते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अमुक हृद के बाद शास्त्र मदद नहीं करते, परन्तु अनु-भव मदद करता है। इसलिए रायचंदभाई ने कहा है :

“ए पद श्रीसर्वज्ञे दीठुं ध्यानमां, कहीं शक्या नहीं ते पद श्रीभगवंत जो एह परमपद प्राप्तिनुं कर्यु ध्यानमें, गजावयर पण हाल मनोरथ रूप जो...”

इसलिए अत मे तो आत्मा को मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है।

इस शुद्ध सत्य का निरूपण रायचंदभाई ने अनेक प्रकारों से अपने लेखों में किया है। रायचंदभाई ने बहुत-सी धर्म-पुस्तकों का अच्छा अभ्यास किया था। उन्हे सस्कृत और मागधी भाषा को समझने मे जरा भी मुश्किल न पड़ती थी। उन्होने वेदांत का अभ्यास किया था। इसी प्रकार भागवत और गीताजी का भी उन्होने अभ्यास किया था। जैन-पुस्तके तो जितनी भी उनके हाथ मे आती, वह बाच जाते थे। उनके बाचने और ग्रहण करने की शक्ति अगाध थी। पुस्तक का एक बार का बांचन उन पुस्तकों के रहस्य जानने के लिए उन्हे काफी था। कुरान, जदेअवस्ता आदि पुस्तके भी वह अनुवाद के जरिए पढ़ गये थे।

वह मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैन-धर्म की ओर था। उनकी मान्यता थी कि जिनागम मे आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है।

परन्तु रायचंदभाई का दूसरे धर्मों के प्रति अनादर न था, बल्कि

वेदांत के प्रति पक्षपात भी था । वेदाती को तो कवि वेदाती ही मालूम पड़ते थे । मेरे साथ चर्चा करते समय मुझे उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्ष-प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का अवलंबन लेना चाहिए । मुझे अपना ही आचार-विचार पालने के लिए उन्होंने कहा । मुझे कौन-सी पुस्तके बाचनी चाहिए, यह प्रश्न उठने पर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपन के सस्कार देखकर मुझे गीताजी बांचने के लिए उत्तेजित किया और दूसरी पुस्तकों में पचीकरण, मणिरत्नमाला, योगवासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, काव्य-दोहन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाला बाचने के लिए कहा ।

रायचंदभाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न-भिन्न धर्म तो एक तरह के बाडे हैं और उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्ष-प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने माथे पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं ।

सूरत आवे त्यम तुं रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे ।....

अर्थात्—जैसे सूत निकलता है वैसे ही तू रह ! जैसे बने तैसे हरि को प्राप्त कर ।

जैसे अखा का यह सूत्र था वैसे ही रायचंदभाई का भी था । धार्मिक ज्ञागड़ों से वे हमेशा ऊबे रहते थे । उनमें वह शायद ही कभी पड़ते थे । वह समस्त धर्मों की खूबिया पूरी तरह से देखते और उन्हे उन धर्मावलबियों के सामने रखते थे । दक्षिण अफ्रीका के पत्र-व्यवहार में भी मैंने यही वस्तु उनसे आप्त की ।

मैं स्वयं तो यह माननेवाला हूँ कि धर्म उस धर्म के भक्तों की दृष्टि से संपूर्ण है, और दूसरों की दृष्टि से अपूर्ण है । स्वतत्र रूप से विचार करने से सब धर्म पूर्णपूर्ण है । अमृक हृद के बाद सब शास्त्र बधन रूप मालूम पड़ते हैं । प्ररतु यह तो गुणातीत की अवस्था हूई । रायचंदभाई की दृष्टि से विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं । सब अपने-अपने

धर्म मे रहकर अपनी स्वतन्त्रता मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ सर्वांश से राग-द्वेष रहित होना ही है।<sup>१</sup>

: २२ :

## आचार्य सुशील रुद्र

आचार्य सुशील रुद्र का देहात ३० जून, १९२५ को होगया। वह मेरे एक आदरणीय मित्र और खामोश समाज-सेवी थे। उनकी मृत्यु से मुझे जो दुख हुआ है उसमे पाठक मेरा साथ दे। भारत की मुख्य बीमारी है राजनैतिक गुलामी। इसलिए वह उन्हींको मानता है, जो उसे दूर करने के लिए खुले आम सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, और जिसने कि अपनी जल और थल-सेवा तथा धन-बल और कूट-नीति के द्वारा अपनी मजबूत मोर्चाबिदी कर ली है। इससे स्वभावत उसे उन कार्यकर्ताओं का पता नहीं रहता जो नि स्वार्थ होते हैं, और जो जीवन के दूसरे विभागों मे, जो कि राजनीति से कम उपयोगी नहीं होते हैं, अपनेको खपा देते हैं। सेट-स्टीफस कालेज, दिल्ली, के प्रिसिपल सुशीलकुमार रुद्र ऐसे ही विनीत कार्यकर्ता थे। वह पहले दरजे के शिक्षा-शास्त्री थे। प्रिसिपल के नाते वह चारों ओर लोकप्रिय हो गये थे। उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच एक प्रकार का आध्यात्मिक सबध था। यद्यपि वह ईसाई थे, तथापि वह अपने हृदय मे हिंदू-धर्म और इस्लाम के लिए भी जगह रखते थे। इन्हे वह बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। उनका ईसाई धर्म औरों से फटक कर अलग रहनवाला न था, जो अकेले ईसामसीह को दुनिया का तारनहार न मानता हो उसके सर्वनाश की दुहाई देनेवाला न था। अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए भी वह औरों को सहन करते थे। वह राजनीति के बड़े तेज और चिता-शील स्वाध्यायी थे। अग्रगामी कहे जानेवाले लोगों के प्रति अपनी

---

<sup>१</sup> 'श्रीमद्भाराजचंद्र' से

सहानुभूति की कवायद जहा वह न दिखाते थे, वहा वह छिपाते न थे। जब से, १९१५ से, मैं अफीका से लौटा मैं जब-कभी दिली जाता, उन्हीका अतिथि होता। रौलट कानून के सिलसिले मे जबतक मैंने सत्याग्रह नहीं छेड़ा तबतक यह कार्य निर्विघ्न जारी रहा। ऊचे हल्कों मे उनके कितने ही अग्रेज मित्र थे। एक पूरे अंग्रेजी मिशन से उनका सबध था। अपने कालेज के वह पहले ही हिंदुस्तानी प्रिसिपल थे। इसलिए मेरे दिल ने कहा कि मेरा उनके साथ समागम रहने और उनके घर म ठहरने से शायद लोगों को यह गलत खयाल हो कि मेरा उनका मतैक्य है और उनके साथियों को अनावश्यक सकट का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने दूसरी जगह ठहरना चाहा। उनका जवाब अपने ढग का था—“मेरा धर्म लोगों के अनुमान से अधिक गहरा है। मेरे कुछ मत तो मेरे जीवन के घनिष्ठ अग है। वे गहरे और दीर्घकाल के मनन और

\* प्रार्थना के बाद निश्चित हुए हैं। मेरे अग्रेज मित्र उन्हे जानते हैं। यदि अपने सम्माननीय मित्र और अतिथि के रूप मे मैं आपको अपने घर मे रखूँ तो वे इसका गलत अर्थ नहीं कर सकते। और यदि कभी मुझे इन दो बातों मे से कि अग्रेज के अदर जो कुछ मेरा प्रभाव है वह चला जाय या आप किसी एक को चुनना पड़े तो मैं जानता हूँ कि मैं किस चीज को पसंद करूँगा। आप मेरे घर को नहीं छोड़ सकते।” तब मैंने कहा—“लेकिन मुझसे तो हर किस्म के लोग मिलने के लिए आते हैं। आप अपने मकान को सराय तो बना नहीं सकते।” उन्होंने उत्तर दिया—“सच पूछो तो मुझे यह सब अच्छा मालम होता है। आपके मित्रों का आना-जाना मुझे पसद है। यह देखकर मुझे आनंद होता है कि आपको अपने मकान मे ठहराकर मेरे हाथों कुछ देश-सेवा हो रही है।” पाठको को शायद मालम न हो कि खिलाफत के दावे को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए जो पत्र मैंने वायसराय को लिखा था उसका विचार और भस्त्रविदा प्रिसिपल रुद्र के मकान मे तैयार हुआ था। वह तथा चार्ली एंड्रूज उसमे सुधार सुझानेवाले थे। उन्हीके घर की छाह में

बैठकर असहयोग की कल्पना उत्पन्न और प्रवर्तित हुई । मौलानाओ, दूसरे मुसलमानों तथा अन्य मित्रों और मेरे बीच जो निजी मत्रणा हुई उसकी कार्रवाही को वह बड़ी दिलचस्पी के साथ चुपचाप देखते थे । उनके तमाम कार्य धर्म-भाव से प्रेरित होते थे ऐसी हालत मे दुनियावी सत्ता छिन जाने का कोई डर न था— तथापि वही धर्म-भाव उन्हे सासारिक सत्ता के अस्तित्व और उपयोग तथा मित्रता के मूल्य को समझने मे सहायक होता था । जिस धार्मिक भाव से मनष्य को विचार और आचार के सुदर मेल का यथार्थ ज्ञान होता है, उसकी सत्यता को उन्होने अपने जीवन मे चरितार्थ कर दिखाया था । आचार्य रुद्र ने अपनी ओर इतने उच्च चरित्र लोगो को आकर्षित किया था, जिनके सहवास की इच्छा किसीको हो सकती है । बहुत लोग नही जानते है कि श्री सी० एफ० एड्यज हमे प्रिसिपल रुद्र के ही कारण प्राप्त हुए है । वे जुड़े भाई जैसे थे । उनका स्नेह आदर्श मित्रता के अध्ययन का विषय था ।

प्रिसिपल रुद्र अपने पीछे दो लड़के और एक लड़की को छोड़ गये है ।<sup>१</sup>

: २३ :

### लाला लाजपतराय

लाला लाजपतराय को गिरफ्तार क्या किया, सरकार ने हमारे एक बड़े-से-बड़े मुखिया को पकड़ लिया है । उसका नाम भारत के बच्चे-बच्चे की जबान पर है । अपने स्वार्थ-त्याग के कारण वह अपने देश-भाइयों के हृदय मे उच्च स्थान प्राप्त कर चुके है । अहिंसा के प्रचार के लिए और उसके साथ ही लोकमत को संगठित और प्रकट करने के लिए उन्होने जितना परिश्रम किया

है उतना बहुत ही थोड़े लोगों ने किया है। उनकी गिरफ्तारी से सरकार की नीति या वृत्ति का जितना सच्चा पता चलता है उतना दूसरी किसी बात से नहीं।

पजाबी भाई लालाजी को बड़े-से-बड़ा गौरव जो दे सकते हैं वह यह है कि वे मही समझकर कि लालाजी हमारे साथ ही हैं, उनका काम बराबर आगे बढ़ाते रहे।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

आखिरकार लाजपतराय, पडित सतानम, मलिक लालखान और डॉक्टर गोपीचंद के मुकदमे का फैसला हो गया। लालाजी तथा पडित सतानम को अठारह महीने की कैद की सजा दी रई। अभियुक्तों के बहुतेरा विरोध करने पर भी सरकार ने जबरदस्ती उनके बचाव के लिए एक वकील नियुक्त किया था। इस तमाशे के होते हुए भी उनको सजा दी जाना तो निश्चित ही था। सजा का हुक्म सुनाये जाने के जरा पहले ही लालाजी ने मुझे एक पत्र लिखा। उसमे उनके चित्त की प्रसन्नता टपकी पड़ती है। वह इस प्रकार है—

“आपने जो स्नेहपूर्ण टिप्पणी लिखी है तथा रामप्रसादजी और पुरुषोत्तमलाल के द्वारा जो सदेश भेजा, उनके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मजे मे हूँ। मैंने अन्न-त्याग नहीं किया था। मैं अपने आराम के लिए शोरीगुल मचाने के खिलाफ हूँ। हम यहा इसलिए नहीं आये हैं कि किसी तरह की सुविधाएं या रियायतें चाहे। सच्चा हाल अखबारों मे जाहिर हुआ है और आशा है कि वह अब आप तक पहुच गया होगा। हम सब लोगों का चित्त बहुत प्रसन्न है और मेरे राष्ट्रीय पाठशालाओं तथा धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन मे अपने समय का खूब सदृपयोग कर रहा हूँ। अहमदाबाद मे जो कुछ हुआ है उसके तथा सर्वपक्षीय परिषद् (राउड टेबल काफ्रेस) के हालात मुझे मालूम हो गये हैं। हमारी

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, ११-१२-२१

तकलीफो की वजह से हमारे सिद्धातों के निर्णय में बाधा न होने दीजिएगा । आप यकीन मानिये, हम अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए जबतक चाहिए तबतक और जितनी चाहिए, उतनी तकलीफे बरदाश्त करने को हर तरह से तैयार है । और अब जब कि उसीके लिए हम यहा आये हुए हैं तो हमें उसे अत तक निबाहना चाहिए ।”

हमें आशा करनी चाहिए कि लालाजी और पडित सतानम को उनका अध्ययन जारी रखने दिया जायगा । मैं उन्हे तथा उनके साथियों को यह भी सूचित करने का साहस करूँगा कि वे मौलाना शौकतअली और श्री राजगोपालाचारी तथा उनके साथियों का अनुकरण करे, अर्थात् वे साहित्य-सबधी उद्योगों के साथ-ही-साथ चरखा कातने पर भी ध्यान देंगे । मैं अभिवचन देता हूँ कि बीच-बीच में चरखा कातते रहने से लालाजी के इतिहास-लेखन तथा पडित सतानम के सस्कृत-अध्ययन में हानि न होगी ।<sup>१</sup>

...

...

...

मैंने तो लालाजी को एक बच्चे के समान खुले दिलवाला पाया है । उनके त्याग की जोड़ लगभग हुई नहीं । मेरौं उनसे हिन्दू-मुसलमानों के बारे में एक बार नहीं, अनेक बार बाते हुई हैं । वह मुसलमानों के साथ तनिक भी दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन उन्हे जल्दी एकता हो जाने में शक है । वह हृश्वर से प्रकाश पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं । खुद शक्ति रहते हुए भी वह हिन्दू-मुसलमानों की एकता के कायल है, क्योंकि जैसाकि उन्होंने मुझसे कहा है वह स्वराज्य के कायल हैं । वह मानते हैं कि ऐसी एकता के बिना स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता । तो भी वह यह नहीं जानते कि यह एकता किस तरह और कब होगी । मेरा उपाय उन्हे पसद है, परतु इस बात में शक है कि हिन्दू लोग उसका मर्म समझ पावेंगे

या नहीं और अगर समझ पावेगे तो उसकी शराफत की कदर करेगे या नहीं।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

कहा जाता है कि किसीने यह सवाद भेजा है कि अमृतसर की खिलाफत-परिषद में मैंने लाला लाजपतराय को भीरु कहा है। लालाजी जो कुछ भी हो, वह भीरु नहीं है। मेरे व्याख्यान का पूर्वापर सबध देखने से प्रतीत होगा कि मैं उनका इस आक्षेप से कि वह मुसलमानों के विरोधी है बचाव कर रहा था। उस समय मैंने जो कुछ कहा था वह यह है लालाजी सदा शात चित्त रहते हैं और उन्हे मुसलमानों के उद्देश्य के बारे में बड़ी शका रहती है। लेकिन वह मुसलमानों की दोस्ती सच्चे दिल से चाहते हैं। लालाजी के प्रति मेरा बड़ा आदर-भाव है। मैं उन्हे बहादुर, आत्म-त्यागी, उदार, सत्यनिष्ठ और ईश्वर से डरनेवाला मानता हूँ। उनका स्वदेश-प्रेम बड़ा ही शुद्ध है। देश की जितनी और जैसी सेवा उन्होंने की है उसमें उनकी बराबरी करनेवाले बहुत कम हैं। और यदि ऐसे शख्सों पर सदेह किया जा सके कि उनके उद्देश्यहीन हैं तो हमें हिंदू-मुस्लिम-एक्य से उसी प्रकार निराश होना पड़ेगा जिस प्रकार हमें अली भाइयों पर हीन उद्देश्य रखने का सदेह करने पर निराश होना पड़े। हम सब अपूर्ण हैं, हमारा मत एक-दूसरे के खिलाफ दूषित हो गया है। हम, हिंदू और मुसलमान, जैसे हैं वैसे ही समझे जाने चाहिए। जो हिंदू-मुस्लिम-एक्य को अपना धर्म मानते हैं उन्हे तो जो साधन हमार पास है उसीके द्वारा उसे संपादन करने का प्रयत्न करना चाहिए।<sup>२</sup>

...                    ...                    ...

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन १-६-२४

<sup>२</sup> हिंदी नवजीवन, १४-१२-२४

“आपके तार के लिए आभार मानता हूँ। लोगों की ओर से पुलिस को हमला करने के लिए कोई कारण नहीं मिला है। यह मामला इरादापूर्वक किया गया था। दो सख्त चोटें लगी हैं, मगर गभीर नहीं हैं। एक बाईं छाती पर और एक कधे पर लगी है। दूसरी चोटे सत्यपाल, गोपीचंद, हसराज, मुहम्मद आलम आदि मित्रों ने सभाल ली। दूसरों पर भी मार पड़ी है और चोटें लगी हैं, किन्तु चिंता का कोई कारण नहीं है।”<sup>१</sup>

—लाजपतराय

मैंने लाला लाजपतराय को तार से धन्यवाद दिया था और हालत पूछी थी। उसके जवाब में तुरत ही लालाजी ने ऊपर का तार भेजा। आज के लोगों में से, जबकि अधिकाश की अभी रेखे भी नहीं भीगी थीं, लालाजी ने ‘पजाब केसरी’ का नाम पाया था। अबतक उनका यह अल्काव जैसा-का-तैसा कायम है, क्योंकि चाहे उनके पक्ष और विपक्ष में कुछ भी क्यों न कहा जाय, वह अब भी पजाब के सबसे बड़े निर्विवाद नेता है और सारे भारतवर्ष में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं में से है। वह महासभा के सभापति हो चुके हैं, यूरोप में उनका नाम है और वह उन गिनेचुने नेताओं से हैं, जो दिल की बात तुरत ही कह देते हैं, गो कोई भले ही गलतफहमी करे या उससे भी अधिक उन्हे अक्सर पहचाननेवाला मूर्ख समझे। मगर लालाजी अपनी आदत से लाचार है; क्योंकि वह अपने दिल में कोई बात छिपाकर रख ही नहीं सकते। जो बात सोची, वह वह कहेंगे ही। इसलिए जब मैंने यह शीर्षक पढ़ा “लालाजी पर मार” और मार के व्यौरे पढ़े तभी मेरे मुह से निकल गया—“शाबाश !” अब हमें स्वराज्य पाने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि चाहे हमारी क्राति हिस्क हो या अहिस्क,

<sup>१</sup> साइमन-कमीशन के लाहौर भाने पर उसके विरोध में निकाले गये जलूस का लालाजी ने नेतृत्व किया था। पुलिस ने उस जलूस पर लाठियां छलाई थीं।

स्वतंत्र होने के पहले हमें देश के नाम पर मरने की कला सीखनी होगी। इसके अलावा जबतक महान प्रयत्न न किया जावे, अहिंसक दबाव से भी शासक झुकेगे नहीं। आदर्श और सपूर्ण अहिंसा के सामने, मैं यह कल्पना कर सकता हूँ कि शासकों की वृत्ति बिल्कुल ही बदल जानी सभव है। भगव गोकिं आदर्श और सपूर्ण कार्यक्रम बनाना सभव है, तथापि उसका सपूर्ण और आदर्श अमल कभी सभव नहीं है, इसलिए सबसे सस्ती बात यही है कि नेताओं पर मार पड़े या गोली चले। अबतक अनजान आदमियों पर मार पड़ी है या वे मारे गये हैं। थोड़े-से आदमियों को गोली मारने से भी देश का ध्यान जितना आकर्षित नहीं होता उससे कहीं अधिक लालाजी पर हमला करने से हुआ है। लालाजी तथा दूसरे नेताओं पर हमले से हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ विचार में पड़ गये हैं और सरकार की शांति तो जरूर ही भग हो गई होगी।<sup>१</sup>

...                    ...                    ...

लाला लाजपतराय का देहात हो गया। लालाजी चिर-जीवी होवे। जबतक हिंदुस्तान के आकाश में सूर्य चमकता है तब-तक लालाजी मर नहीं सकते। लालाजी तो एक सम्प्ता थे। अपनी जवानी के ही समय से उन्होंने देशभक्ति को अपना धर्म बना लिया था और उनके देशप्रेम में सकीर्णता न थी। वह अपने देश से इसलिए प्रेम करते थे कि वह संसार से प्रेम करते थे। उनकी राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता से भरपूर थी। इसलिए यरोपियन लोगों पर भी उनका इतना अधिक प्रभाव था। यूरोप और अमेरिका में उनके अनेक मित्र थे। वे मित्र लालाजी को जानते थे और इसलिए उनसे प्रेम करते थे।

उनकी सेवाएं विविध थीं। वह बड़े ही उत्साही समाज और धर्म-सुधारक थे। हमसे से बहुत-से लोगों के समान वह भी इसीलिए राजनीतिज्ञ बने थे कि समाज और धर्म-सुधार की उनकी लगन

---

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, ८-११-२८

राजनीति मे शामिल हुए बिना पूरी होती ही नहीं थी। सार्वजनिक जीवन शुरू करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने देख लिया था कि विदेशी गुलामी से देश के स्वतंत्र हुए बिना हमारे इच्छित सुधारों में से बहुत-से नहीं हो सकेंगे। जैसाकि हममे से बहुतों को जान पड़ता है, उन्हें भी जान पड़ा था कि विदेशी परतत्रता का जहर देश की नस-नस मे घुस गया है।

ऐसे एक भी सार्वजनिक आंदोलन का नाम लेना असंभव है, जिसमे लालाजी शामिल न थे। सेवा करने की उनकी भूख सदा अतृप्त ही रहती थी। उन्होंने शिक्षण-संस्थाएं खोली, वह दुलितों के मित्र बने, जहा कही दुख-दारिद्र्य हो, वही वह दौड़ते थे। नवयुवकों को वह असाधारण प्रेम से अपने पास जमा करते थे। सहायता के लिए किसी नौजावान की प्रार्थना उनके पास बेकार न गई। राजनैतिक क्षेत्र मे वह ऐसे थे कि उनके बिना चल ही नहीं सकता था। अपने विचार प्रकट करने मे वह कभी भयभीत न हुए। उस समय भी जबकि कष्ट सहना रोजमर्रा की बात नहीं हो गई थी, अपने विचार निर्भीकता से प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कष्ट सहा था। उनके जीवन मे कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। उनकी अत्यंत अधिक स्पष्टवादिता से मित्रों को प्रायः घबराहट मे पड़ना होता था, उनके आलोचक भी चक्कर मे पड़ जाते थे, मगर उनकी यह आदत छूटनेवाली नहीं थी।

मुसलमान मित्रों का लिहाज रखता हुआ भी मे दावे के साथ यह कहता हूँ कि लालाजी इस्लाम के दुश्मन नहीं थे। हिंदू-धर्म को सबल बनाने तथा शुद्ध करने की उनकी प्रबल इच्छा को भूल से मुसलमानों या इस्लाम के प्रति धृणा नहीं समझनी चाहिए। हिंदू-मुसलमानों मे एकता स्थापित करने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। वह हिंदूराज की चाहना नहीं करते थे, वह हिंदुस्तानी राज की इच्छा करते थे। अपने-आपको हिंदुस्तानी कहनेवाले सभी लोगों मे वह सम्पूर्ण समानता स्थापित करना चाहते थे। लालाजी की मृत्यु से भी हम परस्पर एक-दूसरे पर विश्वास करना

सीखे और अगर हम निर्भय बन जाय तो यह तुरत ही संभव है।

उनके लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की माग अवश्य ही होनी चाहिए और वह होगी भी। मेरी विनाश सम्मति मे कोई स्मारक तबतक सपूर्ण नहीं हो सकता जबतक कि स्वतंत्रता जरूर प्राप्त करनी है, यह दृढ़ विश्वास न हो, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वह जीते थे, इसीके लिए उनकी ऐसी गौरवमयी मृत्यु भी हुई। जरा हम याद करे कि उनकी अतिम इच्छा क्या थी। उन्होंने नई पीढ़ी को हिंदुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसके गौरव की रक्षा करने का भार सौंपा है। नई पीढ़ी में उन्होंने जो विश्वास दिखलाया, वह क्या उसके योग्य आपको साक्षित करेगी? और हम बूढ़ों मे से, जो भारतवर्ष को स्वतंत्र देखने के लालाजी तथा दूसरे अनेक स्वर्गीय देशभक्तों के स्वप्न को सही बनाने के लिए अभी तक बचे हुए हैं, एक बार सभी मिलकर महान प्रयत्न कर अपनेको लालाजी के जैसे देशबंधु पाने का अधिकारी सिद्ध करेंगे।<sup>१</sup>

...

...

...

.... जब राजनीति को लोग भूल जायगे, जब जनता का ध्यान खीच लेनेवाली अनेक क्षणभगुर वस्तुएँ भी विस्मृत हो जायेंगी, तब भी लालाजी के गभीर और विशाल हरिजन-प्रेम को और उनकी तज्जनिक महान् सेवाओं को करोड़ो हिंदू ही नहीं, बल्कि कोटिशः सर्वं हिंदू भी—और हिंदू ही क्यों, समस्त भारत-वर्ष बड़ी श्रद्धा-भक्ति से याद किया करेगा। लालाजी एक महान् मानव-प्रेमी थे और उनका वह मानव-प्रेम विश्वव्यापी था। उनकी प्रत्येक वर्षी के अवसर पर हमें अपने जीवन मे लालाजी को उनकी प्रत्येक विगत वर्षी की अपेक्षा, अधिकाधिक सजीव करते जाना चाहिए। लालाजी-जैसे समाज-सुधारकों का जब निधन होता है तब केवल उनकी देह का ही नाश होता है। उनका कार्य और

<sup>१</sup> हिंदू नवजीवन, २२-११-२८

उनके विचारो का देह के साथ अत नहीं होता। उनकी शक्ति तो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। हमे इसका अनुभव तब और अधिक होता है जब हम देखते हैं कि ज्यो-ज्यो समय बीतता है त्यो-त्यो इस जीर्ण चौले के बाहर इसका प्रभाव स्वतः प्रकट होता जाता है। मनुष्य के अदर जो क्षणजीवी अश है वह देह के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है, किन्तु मनुष्य का जो शाश्वत अविनाशी अश है वह तो देह के भस्मीभूत होने पर भी जीवित रहता है और देह का बधन दूर हो जाने से वह और भी अधिक प्रकाशमान हो जाता है। इस विचार को सामने रखकर हमे लालाजी की स्मृति को चिरजीवी रखना चाहिए। हरिजन हिंदू तथा सर्वर्ण हिंदू, दोनों ही स्व० लालाजी का पृथ्यस्मरण करके हिंदू-समाज मे से यह अस्पृश्यता का पाप-कलंक धो डालने का नये सिरे से सकल्प करे। हरिजन तो उन ब्रुटियों को दूर करे जो अत्याचार बर्दाश्ट करते-करते लोगों मे पैदा हो जाती हैं और सर्वर्ण अपने उस पाप को पखारकर शूद्ध हो जाय, जो उन्होंने हरिजनों को जन्मना अस्पृश्य और अपने को जन्मना उच्च मान कर किया है।<sup>१</sup>

: २४ :

### वासंती देवी

कुछ वर्ष पूर्व मैने स्वर्गीय रमाबाई रानडे के दर्शन का वर्णन किया था। मैने आदर्श विधवा के रूप मे उनका परिचय दिया था। इस समय मेरे भाग्य मे एक महान् वीर की विधवा के वैधव्य के आरभ का चित्र उपस्थित करना बदा है।

वासंती देवी के साथ मेरा परिचय १९१९ मे हुआ है। गाढ़ परिचय १९२१ मे हुआ। उनकी सरलता, चातुरी और उनके अतिथि-सत्कार की बहुतेरी बाते मैने सुनी थी। उनका अनुभव

<sup>१</sup>हरिजन-सेवक, २३-११-३४

भी ठीक-ठीक हुआ था। जिस प्रकार दार्जिलिंग में देशबंधु के साथ मेरा सबध घनिष्ठ हुआ उसी तरह वासती देवी के साथ भी हुआ। उनके वैधव्य में तो परिचय बहुत ही बढ़ गया है। जब से वह दार्जिलिंग से शव को लेकर कलकत्ते आई है तब से मैं कह सकता हूँ कि उनके साथ ही रहा हूँ। वैधव्य के बाद पहली मुलाकात उनके दामाद के घर हुई। उनके आस-पास बहुतेरी बहने बैठी थी। पूर्वाश्रम में तो जब मैं उनके कमरे में जाता तो खुद वही सामने आती और मुझे बुलाती। वैधव्य में मुझे क्या बुलाती? पुतली की तरह स्तम्भित बैठी अनेक बहनों में से मुझे उन्हे पहचानना था। एक मिनट तक तो मैं खोजता ही रहा। मांग में सिद्धर, ललाट पर कुकुम, मुह में पान, हाथ में चूड़िया और साड़ी पर लेस, हँस-मुख चेहरा—इनमें मेरे से एक भी चिन्ह मैं न देखूँ तो वासती देवी को किस तरह पहचानूँ? जहा मैंने अनुमान किया था कि वह होगी वहा जाकर बैठ गया और गौर से मुख-मुद्रा देखी। देखना असह्य हो गया। चेहरा तो पहचान में आया। रुदन रोकना असभव हो गया। छाती को पत्थर बनाकर आश्वासन देना तो दूर ही रहा।

उनके मुख पर सदा-शोभित हास्य आज कहाँ था? मैंने उन्हें संत्वना देने, रँझाने और बातचीत कराने की अनेक कोशिशें की। बहुत समय के बाद मुझे कुछ सफलता मिली।

देवी जरा हँसी।

मुझे हिम्मत हुई और मैं बोला, “आप रो नहीं सकती। आप रोवेंगी तो सब लोग रोवेंगे। मोना (बड़ी लड़की) को बड़ी मुश्किल से चुपकी रखा है। बेबी (छोटी लड़की) की हालत तो आप जानती ही है। सुजाता (पुत्रवधु) फूट-फूटकर रोती थी, सो बड़े प्रयास से शात हुई है। आप दया रखिएगा। आपसे अब बहुत काम लेना है।”

वीरांगना ने दृढ़ता-पूर्वक जवाब दिया, “मैं नहीं रोऊंगी।

मुझे रोना आता ही नहीं ।”

मैं इसका धर्म समझा, मुझे सतोष हुआ ।

रोने से दुख का भार हल्का हो जाता है। इस विधवा बहन को तो भार हल्का नहीं करना था, उठाना था। फिर रोती कैसे?

अब मैं कैसे कह सकता था—“लो, चलो, हम भाई-बहन पेट भर रो ले और दुख कम कर ले ?”

हिंदू विधवा दुख की प्रतिमा है। उसने ससार के दुख का भार अपने सिर ले लिया है। उसने दुख को सुख बना डाला है। दुख को धर्म बना डाला है।

वासंती देवी सब तरह के भोजन करती थी। १९२० तक के समय में उनके यहाँ छप्पन भोग होते थे और सैकड़ों लोग भोजन करते थे। पान के बिना वह एक मिनिट नहीं रह सकती थी। पान की डिबिया पास ही पड़ी रहती थी।

अब शृंगार-भाव का त्याग, पान का त्याग, मिष्ठानों का त्याग, मांस-मत्स्य का त्याग, केवल पति का ध्यान, परमात्मा का ध्यान।

इस दुख को सहन करना धर्म है या अधर्म? और धर्मों में तो ऐसा नहीं देखा जाता। हिंदू-धर्मशास्त्रियों ने भूल तो न की हो? वासंती देवी को देखकर मुझे इसमें भूल नहीं दिखाई देती, बल्कि धर्म की शुद्ध भावना दिखाई देती है। वैधव्य हिंदू-धर्म का शृंगार है। धर्म का भूषण वराण्य है, वैभव नहीं। दुनिया भले ही और कुछ कहे तो कहती रहे।

परंतु हिंदू-शास्त्र किसु वैधव्य की स्तुति और स्वागत करता है? १५ वर्ष की मुग्धा के वैधव्य का नहीं जो कि विवाह का अर्थ भी नहीं जानती। बाल-विधवाओं के लिए वैधव्य धर्म नहीं, अधर्म है। वासंती देवी को मदन खुद आकर ललचावे तो वह भस्म हो जाय। वासंती देवी के शिव की तरह तीसरी आंख है। परंतु पद्मह वर्ष की बालिका वैधव्य की शोभा को क्या समझ सकती है? उसके लिए तो वह अत्याचार ही है। बाल-विधवाओं की वृद्धि में मुझे

हिंदू-धर्म की अवनति दिखाई देती है। वासती देवी-जैसी के वैधव्य में मैं शुद्ध धर्म का पोषण देखता हूँ। वैधव्य सब तरह, सब जगह, सब समय, अनिवार्य सिद्धात नहीं है। वह उस स्त्री के लिए धर्म है जो उसकी रक्षा करती है।

रिवाज के कुए में तैरना अच्छा है। उसमे डूबना आत्म-हत्या है।

जो बात स्त्री के सबध में वही बात पुरुष के सबंध में होनी चाहिए। राम ने यह कर दिखाया। सती सीता का त्याग भी वह सह सके। अपने ही किये त्याग से खुद ही जले। जब से सीता गई तब से रामचंद्र का तेज घट गया। सीता के देह का तो त्याग उन्होंने किया, पर उसे अपने हृदय की स्वामिनी बना लिया। उस दिन से उन्हे न तो शृगार भाया, न दूसरा वैभव। कर्तव्य समझ-कर तटस्थता के साथ राज्य-कार्य करते हुए शात रहे।

जिस बात को आज वासती देवी सह रही है, जिसमे से वह अपने विलास को हटा सकती है, वे बाते जबतक पुरुष न करेगे तबतक हिंदू-धर्म अधरा है। 'एक को गुड और दूसरे को थूहर' यह उल्टा न्याय ईश्वर के दरबार में नहीं हो सकता। परंतु आज हिंदू-पुरुषों ने इस ईश्वरीय कानून को उलट दिया है। स्त्री के लिए वैधव्य कायम रखा है और अपने लिए शमशान-भूमि में ही दूसरे विवाह की योजना करने का अधिकार।

वासती देवी ने अबतक किसीके देखते, आसू की एक बूढ़तक नहीं गिराई है। फिर भी उनके चेहरे पर तेज तो आ ही नहीं रहा है। उनकी मुखाकृति ऐसी हो गई है कि मानो भारी बीमारी से उठी हो। यह हालत देखकर मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा समय निकलकर बाहर हवा खाने चलिये। मेरे साथ मोटर मे तो बैठी, पर बोलने क्यों लगी? मैंने कितनी ही बाते चलाईं—वह सूनती रही। पर खुद उसमे बराय नाम शरीक हुईं। हवाखोरी की तो, पर पछताई। सारी रात नीद न आई। "जो बात मेरे पति को अतिशय प्रिय थी वह आज इस अभागिनी ने की। यह क्या

शोक है ?” ऐसे विचारो मे रात गई । भोबल (उनका लड़का) मुझे यह खबर दे गया ! आज मेरा मौनवार है । मैंने कागज पर लिखा है—“यह पागलपन हमे माताजी के सिर से निकालना होगा । हमारे प्रियतम को प्रिय लगानेवाली बहुतेरी बाते हमे उसके वियोग के बाद करनी पड़ती है । माताजी विलास के लिए मोटर मे नहीं बैठी थी, केवल आरोग्य के लिए बैठी थी । उन्हे स्वच्छ हवा की बहुत जरूरत थी । हमे उनका बल बढ़ाकर उनके शरीर की रक्षा करनी होगी । पिताजी के काम को चमकाने और बढ़ाने के लिए हमे उनके शरीर की आवश्यकता है । यह माताजी से कहना ।”

“माताजी ने तो मुझसे कहा था कि यह बात ही आपसे न कही जाय । पर मुझसे न रहा गया । अभी तो यही उचित मालूम होता है कि आप उन्हे मोटर मे बैठने के लिए न कहे ।”—  
भोबल ने कहा ।

बेचारा भोबल ! किसीका लौटाये न लौटने वाला लड़का आज बकरी जैसा बनकर बैठा है । उसका कल्याण हो ।

पर इस साध्वी विघ्वा का क्या ? वैधव्य प्यारा लगता है, फिर भी असह्य मालूम होता है । सुधन्वा खौलते हुए तेल के कड़ाह मे भटकता था और मुझ-जैसे दूर रहकर देखनेवाले उसके दुख की कल्पना करके कापते थे । सती स्त्रियो, अपने दुख को तुम संभाल कर रखना । वह दुख नहीं, सुख है । तुम्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उत्तर गये हैं और उत्तरेंगे ।

वासंती देवी की जय हो !<sup>1</sup>

: २५ :

## स्वामी श्रद्धानंद

जिसकी उम्मीद थी वह ही गुजरा । कोई छ महीने हुए स्वामी श्रद्धानंदजी सत्याग्रहाश्रम में आकर दो-एक दिन ठहरे थे । बातचीत में उन्होने मुझसे कहा था कि उनके पास जब-तब ऐसे पत्र आया करते थे जिनमें उन्हे मार डालने की धमकी दी जाती थी । किस सधारक के सिर पर बोली नहीं बोली गई है ? इसलिए उनके ऐसे पत्र पाने में अचभे की कोई बात नहीं थी । उनका मारा जाना कुछ अनोखी बात नहीं है ।

स्वामीजी सधारक थे । वह कर्मवीर थे, वचनवीर नहीं । जिसमें उनका विश्वास था, उसका वह पालन करते थे । उन विश्वासों के लिए उन्हे कष्ट झेलने पड़े । वह वीरता के अवतार थे । भय के सामने उन्होने कभी सिर नहीं झुकाया । वह योद्धा थे और योद्धा रोग-शैया पर मरना नहीं चाहता । वह तो युद्ध-भूमि का मरण चाहता है ।

कोई एक महीना हुआ कि स्वामी श्रद्धानंदजी बहुत बीमार पड़े । डाक्टर असारी उनकी चिकित्सा करते थे । जितने अनुराग से उनसे सभव था, डाक्टर असारी उनकी सेवा करते थे । इस महीने के शुरू मे मेरे पूछने पर उनके पुत्र प्रो० इद्र ने तार दिया था कि स्वामीजी अब अच्छे हैं और मेरा प्रेम और दुआ मागते हैं । मैं उनके बिना मागे ही उनपर प्रेम और उनके लिए भगवान् से प्रार्थना करता ही रहता था ।

भगवान् को उन्हे शहीद की मौत देनी थी । इसलिए जब वह बीमार ही थे तभी उस हत्यारे के हाथ मारे गये, जो इस्लाम पर धार्मिक चर्चा के नाम पर उनसे मिलना चाहता था, जो स्वामीजी की प्रेरणा से आने दिया गया, जिसने प्यास मिटाने को पानी मागने के बहाने स्वामीजी के ईमानदार नौकर धर्मसिंह को पानी लेने

को बाहर हटा दिया और जिसने नौकर की गैरहाजिरी में बिस्तर पर पड़े हुए रोगी की छाती में दो प्राण-धातक चोटें की। स्वामीजी के अतिम शब्दों की हमें खबर नहीं। लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ भी पहचानता था तो मुझे बिल्कुल सदेह नहीं है कि उन्होंने अपने परमात्मा से उसके लिए क्षमा-याचना की होगी, जो यह नहीं जानता था कि वह पाप कर रहा है। इसलिए गीता की भाषा में वह योद्धा धन्य है जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है।

मृत्यु तो हमेशा ही धन्य होती है, मगर उस योद्धा के लिए तो और भी अधिक जो अपने धर्म के लिए यानी सत्य के लिए मरता है। मृत्यु कोई शैतान नहीं है। वह तो सबसे बड़ी मित्र है। वह हमें कष्टों से मुक्ति देती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हमें छुटकारा देती है। हमें बराबर ही नई आशाएं, नये रूप देती है। वह नीद के समान मीठी है, किन्तु तो भी किसी मित्र के मरने पर शोक करने का चलन है। अगर कोई शहीद मरता है तो यह रिवाज नहीं रहता। अतएव इस मृत्यु पर मैं शोक नहीं कर सकता। स्वामीजी और उनके सबधीं ईर्ष्याँ के पात्र हैं, क्योंकि श्रद्धानन्दजी मर जाने पर भी अभी जीते हैं। उससे भी अधिक सच्चे रूप में वह जीते हैं, जब वह हमारे बीच अपने विशाल शरीर को लेकर घूमा करते थे। ऐसी महिमामय मृत्यु पर जिस कुल में उनका जन्म हुआ था, जिस जाति के वह थे, सभी धन्यता के पात्र हैं। वह बीर पुरुष थे। उन्होंने बीर-गति पाई।<sup>१</sup>

स्वामी श्रद्धानन्द की दृष्टि से इस प्रसग को धर्म-प्रसग कहेगे। वह बीमार थे। मुझे तो कुछ खबर न थी, किन्तु एक मित्र ने खबर दी कि स्वामीजी भाग्य से ही बच जाय तो बच जाय। पीछे से मेरे तार के उत्तर मे उनके लड़के का तार मिला कि उन्हें धीरे-धीरे आराम हो रहा है। यह भी मालूम हुआ कि डाक्टर असारी बहुत

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, २३-१२-२६

अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं। इस प्रकार की गभीर बीमारी मे वह बिछौने पर पड़े थे और उसपर ही उनके प्राण लिये गये। मरना तो सबको है, कितु यो मरना किस काम का! सारे हिन्दु-स्तान मे और पृथ्वी पर जहां-जहा हिन्दुस्तानी लोग होगे, वहां-वहा स्वामीजी के, स्वाभाविक बीमारी से, मरने से जो असर होता उसकी अपेक्षा इस अपूर्व मरण से अजीब ही असर होगा। मैंने भाई इद्र को समवेदना का एक भी तार या पत्र नहीं लिखा है। उन्हे और कुछ दूसरा कह ही नहीं सकता। इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता को जो मृत्यु मिली है, वह धन्य मृत्यु है।

कितु यह सब बात तो मैंने स्वामीजी की दृष्टि से, मेरी अपनी दृष्टि से की है। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि मेरे लेखे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही एक हैं। मैं जन्म से हिन्दू हूँ और हिन्दू-धर्म मे मुझे शाति मिलती है। जब-जब मुझे अशाति हुई, हिन्दू-धर्म मे से ही मुझे शाति मिली है। मैंने दूसरे धर्मों का भी निरीक्षण किया है और इसमे चाहे जितनी कमिया और त्रुटिया होवे तो भी मेरे लिए यही धर्म उत्तम है। मुझे ऐसा लगता है और इसीसे मैं अपनेको सनातनी हिन्दू मानता हूँ। कितने ही सनातनियों को मेरे इस दावे से डुख होता है कि विलायत से आकर यह सुधरा हुआ आदमी हिन्दू कैसा! कितु मेरा हिन्दू होने का दावा इससे कुछ कम नहीं होता और यह धर्म मुझे कहता है कि मैं सबके साथ मित्रता से रहूँ। इसीसे मुझे मुसलमानों की दृष्टि भी देखनी है।

मुसलमान की दृष्टि से जब इस बात का विचार करता हूँ तो मुझे दूसरी ही बात मालम पड़ती है। यह काढ मुसलमान के हाथ बन पड़ा, धर्म-चर्चा के बहाने घर मे प्रवेश करके उसने यह कृत्य किया। नौकर ने तो कहा, “स्वामीजी बीमार है। आज नहीं मिल सकते।” दरवाजे पर हुज्जत हुई। स्वामीजी ने सुनकर कहा, “अच्छा है, आ जाने दो।” और स्वामीजी मे उससे बात करने की शक्ति न रहने पर भी उन्होंने बाते की। बात करने की तो उनमे ताकत ही नहीं थी। स्वामीजी को तो उसे समझाकर विदा

कर देने को था, इसलिए बुलाकर कहा, “भाई, अच्छे हो जाने पर तुम्हे जितनी बहस करनी हो कर लेना, कितु आज तो बिछौने पर पड़ा हूँ।” इसपर उसने पानी मारा। धर्मसिंह को स्वामीजी ने आज्ञा दी, “इनको पानी पिला दो।” आज्ञाकारी नौकर पानी लेने जाता है, तबतक तो यहाँ उसने रिवाल्वर निकाल ली। एक से सतोष न हुआ तो दो गोली मारी। स्वामीजी ने उसी समय प्राण खोये। धर्मसिंह आवाज सुनकर अपने मालिक को बचाने दौड़ा, कितु बचावे कौन? ईश्वर को स्वामीजी के शरीर की रक्षा नहीं करनी थी।

हमारे लिए यह एक अच्छा शिक्षा-पाठ बनना चाहिए कि स्वामीजी का खून अब्दुलरशीद के हाथों हो। इससे हम एक-दूसरे को समझ ले।

श्रद्धानन्दजी और मेरे बीच कैसा सबध था, वह तो आज मैं यहा नहीं कहूँगा। मेरे सामने वह अपने दिल की बाते कहा करते थे। कोई छ महीने हुए जब वह आश्रम मे आये थे तब कहते थे, “मेरे पास धमकी के कितने पत्र आते हैं। लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारी जान ले ली जायगी, पर मुझे उनकी कुछ परवा नहीं।” वह तो बहादुर आदमी थे। उनसे बढ़कर बहादुर आदमी मैंने ससार मे नहीं देखा। मरने का उन्हे डर नहीं था, क्योंकि वह सच्चे आस्तिक, ईश्वरवादी आदमी थे। इसीसे उन्होने कहा—मेरी जान अगर ले ही ली जाय तो उसमे होना ही क्या है? १

स्वामीजी से मेरा पुहला परिचय तब हुआ जब वह महात्मा मुशीराम के नाम से प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रों से हुआ। उस समय वह कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान थे, जोकि उनका सबसे पहला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है। वह सिर्फ पश्चिमी शिक्षा-पद्धति से ही सतुष्ट न थे। लड़कों मे वे वेद-शिक्षा का प्रचार करना

चाहते थे और वह पढ़ाते थे हिंदी के जरिए, अग्रेजी के नहीं। शिक्षा-काल मे वह उन्हें ब्रह्मचारी रखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियों के लिए उस समय जो धन इकट्ठा किया जा रहा था, उसमे चंदा देने के लिए लड़कों को उन्होने उत्साहित किया था। वह चाहते थे कि लड़के खुद कुली बनकर, मजदूरी करके चंदा दे, क्योंकि वह युद्ध क्या कुलियों का नहीं था? लड़कों ने यह सब पूरा कर दिखाया और पूरी मजदूरी कमाकर मेरे पास भेजी। इस विषय मे स्वामीजी ने मुझे जो पत्र भेजा था, वह हिंदी मे था। उन्होने मुझे 'मेरे प्रिय भाई' कहकर लिखा था। इसने मुझे महात्मा मुशीराम का प्रिय बना दिया। इससे पहले हम दोनों कभी मिले नहीं थे।

हम लोगों के बीच के सूत्र ऐड्यूक्यू थे। उनकी इच्छा थी कि जब कभी मैं देश लौटू, उनके तीनों मित्रों, कवि ठाकुर, प्रिसिपल रुद्र और महात्मा मुशीराम से परिचय प्राप्त करूँ।

वह पत्र पाने के बाद से हम दोनों एक ही सेना के सैनिक बन गये। उनके प्रिय गुरुकुल मे हम १९१५ मे मिले और उसके बाद से हरेक मुलाकात मे हम दोनों परस्पर निकट आते गये और एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे। प्राचीन भारत, सस्कृत और हिंदी के प्रति उनका प्रेम असीम था। बेशक, असहयोग के पैदा होने के बहुत पहले से ही वह असहयोगी थे। स्वराज के लिए वह अधीर थे। अस्पृश्यता से वह नफरत करते थे और अस्पृश्यों की स्थिति उच्ची करना चाहते थे। उनकी स्वाधीनता पर कोई बंधन लगाना वह नहीं सह सकते थे।

जब 'रौलट एक्ट' का आंदोलन शुरू हुआ तो उसे सबसे पहले शुरू करनेवालों मे से वह थे। उन्होने मुझे बहुत ही प्रेम से भरा हुआ एक पत्र भेजा। कितु वीरमगाम और अमृतसर-कांड के बाद सत्याग्रह को स्थगित किया जाना वह नहीं समझ सके। उस समय से हमारे बीच मतभेद शुरू हुए, किन्तु उससे हम लोगों के भाई-भाई के सबध मे कभी कोई अतर नहीं पड़ा। उस मतभेद

से मुझपर उनका बाल-सुलभ स्वभाव प्रकट हुआ। परिणाम का विचार किये बिना ही, उन्हे जैसा मालूम था मुझसे सच्ची बात कह दी। वह अतिसाहसिक थे। समय बीतनेके साथ-साथ हम दोनों मे जो स्वभाव का अतर था, उसे मै देखता गया, किन्तु उससे तो उनकी आत्मा की शृङ्खला ही सिद्ध हुई। सबको सुनाकर विचार करना कुछ पाप नहीं है। यह तो एक गुण है। यह सत्य-प्रियता का सर्वप्रधान लक्षण है। स्वामीजी ने अपने विचार गुप्त रखे ही नहीं।

बारडोली के निश्चय से उनका दिल टूट गया। मुझसे वह निराश हो गये। उनका प्रकट विरोध बहुत जबर्दस्त था। मेरे नाम उनके निजी पत्रों मे और भी विरोध होता था, किन्तु हमारे मतभेद पर जितना वह जोर देते थे, प्रेम पर भी उतना ही। प्रेम का विश्वास केवल पत्रों मे ही दिला देने से वह सतृष्टि न थे। मौका मिलने पर उन्होंने मुझे ढूढ़ निकाला और मुझे अपनी स्थिति समझाई और मेरी समझने की कोशिश थी। मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूढ़ने का असल कारण यह था कि अगर जरूरत हो तो मुझे वह विश्वास दिला सके कि एक छोटे भाई के समान मुझपर उनकी प्रीति जैसी-की-तैसी बनी हुई है।

आर्यसमाज और उसके स्थापक पर मेरे मतों से और उनके नाम का उल्लेख करने से उन्हे बहुत कष्ट हुआ, परतु इस धक्के को सह लेने की क्षमिता हमारी मित्रता मे थी। वह यह नहीं समझ सकते थे कि महर्षि के विषय मे मेरे मतों और अपने व्यक्तिगत शत्रुओं के प्रति ऋषि की असीम क्षमा का एक साथ कैसे मेल बैठ सकता है। महर्षि मे उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उनपर या उनकी शिक्षाओं पर कोई भी टीका वह सह नहीं सकते थे।

शुद्धि-आदोलन के लिए मूसलमान पत्रों मे उनकी बड़ी कड़ी आलोचनाएँ और निदा की गई हैं। मै स्वयं उनके दृष्टि-बिदु को स्वीकार नहीं कर सका था। अब भी मै उसे नहीं मानता। किन्तु मेरी नजर मे, अपने दृष्टि-बिदु से वह, अपनी स्थिति का पूरा बचाव

करते थे, जबतक शुद्धि और तबलीग मर्यादा के भीतर रहे, तब तक दोनों ही बराबर छूट के अधिकारी हैं।

. अगर हम हिन्दू और मुसलमान दोनों शुद्धि का आतंरिक अर्थ समझ सकते तो स्वामीजी की मृत्यु से भी लाभ उठाया जा सकता था।

एक महान सुधारक के जीवन के स्मरणों को मैं सत्याग्रहाश्रम में, उनके कुछ महीनों पहले के आखिरी आगमन की बात के बिना खत्म नहीं कर सकता। वह मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। कुछ मुसलमानों का विश्वास वह बेशक नहीं करते थे, किंतु उन लोगों से उनका कुछ द्वेष नहीं था। उनका ख्याल था कि हिन्दू दबा दिये गये हैं और उन्हे बहादुर बनकर अपनी और अपनी इज्जत की रक्षा करने योग्य बनना चाहिए। इस बारे मेरे उन्होंने मुझसे कहा था कि “मेरे विषय मेरे बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। मेरे विश्व एक ही जानेवाली कई बातों मेरे मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरे पास धर्मकी के कितने एक पत्र आया करते हैं।” मित्रगण उन्हे अकेले चलने से मना करते थे। मगर यह परम आस्तिक पुरुष उनका जवाब दिया करता था, “ईश्वर की रक्षा के सिवाय और किस रक्षा का मैं भरोसा करूँ? उसकी आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। मैं जानता हूँ कि जबतक वह मुझसे इस देह के द्वारा सेवा लेना चाहता है, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता।”

आश्रम मेरे रहते समय उन्होंने आश्रम-पाठशाला के लड़के-लड़कियों से बाते की। उनका कहना था कि हिन्दू-धर्म की सबसे बड़ी रक्षा आत्म-शुद्धि से ही होगी, भीतर से ही होगी। चारित्र्य और शरीर के गठन के लिए ब्रह्माचर्य पर वह बहुत जोर देते थे।

...  
... वीर पुरुष को जब ऐसी मृत्यु मिलती है तो वह उसे

मित्र के समान गले लगता है। किन्तु इससे कोई यह नहीं चाहता कि उसका कोई खुन करे। कोई भी अपने साथ अन्याय करे, गुनह-गार बने, कोई भी मनुष्य दुष्कृत्य करे, ऐसी इच्छा ही करना अनुचित है।

स्वामीजी वीरों के अग्रणी थे। अपनी वीरता से उन्होंने भारत को आश्चर्य-चकित कर दिखाया। इसका साक्षी मैं हूँ कि देश के लिए अपना शरीर कुर्बान करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। वह अनाथ-बधु थे। अद्यूतों के लिए उन्होंने जितना किया उससे अधिक हिंदुस्तान में दूसरे किसीने नहीं किया। उनकी दूसरी सेवाओं का वर्णन मैं यहां करना नहीं चाहता। स्वामीजी के जैसे वीर, देशभक्त, ईश्वर के अनन्यभक्त और सेवक का खून देश के लिए जैसा लाभदायक है, वैसा ही, उसे दुख होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग अपूर्ण मनुष्य हैं।

स्वामीजी आत्म-बलिदान से दूसरा ही धर्म बतला गये हैं। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कि आर्यसमाज उदार कैसे नहीं? आप क्या जानते हैं कि महर्षि दयानंद ने अपनेको जहर देनेवाले के साथ क्या किया था। मैंने जवाब दिया कि मैं महर्षि की क्षमाशीलता को जानता हूँ। मगर स्वामीजी तो महर्षि के भक्त थे। उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। महर्षि क्षमाशील थे, क्योंकि उनके आगे युधिष्ठिर का उज्ज्वल उदाहरण था। वह उपनिषदों के भक्त थे। श्रद्धानन्दजी भी वैसे ही क्षमाशील थे। शुद्धि पर बाते करते समय उन्होंने एक बार कहा था कि “मैं मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन नहीं मानता।” ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ के सिद्धात का उपदेश करने वाले और गीता के भक्त श्रद्धानन्दजी किसीको दुश्मन क्योंकर मान सकते थे? उन्होंने कहा, “मैं मुसलमानों को भाई मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, किन्तु हिंदू को भी भाई मानता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ।”

आज श्रद्धानन्दजी के लिए आसू बहाने का समय नहीं है।

आज तो क्षत्रियता बताने का अवसर है। क्षत्रियता क्षत्रिय का खास गुण भले ही हो मगर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी उसे दिखा सकते हैं। खासकर आज का 'स्वराज यूग' हम सबके लिए क्षत्रियता का युग है। इसलिए रोने की बात छोड़ दे और श्रद्धाननदजी के बलिदान से, रशीद के किये खून से जो पाठ मिले उसे हृदय में धरें।<sup>1</sup>

...                    ...                    ...

स्वामीजी का देहात हुआ ही नहीं है। देहात तो तब होगा जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर्चं कि सच्ची बात तो यह है कि हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश होने को नहीं है। जबतक यह गुरुकुल कायम है, जबतक एक भी स्नातक गुरुकुल की सेवा करता है, तबतक स्वामीजी जीते ही हैं। स्वामीजी का शरीर तो किसी दिन गिरने को था ही। पर स्वामीजी का सबसे बड़ा काम गुरुकुल है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसमें लगा दी थी। इसे पैदा करने में उन्होंने अधिक-से-अधिक तपश्चर्या की थी। तुमने सत्य की प्रतिज्ञा ली है। अगर तुम अपने वचन का पालन करोगे तो किसीकी शक्ति नहीं कि वह गुरुकुल को मिटा दे।

पर गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और क्षमा की जरूरत है, जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का लक्षण क्षमा, और ब्रह्मचर्य और वीर्य का समय है। वीरता और वीर्य की रक्षा से तुम देश और धर्म की पूरी-पूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत-से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करता है तो कोई गाली देते हैं। स्तुति तो नाकाम चीज़ है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता। परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़कर गाली देते हैं तो मुझे चिता होती है क्योंकि क्रोध से वीर्य का नाश

<sup>1</sup> हिंदी नवजीवन, १३-१-२७

होता है। स्वामीजी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या रखी थी और वह मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। हा, ब्रह्मचर्य वहा से गुरु जरूर होता है। पर क्षमा की पराकाल्पा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले साल स्वामीजी जब टकारिया से लौटते समय मुझसे मिलने गये थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि 'हिंदूधर्म की रक्षा-नीति से ही सभव है'। अगर तुम वैदिक आचार और विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वस्तु याद रखो कि तुम्हें पग-पग पर स्पर्श मिल जायगे, मगर ब्रह्मचर्य का, नीति का पाया यहापर न होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल जायगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं है। इसकी आत्मा तुम्ही हो। अगर तुम आत्म-बल खो दोगे और 'उदरनिमित्त बहुकृतवेष' जैसे बन जाओगे तो तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जायगी।

मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नहीं आया हूँ। तुम्हारा पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का—क्षमा का है। उसे भल जाओगे तो स्वामीजी का नाम कायम नहीं रहेगा। रशीद की गोली से स्वामीजी का क्या हुआ? वह तो उस गोली से ही अमर हुए।

स्वामीजी का दूसरा काम अद्वृतोद्धार था। जिन शब्दों में मालवीयजी ने खादी की वकालत की, मैं नहीं कर सकता। पर इतना जरूर कहूँगा कि अगर हम हमेशा गरीबों और अद्वृतों की फिक्र रखेंगे तो खादी से अलग नहीं रह सकते।

ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, गुरुकुल का कल्याण करे और स्वामीजी का हरेक काम परमात्मा चालू रखें।<sup>9</sup>

<sup>9</sup> हिंदी नवजीवन, ३१-३-२७

: २६ :

## श्रीनिवास शास्त्री

दक्षिण अफ्रीका-निवासी भारतीयों को यह सुनकर बड़ी तसल्ली होगी कि माननीय शास्त्री ने पहला भारतीय राजदूत बनकर अफ्रीका में रहना स्वीकार कर लिया है, बशर्ते कि सरकार वह स्थान ग्रहण करने के प्रस्ताव को आखिरी बार उनके सामने रखे। भारत-सेवक-समिति और शास्त्रीजी ने यह बड़ा ही त्याग किया है, जो वह इस निर्णय पर पहुंचे है। यह तो एक प्रकट रहस्य है कि यदि यह प्रस्ताव नहीं किया जाता तो वह भारत में अपना काम छोड़कर इस जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेने के जरा भी इच्छुक नहीं थे। परन्तु जब उनसे साग्रह यह अनुरोध किया गया कि वह ही एक ऐसे आदमी हैं, जो उस समझौते के अनुसार कार्य शुरू कर सकते हैं, जिसके स्वीकृति कराने में उनका बहुत भारी हाथ रहा है, तो उन्हे इस प्रार्थना और आग्रह को मजर करना ही पड़ा। दक्षिण अफ्रीका से समय-समय पर जो तार भैंजे गये थे उनसे हमें पता चलता है कि वहा के अग्रेज भी इस बात के लिए कितने उत्सुक थे कि शास्त्रीजी ही इस सम्माननीय पद को ग्रहण करे। शास्त्रीजी की वकृत्व-शक्ति, निस्पृहता, मधुर विवेक-शीलता और असीम सचाई ने यनियन सरकार और वहा के यूरोपीय लोगों के हृदय में उनके लिए चाहूं और आदर उत्पन्न कर दिया, जब वह हबीवुल्ला-शिष्टमडल के साथ कुछ दिन के लिए दक्षिण अफ्रीका गये थे। मैं खुद जानताहूं कि हमारे दक्षिण अफ्रीका-निवासी भाई इस बात के लिए कितने असीम चितातुर थे कि किस प्रकार शास्त्रीजी ही, वहा भारत के पहले राजदूत बनकर जाय। और श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्रीजी के लिए भी तो, जिन्हे परमात्मा ने ऐसे उदार हृदय से भूषित किया है, ऐसे सर्वसम्मत अनुरोध को अस्वीकार करना असंभव था। अब यह प्राय निश्चित है कि श्रीघ्रा

ही उनकी बाकायदा नियुक्ति होकर, उसकी खबर प्रकाशित कर दी जायगी।

इन पहले राजदूत का काम भी उनके लिए निश्चित कर दिया जायगा। निस्सदेह, यूनियन सरकार और हमारे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय भाई भी भारत के इस पहले राजदूत से बड़ी-बड़ी आशा ए तो करते ही होंगे। चूंकि शास्त्रीजी स्वयं भारतीय और एक विद्यात पुरुष है, निस्सदेह यूनियन सरकार जरूर यह सोचती होगी कि जहातक भारतीयों से सबध है, उन्हे समझा-बुझाकर शास्त्रीजी सरकार के प्रस्तावों आदि का काम सरल कर देंगे। दूसरे शब्दो में यो कहिये कि यूनियन सरकार उनसे आशा करती है कि शास्त्रीजी उसकी बातों को भारतीय समाज तथा भारत-सरकार के सामने सहानुभूति-पूर्वक रखेंगे। इधर भारतीय समाज भी आशा करता है कि शास्त्रीजी इस बात का जरूर आग्रह करेंगे कि समझौते का सम्मानयुक्त, बल्कि उदारता-पूर्वक पालन हो। दो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों को सतुष्ट करना यो कठिन तो है ही, पर दक्षिण अफ्रीका में, जहा कि जातियों और दलों के स्वार्थों में आश्चर्यजनक पारस्परिक विरोध है, यह काम कही अधिक मश्किल है। किन्तु मैं जानता हूँ कि अगर इस सक्षम तराजू को अपने हाथ में कोई उठा सकता हूँ और दक्षिण अफ्रीका से सबंध रखनेवाले सभी दलों को सतुष्ट कर सकता है तो अकेले शास्त्रीजी ही एक ऐसे आदमी है। मेरा खयाल है कि यूनियन सरकार के मत्री यह तो अपेक्षा नहीं रखते होंगे कि भारतीय समाज को उसके न्याय्य स्वत्वोंको दिलाने में शास्त्रीजी इच भर भी पीछे हट जाय। हा, अधिक-से-अधिक शास्त्रीजी यह कर सकते हैं कि वह भारतीयों को १९१४ के समझौते का उल्लंघन करके आगे बढ़ने से रोकें, कम-से-कम तबतक तो जरूर रोकें, जबतक कि वहा के भारतीय अनु-करणीय आत्मसंयम और अपने अन्य व्यवहार द्वारा १९१४ में प्राप्त किये समझौते से आगे बढ़ने की अपनी पात्रता को सिद्ध नहीं कर देते। अतः यदि इस दक्षिण अफ्रीका के हमारे भारतीय भाई

भारत के प्रतिनिधि के काम को सरल और अपनी परिस्थिति को सुरक्षित कर लेना चाहे तो वे उनसे बड़े-बड़े चमत्कारों की आशाएं करना छोड़ दे । उनका यह अनुमान गलत होगा कि “चूंकि हम अभी एक सम्माननीय समझौता करा चुके हैं और उसपर अमल कराने के लिए भारत का एक महान पुरुष हमारे पहा आ रहा है, इसलिए अब तो हमारी परिस्थिति में एकदम कायापलट हो जायगा ।” उन्हे याद रखना चाहिए कि माननीय शास्त्रीजी वहा उनके बकील बनकर, उनके प्रत्येक व्यक्तिगत शिकायत के लिए लड़ने को नहीं जा रहे हैं । उनको मामूली व्यक्तिगत शिकायत सुना-सुनाकर परेशान करना उस सोने के अडे देनेवाले पक्षी की हत्या करने के समान है । वह तो वहा भारतीय सम्मान के रक्षक बनकर जा रहे हैं । सर्वसाधारण भारतीय समाज के स्वत्व और स्वाधीनता की रक्षा के लिए वह वहा जा रहे हैं । शास्त्रीजी वहा यह देखने के लिए जा रहे हैं कि यूनियन सरकार कहीं कोई नवीन स्कावटी कानून न बनाने पाये । अलावा इसके वह देखेंगे कि वर्तमान कानूनों का पालन उदारता-पूर्वक तो हो रहा है । उनके पालन में भारतीयों के स्वत्वों को कोई हानि तो नहीं हो रही है, आदि । अत यदि उनसे कोई व्यक्तिगत शिकायत की भी जाय तो वह किसी व्यापक सर्वसाधारण नियम का उदाहरण-स्वरूप हो । इस लिए यदि व्यक्तिगत मामलों में शास्त्रीजी की सहायता मांगने में दक्षिण अफ्रीका का भारतीय समाज दूरदर्शी समयम से कामन लेगा तो वह उनकी परिस्थिति को असह्य और उस महान् उद्देश्य के लिए उन्हे असमर्थ बना देगा जिसके लिए वह वहा विशेष रूप से भेजे गये हैं । और सचमुच एक राजदूत की उपयोगिता केवल यही समाप्त नहीं हो जाती कि वह केवल सरकारी पद से सबध रखनेवाले अपने कर्तव्य का पालनभर कर ले, बल्कि उसकी वह अप्रत्यक्ष सेवा कहीं अधिक उपयोगी है जो सरकारी तथा गैरसरकारी कामों को लेकर उससे मिलने-जुलनेवाले लोगों पर उसके मिलन-सार स्वभाव और सच्चरित्र के प्रभाव द्वारा होती है । अत यदि

हमारे देशभाईं शास्त्रीजी के दिमागी और हृदय के महान् गुणों  
का उच्चारण करना चाहें तो वे मेरी बताई उपर्युक्त मयोदाओं का  
जरूर ख्याल रखें ।<sup>१</sup>

...  
 ...इस सप्ताह में मिले पत्र में एक सज्जन ने कलर्कस्डोप की प्रसिद्ध घटना का, जिसके बारे में दक्षिण अफीका के अखबारों के पन्ने-के-पन्ने भरे रहते हैं, आखो देखा सच्चा वर्णन किया है । यूनियन सरकार के नि संकोच पूरी और स्पष्ट माफी माग लेने से यद्यपि इस घटना पर राजनैतिक दृष्टि से अब कुछ भी कहना बाकी नहीं रह जाता है और न कुछ कहने की जरूरत ही है तो भी इस बड़यत्र के सामने जिसका कि परिणाम श्री शास्त्रीजी के लिए प्राणात भी हो सकता था, उन्होंने जो उदारता और हिम्मत का व्यवहार किया है उसकी प्रशंसा कितनी ही क्यों न की जाय वह कम ही होगी । मेरे सामने जो पत्र है उससे मालम होता है कि जिस सभा में वह व्याख्यान दे रहे थे, उसको तोड़ दैने के लिए डेप्टीमेयर के नेतृत्व में जो दल आया था उसने बतिया बुझा दी, किर भी वह भारत माता का सच्चा सपूत और प्रतिनिधि अपने स्थान पर यत्किञ्चित् भी घबड़ाये बिना डटा रहा, जरा भी न हटा और जब भड़का होने के कारण सभा के हाल में श्रोताओं को सास लेना भी मुश्किल हो गया तब वह बाहर गये और वहा, जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो, इस घटना के प्रति इशारा तक न करते हुए उन्होंने अपना व्याख्यान पूरा किया । यो तो इस घटना के पहले ही दक्षिण अफीका के यूरोपियनों में वह प्रिय हो गये थे; परतु शास्त्रीजी के इस धीर हिम्मतभरे और उदार आचरण ने वहा के यूरोपियनों के विचार में उन्हे और भी अधिक गौरवान्वित कर दिया है और क्योंकि उन्हें अपने लिए यश नहीं चाहिए था (शास्त्रीजी से अधिक कीति से लजानेवाले मनुष्य कदाचित् ही मिल सकेंगे) उन्होंने,

<sup>१</sup> हिंदौ नवजीवन, २८-४-२७

जिस काम के वह प्रतिनिधि थे, उसके लाभ में अपनी लोकप्रियता का बड़ी योग्यता और सफलता-पूर्वक उपयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके बहुत ही थीड़े समय के निवास में उन्होंने अपने देशवासियों का गौरव बहुत बढ़ा दिया है। हम यह आशा करे कि वहाँ के भारतीय अपने आदर्श व्यवहार से अपनेको उस गौरव के योग्य प्रमाणित करेंगे।

परतु दक्षिण अफ्रीका के मुश्किल और नाजुक प्रश्न को हल करने में उनके कार्य का महत्व केवल इसीपर, जो एक घटना-मात्र है, निर्भर नहीं है। हम उनके दफ्तर की भीतरी कार्यवाही के विषय में, सिवा उनके परिणामों के कुछ नहीं जानते। पर इसमें उन्हें उस सारी राजनीति-कला का उपयोग करना पड़ता था जो अपने पक्ष के सत्य होने के विश्वास से प्राप्त होती है तथा जो झूठ, कपट तथा नीचता को कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। परतु हम यह ज़रूर जानते हैं कि सस्कृत और अंग्रेजी की अपार विद्वता और जुदा-जुदा विषयों का ज्ञान, वाक्यपटुता इत्यादि कुदरत से प्रचुरता में मिली हुई बख्शीशों को अपने कार्य के लिए उपयोग करने में उन्होंने कोई कसर नहीं की है। चुनंदा यूरोपियनों के बड़े श्रोतृ-समूह के आगे वह भारतीय तत्वज्ञान और सस्कृति पर व्याख्यान देते हैं, जिससे उनके दिलों पर बड़ा असर होता था और उस पक्षपात के परदे को, जिसके कारण यूरोपियनों का बड़ा समूह अबतक भारतीयों में कोई गुण ही नहीं देख सकता था, उन्होंने पतला कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रश्न में, ये व्याख्यान ही शायद उनका सबसे बड़ा और अधिक स्थायी हिस्सा है।<sup>१</sup>

...  
मौत ने न सिर्फ हमारे बीच से, बल्कि समूची दुनिया के  
...  
...

<sup>१</sup> हिंदी नवजीवन, १८-१०-२८

बीच से भारत-माता के एक बड़े-से-बड़े सपूत को उठा लिया है। उनके परिचय मे आनेवाला हरकोई देख सकता था कि वह हिंदु-स्तान को बहुत ही प्यार करते थे। पिछले दिनों जब मैं उनसे मद्रास मे मिला था, उन्होंने सिवा हिंदुस्तान और उसकी संस्कृति के, जिनके लिए वह जीये और मरे, दूसरी किसी बात की चर्चा ही नहीं की। जब वह मृत्यु-शाय्या पर पड़े दीखते थे, तब भी मुझे विश्वास है कि उनको अपनी कोई चिंता नहीं थी। उनका संस्कृत-ज्ञान अग्रेजी के उनके अगाध ज्ञान से ज्यादा नहीं तो कम भी न था। मुझे एक ही बात और कहनी है और वह यह कि अगर राजनीति मे हमारे खयाल एक-दूसरे से मिलते नहीं थे, तो भी हमारे दिल एक ही थे और मैं यह कभी सोच नहीं सकता कि उनकी देशभक्ति हमारे किसी बड़े-से-बड़े देशभक्त से कम थी। शास्त्रीजी जिदा है, यद्यपि उनका नामधारी शरीर भस्म हो चुका है।<sup>१</sup>

: २७ :

## नारायण हेमचंद्र

स्वर्गीय नारायण हेमचन्द्र विलायत आये थे। मैं सुन चुका था कि वह एक अच्छे लेखक है। नेशनल इंडियन एसो-सिएशनवाली मिस मैनिंग के यहा उनसे मिला। मिस मैनिंग जानती थी कि सबसे हिल-मिल जाना मैं नहीं जानता। जब कभी मैं उनके यहा जाता तब चुपचाप बैठा रहता। तभी बोलता, जब कोई बातचीत ढेढ़ता।

उन्होंने नारायण हेमचन्द्र से मेरा परिचय कराया।

नारायण हेमचन्द्र अग्रेजी नहीं जानते थे। उनका पहनावा

<sup>१</sup> हरिजन सेबक, २१-४-४६

विचित्र था । बेढगी पतलून पहने थे । उसपर था एक बादामी रंग का मैला कुचला-सा पारसी काट का बेडौल कोट । न नेकटाई, न कालर । सिर पर उन की गुथी हुई टोपी और नीचे लंबी दाढ़ी ।

- बदन इकहरा, कद नाटा कह सकते हैं । चेहरा गोल था, उसपर चेचक के दाग थे । नाक न नोकदार थी, न चपटी । हाथ दाढ़ी पर फिरा करता था ।

वहा के लाल-गलाल फैशनेबल लोगों में नारायण हेमचद्र विचित्र मालूम होते थे । वह औरों से अलग छटक पहते थे ।

“आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है । आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं । आप मेरे घर चलिये न ?”

नारायण हेमचद्र की आवाज जरा भर्दाई हुई थी । उन्होंने हँसते हुए जवाब दिया—

“आप कहा रहते हैं ?”

“स्टोर स्ट्रीट मे ।”

“तब तो हम पड़ोसी हैं । मुझे अग्रेजी सीखना है । आप सिखा देंगे ?”

मैंने जवाब दिया—“यदि मैं किसी प्रकार भी आपकी सहायता कर सकता मुझे बड़ी खुशी होगी । मैं अपनी शक्ति भर कोशिश करूँगा । यदि आप चाहे तो मैं आपके यहा भी आ सकता हूँ ।”

“जी नहीं, मैं खुद ही आपके पास आऊँगा । मेरे पास पाठ-माला भी है । उसे लेता आऊँगा ।”

समय निश्चित हुआ । आगे चलकर हम दोनों में बड़ा स्नेह हो गया ।

नारायण हेमचद्र व्याकरण जरा भी नहीं जानते थे । ‘घोड़ा’ क्रिया और ‘दौड़ा’ सज्जा बन जाती है । ऐसे मजेदार उदाहरण तो मुझे कई याद हैं । परन्तु नारायण हेमचद्र ऐसे थे, जो मुझे भी हजम कर जाय । वह मेरे अल्प व्याकरण-ज्ञान से अपनेको भूला देनेवाले जीव न थे । व्याकरण न, जानने पर वह किसी प्रकार लज्जित न होते थे ।

“मैं आपकी तरह किसी पाठशाला मे नहीं पढ़ा है। मुझे अपने विचार प्रकट करने मे कहीं व्याकरण की सहायता की जरूरत नहीं दिखाई दी। अच्छा, आप बगला जानते हैं? मैं तो बगला भी जानता हूँ। मैं बगल मे भी घृमा हूँ। महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तको का अनुवाद तो गुजराती जनता को मैंने ही दिया है। अभी कई भाषाओं के सुदर ग्रंथो के अनुवाद करने हैं। अनुवाद करने मे भी शब्दार्थ पर नहीं चिपटा रहता। भावमात्र दे देने से मुझे सतोष हो जाता है। मेरे बाद दूसरे लोग चाहे भले ही सुदर वस्तु दिया करे। मैं तो बिना व्याकरण पढ़े मराठी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ और अब अग्रेजी भी जानने लग गया हूँ। मुझे तो सिर्फ शब्द-भडार की जरूरत है। आप यह न समझ ले कि अकेली अग्रेजी जान लेने भर से मुझे सतोष हो जायगा। मुझे तो फ्रान्स जाकर फ्रेंच भी सीख लेनी है। मैं जानता हूँ कि फ्रेंच साहित्य बहुत विशाल है। यदि हो सका तो जर्मन जाकर जर्मन भाषा भी सीख लूँगा।”

इस तरह नारायण हेमचन्द्र की वाग्धारा बे-रोक बहती रही। देश-देशातरों मे जाने व भिन्न-भिन्न भाषा सीखने का उन्हे असीम शौक था।

“तब तो आप अमेरिका भी जरूर ही जावेगे।”

“भला इसमे भी कोई सदेह हो सकता है। इस नवीन दुनिया को देखे बिना कही वापस लौट सकता हूँ।”

“पर आपके पास इतना धन कहा है?”

“मुझे धन की क्या जरूरत पड़ी है? मुझे आपकी तरह तडक-भडक तो रखना है ही नहीं। मेरा खाना कितना और पहनना क्या? मेरी पुस्तको से कुछ मिल जाता है और थोड़ा-बहुत मित्र लोग दे दिया करते हैं, वह काफी है। मैं तो सर्वत्र तीसरे दर्जे मे ही सफर करता हूँ। अमेरिका तो डेक मे जाऊँगा।”

नारायण हेमचन्द्र की सादगी बस उनकी अपनी थी। हृदय भी उनका वैसा ही निर्मल था। अभिमान छू तक नहीं गया था।

लेखक के नाते अपनी क्षमता पर उन्हे आवश्यकता से भी अधिक विश्वास था ।

हम रोज मिलते । हमारे बीच विचार तथा आचार-सम्बन्ध भी काफी था । दोनों अन्नाहारी थे । दोपहर को कई बार साथ ही भोजन करते । यह मेरा वह समय था, जब मेरे प्रति सप्ताह सत्रह शिर्लिंग मेरी अजना गुजरा करता और खाना खुद पकाया करता था । कभी मैं उनके मकान पर जाता तो कभी वह मेरे मकान पर आते । मैं अंग्रेजी ढंग का खाना पकाता था, उन्हें देशी ढंग के बिना संतोष नहीं होता था । उन्हें दाल जहरी थी । मैं गाजर इत्यादि का रसा बनाता । इसपर उन्हें मुङ्गपर बड़ी दिया आता । कहीं से वह मूग ढूँढ़ लाये थे । एक दिन मेरे लिए मूग पकाकर लाये, जो मैंने बड़ी रुचि-पूर्वक खाये । फिर तो हमारा इस तरह का देने-लेने का व्यवहार बहुत बढ़ गया । मैं अपनी चीजों का नमूना उन्हे चखाता और वह मुझे चखाते ।

इस समय कार्डिनल मैर्निंग का नाम सबकी जबान पर था । डाक के मजदूरों ने हड्डताल कर दी थी । जानबंस और कार्डिनल मैर्निंग के प्रयत्नों से हड्डताल जल्दी बंद हो गई । कार्डिनल मैर्निंग की सादगी के विषय में जो डिसरैलो ने लिखा था, वह मैंने नारायण हेमचंद्र को सुनाया ।

“तब तो मुझे उस साधु पुरुष से जरूर मिलना चाहिए ।”

“वह तो बहुत बड़े आदमी है । आपसे क्यों कर मिलेंगे ?”

“इसका रास्ता मैं बता देता हूँ । आप उन्हे मेरे नाम से एक पत्र लिखिये कि मैं एक लेखक हूँ । आपके परोपकारी कार्यों पर आपको धन्यवाद देने के लिए प्रत्यक्ष मिलना चाहता हूँ । उसमे यह भी लिख दीजिएगा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता । इसलिए—अपना नाम लिखिए—बताऊं दुभाषिए के मेरे साथ रहेंगे ।”

मैंने इस मजमून का पत्र लिख दिया । दो-तीन दिन मेरी कार्डिनल मैर्निंग का काढ़े आया । उन्होंने मिलने का समय दे दिया था ।

हम दोनों गये। मैंने तो, जैसाकि रिवाज था, मुलाकाती कपड़े पहन लिये। नारायण हेमचंद्र तो ज्यो-के-त्यो, सनातन! वही कोट और वही पतलन। मैंने जरा मजाक किया, पर उन्होंने उसे साफ हँसी में उड़ा दिया और बोले—

“तुम सब सुधारप्रिय लोग डरपोक हो। महापुरुष किसीकी पोशाक की तरफ नहीं देखते। वे तो उसके हृदय को देखते हैं।”

कार्डिनल के महल में हमने प्रवेश किया। मकान महल ही था। हम बैठे ही थे कि एक दुबले से ऊचे कदवाले वृद्ध पुरुष ने प्रवेश किया। हम दोनों से हाथ मिलाया। उन्होंने नारायण हेमचंद्र का स्वागत किया।

“मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैंने आपकी कीर्ति सुन रखी थी। आपने हड्डताल में जो शुभ काम किया है, उसके लिए आपका उपकार मानना था। ससार के साधु पुरुषों के दर्शन करने का मेरा अपना रिवाज है। इसलिए आपको आज यह कष्ट दिया है।”

इन वाक्यों का तरजुमा करके उन्हे सुनाने के लिए ‘हेमचंद्र’ ने मुझसे कहा।

“आपके आगमन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहां का निवास अनुकूल होगा और यहां के लोगों से आप अधिक परिचय करेंगे। परमात्मा आपका भला करे।” यो कहकर कार्डिनल उठ खड़े हुए।

एक दिन नारायण हेमचंद्र मेरे यहां घोती और कुरता पहन-कर आये। भली मकान-मालिकिन ने दरवाजा खोला और देखा तो डर गई। दौड़कर मेरे पास आई और बोली—“एक पागल-सा आदमी आपसे मिलना चाहता है।” मैं दरवाजे पर गया और नारायण हेमचंद्र को देखकर दंग रह गया। उनके चेहरे पर वही नित्य छा हास्य चमक रहा था।

“पर आपको लड़को ने नहीं सताया?”

“हा, मेरे पीछे पड़े ज़रूर थे, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया तो वापस लौट गये ।”

नारायण हेमचंद्र कुछ महीने इगलैड मे रहकर पेरिस चले गये । यहा फ्रेच का अव्ययन किया और फ्रेच पुस्तको का अनुवाद करना शुरू कर दिया । मैं इतनी फ्रेच जान गया था कि उनके अनुवादो को जाच ल । मैंने देखा कि वह तर्जमा नहीं, भावार्थ था ।

अत मे उन्होने अमेरिका जाने का अपना निश्चय भी निबाहा । बड़ी मुश्किल से डेक या तीसरे दर्जे का टिकट प्राप्त कर सके थे । अमेरिका मे जब वह धोती और कुरता पहनकर निकले तो असभ्य पोशाक पहनने का जुर्म लगाकर वह गिरफतार कर लिये गये थे । पर जहातक मझे याद है, बाद मे वह छठ गये ।<sup>1</sup>

050547

## Access and use

Sharif University Library

## Tibetan Buddhist Samadhi

**INPUTTED  
SLIM**